

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014—वैशाख 19, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 911-जि.श.वि.अ.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद् जैतवारा, जिला सतना के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

अनुसूची

	(1)	(2)
8	प्रियदर्शनी वार्ड	
9	मालवीय वार्ड	
10	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	
11	विवेकानन्द वार्ड	
12	भगत सिंह वार्ड	
13	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	
14	राणा प्रताप वार्ड	
15	सरदार पटेल वार्ड	

#### वार्ड क्रमांक 1—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—किटहा गांव की सीमा से बटइया नाला संगम तक।

दक्षिण—कोठी जैतवारा मार्ग में प्राथमिक पाठशाला से श्यामलाल गुप्ता के मकान तक एवं पुना डोहर के घर तक।

पूर्व—चिल्ला की पश्चिमी सीमा एवं बटइया नाला तक।

पश्चिम—लगना नदी के पुल से उत्तर की ओर मुड़कर कोठी जैतवारा मार्ग तक एवं लगना नदी का संगम।

#### वार्ड क्रमांक 2—आजाद वार्ड

उत्तर—वार्ड क्र. 1 का दक्षिणी भाग मुकेश तिवारी के मकान से होते हुए सुमंत तिवारी के मकान तक एवं बहरा नाला तक।

**दक्षिण**—लगना नाला का संगम.

**पूर्व**—बहरा नाला से लगना नदी का संगम.

**पश्चिम**—मुकेश तिवारी की दुकान के पास से कोठी जैतवारा मार्ग पार कर लगना नदी तक.

### वार्ड क्रमांक 3—नेहरु वार्ड

**उत्तर**—कोठी जैतवारा रोड.

**दक्षिण**—सेमरावल नदी.

**पूर्व**—कोठी जैतवारा रोड रेलवे गेट तक.

**पश्चिम**—बहरा नाला.

### वार्ड क्रमांक 4—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—कस्तुरिया नाला.

**दक्षिण**—जैतवारा कोठी रोड.

**पूर्व**—रेलवे की पश्चिमी बाउन्ड्री.

**पश्चिम**—बहरा नाला.

### वार्ड क्रमांक 5—दीनदयाल वार्ड

**उत्तर**—ग्राम डेहुट की उत्तरी सीमा से होते हुए किटहा ग्राम की सीमा एवं रेलवे फाटक से कुलकड़िया, जैतवारा रोड होते हुए गलबल गांव की सीमा तक.

**दक्षिण**—कस्तुरिया नाला.

**पूर्व**—गलबल ग्राम की दक्षिण सीमा एवं भिटारी ग्राम की सीमा से कस्तुरिया नाला तक.

**पश्चिम**—कस्तुरिया नाला से चिल्ला ग्राम की सीमा होते हुए पश्चिम की तरफ कस्तुरी नाला एवं किटहा की सीमा तक.

### वार्ड क्रमांक 6—नया वार्ड तिलक वार्ड

**उत्तर**—कस्तुरिया नाला.

**दक्षिण**—कोठी जैतवारा आगे रेलवे गेट से उत्तरी भाग.

**पश्चिम**—जैतवारा कोठी मोड़ पम्प हाउस एवं रेलवे की पश्चिमी बाउन्ड्री कस्तुरिया नाला तक.

**पूर्व**—कुलकड़िया रोड एवं कुलकड़िया रोड मो. यासीन के घर से पन्नालाल के मकान तक सी.सी. रोड का उत्तरी भाग.

### वार्ड क्रमांक 7—संजय वार्ड

**उत्तर**—कुलकड़िया रोड से पूर्व की तरफ कस्तुरिया नाला एवं अमृतलाल के भूमि तक.

**दक्षिण**—शेरगंज से दुःखीराम के मकान के पास रोड मिलान से होते हुए राजेन्द्र उपाध्याय के मकान तक.

**पूर्व**—कस्तुरिया नाला से दक्षिण की तरफ दुःखीराम के मकान के सामने रोड एवं सी.सी. मिलान तक.

**पश्चिम**—कुलकड़िया रोड.

### वार्ड क्रमांक 8—प्रियदर्शनी वार्ड

**उत्तर**—कुलकड़िया मार्ग से पूर्व तरफ सी.सी. रोड होते हुए दुःखीराम के मकान तक.

**दक्षिण**—स्टेशन चौराहा से गुलाब नामदेव के घर तक आर.सी.सी. रोड का उत्तरी भाग.

**पूर्व**—गुलाब नामदेव के घर से चन्द्रदेव पाण्डेय के मकान तक.

**पश्चिम**—कुलकड़िया रोड.

### वार्ड क्रमांक 9—मालवीय वार्ड

**उत्तर**—स्टेशन चौराहा से रामकृपाल मिश्रा के घर तक आर.सी.सी. रोड का दक्षिणी भाग.

**दक्षिण**—हनुमान चौक रोड से स्वामी तिराहा का उत्तरी भाग.

**पूर्व**—हनुमान चौक से रामकृपाल मिश्रा तिराहे का पश्चिमी भाग.

**पश्चिम**—कुलकड़िया रोड का पूर्वी भाग.

### वार्ड क्रमांक 10—सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

**उत्तर**—हनुमान चौराहा रोड से स्वामी तिराहा का दक्षिणी भाग.

**दक्षिण**—सेमरावल नदी.

**पूर्व**—रामबहोरी के मकान से होते हुए सेमरावल नदी तक.

**पश्चिम**—सेमरावल नदी से कुलकड़िया रोड का पूर्वी भाग.

### वार्ड क्रमांक 11—विवेकान्द्र वार्ड

**उत्तर**—ताराचन्द्र के मकान से संतोला बराटोला रोड.

**दक्षिण**—सेमरावल नदी.

**पूर्व**—संतोला से बराटोला सी.सी. रोड.

**पश्चिम**—सेमरावल नदी से ताराचन्द्र के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 12—भगत सिंह वार्ड

**उत्तर**—जैतवारा से बिरसिंहपुर रोड झिरवाह नाला तक.

**दक्षिण**—राजस्व ग्राम बरोटोला का उत्तरी भाग.

**पूर्व**—झिरवाह नाला.

**पश्चिम**—संतोल से बराटोला सी.सी. रोड का पूर्वी भाग.

### वार्ड क्रमांक 13—रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—कस्तुरिया नाला एवं गुलाबचन्द्र एण्ड सन्स की उत्तरी सीमा.

**दक्षिण**—हनुमान चौराहा से बिरसिंहपुर रोड झिरवाह नाला तक का उत्तरी भाग.

**पूर्व—झिरवाहा नाला.**

**पश्चिम—हनुमान चौराहा से मनोज गुप्ता के घर तक सी.सी. रोड  
का पूर्वी भाग.**

### वार्ड क्रमांक 14—राणा प्रताप वार्ड

उत्तर—गलबल ग्राम की सीमा एवं झिरवाहा नाला तक.

दक्षिण—कस्तुरिया नाला.

**पूर्व—झिरवाहा नाला.**

**पश्चिम—कस्तुरिया नाला से गलबल ग्राम की सीमा तक.**

### वार्ड क्रमांक 15—सरदार पटेल वार्ड

उत्तर—सेमरावल नदी से वार्ड क्र. 11 व 12 की दक्षिणी सीमा  
तक.

दक्षिण—सेमरावल नदी.

**पूर्व—हथिया नाला.**

**पश्चिम—सेमरावल नदी एवं वार्ड क्र. 11 का दक्षिणी भाग.**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर.

सतना, दिनांक 28 अप्रैल 2014

क्र. 911—परिसीमन—सतना.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348  
के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक  
911—परिसीमन—सतना—2014, दिनांक 28 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी  
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर.

Satna, the 28th April 2014

No. 911-DUDA-2014.—In exercise of the power  
conferred by the Notification No. 4-620-XVIII-3-04,  
Dated 24th February, 2004 of Urban Administration &  
Development Department of Government of Madhya  
Pradesh, I, Mohan Lal, Collector, Distt. Satna, Madhya  
Pradesh under section 29(1) of Madhya Pradesh  
Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby  
determine the extent of wards of Municipal Council,  
Jaitwara as per Schedule below :—

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Azad Ward

(1)	(2)
3	Neharu Ward
4	Ambedkar Ward
5	Deendayal Ward
6	Tilak Ward
7	Sanjay Ward
8	Priyadarshni Ward
9	Malviya Ward
10	Subhash Chandra Bosh Ward
11	Viveka Nand Ward
12	Bhagat Singh Ward
13	Rani Laxmi Bai Ward
14	Ranapratap Ward
15	Sardar Patel Ward

### BOUNDARY PARTICULARS

#### Ward No. 1—Mahatma Gandhi Ward

**North**—Kitaha Village bordering the confluence sewer Bataiya.

**South**—Shyamal Gupta mansion house Jatwara Route to and from Elementary School to house Punna Dohar.

**East**—West Chilla of position limits and Btiya to sewer.

**West**—Embark on the north side of the river bridge and take the urn and river route mansion combines Jatwara.

#### Ward No. 2—Ajad Ward

**North**—Ward 1, while the southern part Suman Mukesh Tiwari's house to house and deaf to the sound Nala.

**South**—Lagana Nala Sangam.

**East**—Lagana River confluence deaf sewer.

**West**—Mukesh Tiwari taxing houses across the road from the astle to the river jaitwara.

#### Ward No. 3—Neharu Ward

**North**—Kothi jatwara Road.

**South**—Semraval River.

**East**—Kothi jatwara Road Railway gate.

**West**—Sewer Bahara.

#### **Ward No. 4—Ambedkar Ward**

**North**—Kushuria Nala.

**South**—Jatwara Kothi Road.

**East**—Pshicmi Railway Baundi.

**West**—Bahara Nala.

#### **Ward No. 5—Deendayal Ward**

**North**—Village Dehut being the northern boundary of the village limits and Railway gate Kitha Kulkdia Jatwara Raod from the village to the extent of being Galbal.

**South**—Kastuiya Nala.

**East**—The southern limit of the range of g and g Glbl Bhaitari to Kasturiya Nala.

**West**—Being Chilla Gram limit Kshuria from Nala Nala and itha Kshuria on the extent of west.

#### **Ward No. 6—Tilak Ward**

**North**—Kshuria Nala.

**South**—Jatwara Kothi north of the Railway gate.

**East**—Jatwara Kothi mode Nala Pump House and the Railway to the west Baundi Kshuria Nala.

**West**—Kulkdia Road and Kulkdia Road from the house of Mohammad Yasin Pannalal C.C. Road to the northern part of the house.

#### **Ward No. 7—Sanjay Ward**

**North**—Kulkdia road eastward to the land of Kshuria sewer and Amrat Lal.

**South**—Dukiram From Sherganj apartment house near the road to Milan via Rajendra Upadhyay.

**East**—Kshuria sewer Dukirma the south front of the house to the road and C.C. Match.

**West**—Kulkadiya Road.

#### **Ward No. 8—Priyadarshani Ward**

**North**—Kulkdia C.C. Road route via the east side of the house to Dukiram.

**South**—Station RCC Road inter section north to the home of the Rose Namdev.

**East**—Chandradev from house to house Namdev Rose Pandey.

**West**—Kulkadiya Road.

#### **Ward No. 9—Malviya Ward**

**North**—RCC Road inter section to the home station of the southern part of the Ramkhpal Mishra.

**South**—Hanuman Chowk Road in the northern part of the owner trijunction.

**East**—The western part of the square Ramkupal Hanuman Mishra Tirahe.

**West**—Eastern part of Kulkdia Raod.

#### **Ward No. 10—Shubhash Chandra Bosh Ward**

**North**—Three way intersection of the southern part owner of Hanuman Road.

**South**—Semravl River.

**East**—After passing through the house to the Semravl River Rambhori.

**West**—Kukkdia road from the Eastern Part of the River Semravl.

#### **Ward No. 11—Vivekanand Ward**

**North**—Taracndra's house Semravl River Road snttola Bara Tola.

**South**—Semraval River.

**East**—Snttola the Bratola C.C. Road.

**West**—Taracndra From the river to the house Semraval.

#### **Ward No. 12—Bhagat Singh Ward**

**North**—Birsinghpur Road to the sewer Jirwah Jatwara.

**South**—The northern part of the village revenue Baratola.

**East**—Jhirwah Nala.

**West**—Bratola C.C. Road from the eastern part of Sant tola.

#### **Ward No. 13—Rani Laxmi Bai Ward**

**North**—Kshuria northern boundary of Nala and Gulabndra and Sons.

**South**—Sewer Jirwah hanuman Road intersection to the northern part of the Birsinghpur.

**East**—Jhirwah Nala.

**West**—C.C. Hanuman Road intersection to the eastern part of the house of Manoj Gupta.

**Ward No. 14—Rana Pratap Ward**

**North**—Galbal village limits and Jirwah to Nala.

**South**—Kashutriya Nala.

**East**—Jhirwah Nala.

**West**—Galbal the extent of Village Nala Kshuria.

**Ward No. 15—Sardar Patel Ward**

**North**—Semravl River to the southern boundary of ward 11 and 12.

**South**—Semraval River.

**East**—Hathiya Nala.

**West**—Semravl River and the southern Part of Ward 11.

By order and in the name of the Governor  
of Madhya Pradesh,  
MOHANLAL, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 226—जिशविअ.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद् औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	राजभोज वार्ड
3	इंदिगा गांधी वार्ड
4	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
6	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

	(1)	(2)
7	गुरु नानक वार्ड	
8	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	
9	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	
10	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	
11	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड	
12	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	
13	महाराणा प्रताप वार्ड	
14	सरदार भगत सिंह वार्ड	
15	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	

वार्डों की चर्तुसीमा का विवरण

**वार्ड क्रमांक 1—महात्मा गांधी वार्ड**

**पूर्व**—मुर्गी फार्म से प्यारे की होटल होते हुये शेगर नाला तक.

**पश्चिम**—मुंशीलाल/छननूलाल के मकान से कन्या शाला होते हुये भारत सिंह के मकान तक.

**उत्तर**—एन.एच.-12 रोड से मुर्गी फार्म तक.

**दक्षिण**—प्यारे के होटल से शेगर नाला होते हुये एन.एच. रोड तक.

**वार्ड क्रमांक 2—राजभोज वार्ड**

**पूर्व**—लक्ष्मीनारायण के मकान से हीरालाल के मकान तक.

**पश्चिम**—बालक उत्कृष्ट विद्यालय से होते हुये नगर पंचायत से होते हुये कैलाश नाविक के मकान तक.

**उत्तर**—लक्ष्मीनारायण के मकान से कैलाश नाविक के मकान तक.

**दक्षिण**—एन.एच. 12 से होते हुये मेन रोड महावीर कालोनी होते हुये विज्ञान प्रौद्योगिकी के आगे वार्ड 3 की सीमा तक.

**वार्ड क्रमांक 3—इंदिगा गांधी वार्ड**

**पूर्व**—एन.एच.-12 से होते हुये चेतराम के मकान से एन.एच.-12 तक.

**पश्चिम**—श्री उमाशंकर के मकान से श्रीमती पार्वती बाई के मकान तक.

**उत्तर**—एन.एच.-12 से उमाशंकर के माकन तक.

**दक्षिण**—प्रभुदयाल के मकान से चेतराम के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 4—जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

**पूर्व**—विज्ञान प्रौद्योगिकी के आगे वार्ड 3 की सीमा तक.

**पश्चिम**—एन.एच.-12 राष्ट्रीय राजमार्ग.

**उत्तर—**महावीर कालोनी दुकान से रामकिशन अग्रवाल तक.

**दक्षिण—**रामकिशन अग्रवाल के घर से विद्युत मंडल के आगे वार्ड 3 की सीमा तक.

#### **वार्ड क्रमांक 5—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड**

**पूर्व—**हनुमान मंदिर से होते हुए देवेन्द्र अग्रवाल के मकान के पीछे तक.

**पश्चिम—**मूलचंद अग्रवाल की दुकान से शमशान घाट तक.

**उत्तर—**मूलचंद अग्रवाल के मकान से कब्रिस्तान होते हुये हनुमान मंदिर तक.

**दक्षिण—**देवेन्द्र अग्रवाल के मकान से पीछे से मूलचंद अग्रवाल के मकान तक.

#### **वार्ड क्रमांक 6—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**पूर्व—**नारायण सिंह की कृषि भूमि से मंशाराम दिग्वाड़ के मकान तक.

**पश्चिम—**मेहताब सिंह की कृषि भूमि बरखेड़ा रोड से श्री नारायण सिंह इकलामा की कृषि भूमि होते हुये ब्रजवासी ढाबा तक.

**उत्तर—**केमिकल फैक्ट्री से कृषि भूमि होते हुये ब्रजवासी ढाबा होते हुये नारायण सिंह की कृषि भूमि इकलामा तक.

**दक्षिण—**मंशाराम के मकान से मेहताब सिंह की कृषि भूमि बरखेड़ा रोड केमिकल फैक्ट्री तक.

#### **वार्ड क्रमांक 7—गुरुनानक वार्ड**

**पूर्व—**पटेल के ढाबा से जोराबल के मकान तक.

**पश्चिम—**रामदयाल के मकान से जोराबल के मकान तक.

**उत्तर—**पटेल के ढाबा से रा.ग. मार्ग होते हुये पंप हाउस से रेलवे लाईन होते हुये कृषि भूमि तक.

**दक्षिण—**जोराबल के मकान से रामदयाल के मकान तक.

#### **वार्ड क्रमांक 8—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

**पूर्व—**श्री द्वारका प्रसाद पाराशर के मकान से रेलवे विद्युत केन्द्र तक.

**पश्चिम—**मातामंदिर के तालाब से नया मिडिल स्कूल होते हुये श्री कोल इंडस्ट्रीज तक.

**उत्तर—**द्वारका प्रसाद पाराशर के मकान से श्री कृष्णगोपाल तिवारी के मकान से श्री हरलाल के मकान से होते हुये कोल इंडस्ट्रीज तक.

**दक्षिण—**रेलवे विद्युत केन्द्र से रतन सिंह के मकान से होते हुये माता मंदिर तालाब तक.

#### **वार्ड क्रमांक 9—चंद्रशेखर आजाद वार्ड**

**पूर्व—**मथुराप्रसाद के मकान से श्री अशोक नागर के मकान तक.

**पश्चिम—**पी. डी. शर्मा के मकान से रामप्रसाद के मकान से होते हुये रेहटी रोड की ओर वेयरहाउस कार्पोरेशन भवन तक.

**उत्तर—**मथुराप्रसाद के मकान से वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भवन तक.

**दक्षिण—**श्री रोशन खां के मकान से श्री जयकिशन के मकान से होते हुये श्रीमती सरजू बाई के मकान से होते हुये श्री खिलाड़ी राम शर्मा के मकान से होते हुये पी.डी. शर्मा के मकान तक.

#### **वार्ड क्रमांक 10—बाल गंगाधर तिलक वार्ड**

**पूर्व—**दुर्गा मंदिर रेलवे फाटक से मिश्रीलाल के मकान तक.

**पश्चिम—**गांधी पार्क से रामेश्वर के मकान से होते हुये शरीफ अहमद के मकान तक.

**उत्तर—**मिश्रीलाल के मकान से शरीफ अहमद के मकान तक.

**दक्षिण—**गांधी पार्क से रामेश्वर के मकान से होते हुये शरीफ अहमद के मकान तक.

#### **वार्ड क्रमांक 11—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड**

**पूर्व—**भंवरलाल साहू के मकान से नाथूराम के मकान तक.

**पश्चिम—**नारायण सिंह के ढाबे से शिवमंदिर तक.

**उत्तर—**शिवमंदिर से नाथूराम के मकान तक.

**दक्षिण—**भंवरलाल साहू के मकान से नारायण सिंह के ढाबे तक.

#### **वार्ड क्रमांक 12—सुभाष चंद्र बोस वार्ड**

**पूर्व—**रमेश कुमार के मकान से हसन मियां के मकान तक.

**पश्चिम—**रेहटी रोड पंप हाउस से मनका कुम्हार के घर तक.

**उत्तर—**रमेश कुमार आ. ऐरोप्रसाद के मकान से शिवमंदिर कालोनी होते हुये मनका कुम्हार के मकान तक.

**दक्षिण—**हसन मियां के मकान से रेहटी रोड पंप हाउस तक.

#### **वार्ड क्रमांक 13—महाराणा प्रताप वार्ड**

**पूर्व—**लखीचंद राय के मकान से बरखेड़ा रोड पंप हाउस तक.

**पश्चिम—**रेलवे लाईन की पास की कृषि भूमि से अशोक मित्तल के मकान के पीछे रेलवे क्वार्टर तक.

**उत्तर—**लखीचंद राय के मकान से अशोक मित्तल के मकान होते हुये रेलवे क्वार्टर तक.

**दक्षिण—**बरखेड़ा रोड पंप हाउस से रेलवे लाईन की ओर कृषि भूमि तक.

**वार्ड क्रमांक 14—सरदार भगत सिंह वार्ड**

**पूर्व**—कुंज बिहारी के मकान से रमेश शर्मा के मकान तक.  
**पश्चिम**—ढाबले वालों के मकान से विजय ठाकुर के मकान तक.  
**उत्तर**—कुंजबिहारी के मकान से विजय ठाकुर के मकान से होते हुये रेलवे बाउण्डी तक.  
**दक्षिण**—श्री रमेश शर्मा के मकान से ढाबले वालों के मकान से होते हुये रेलवे लाईन तक.

**वार्ड क्रमांक 15—सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड**

**पूर्व**—श्री यादव आर.टी.ओ. के मकान से छःघरा मित्तल पेट्रोल पंप होते हुये भूपेन्द्र चौधरी के मकान तक.  
**पश्चिम**—डॉ. सिंधानी के मकान से रेलवे लाईन होते हुये मित्तल पेट्रोल पंप होते हुये यादव आर.टी.ओ. के मकान तक.  
**उत्तर**—श्री यादव आर.टी.ओ. के मकान से रेलवे लाईन तक.  
**दक्षिण**—भूपेन्द्र सिंह चौधरी के मकान से खन्ना साहब के मकान से होते हुये रेलवे बाउण्डी तक.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

Raisen, the 30th April 2014

No. 226-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-04, Dated 24th February, 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I. J. K. Jain, Collector, Distt. Raisen, Madhya Pradesh under Section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of wards of Municipal Council, Obaidullagunj as per Schedule below :—

**SCHEDULE**

Ward No.	Name of Ward
(1)	(2)
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Raja Bhoj Ward
3	Indira Gandhi Ward
4	Jawahar Lal Nehru Ward
5	Dr. Zakir Hussain Ward
6	Dr. Rajendra Prasad Ward
7	Guru Nank Ward
8	Lal Bahadur Shastri Ward

(1)	(2)
9	Chandra Sekhar Aazad Ward
10	Bal Gangadhar Tilak Ward
11	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
12	Subhash Chandra Bose Ward
13	Maharana Pratap Ward
14	Sardar Bhagat Singh Ward
15	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward

**DETAILS OF WARDS CHATURSIMA****Ward No. 1—Mahatma Gandhi Ward**

**East**—From Poultry farms up to Segru Nallas via Pyare Hotels.

**West**—From Munshilals/Channu Lals house's upto Bharat Singh via Girls School.

**North**—From the N.H.-12 Raod upto Poultry farms.

**South**—From Pyares Hotels upto N.H. 12 Road via Segru Nallas.

**Ward No. 2—Shri Raja Bhoj Ward**

**East**—From Shri laxmi Narayan house upto Shri Hirralal's house.

**West**—From the Govt. Boy's Exilens School upto Nagar Panchayat via the house of Shri Kailash Navik.

**North**—From Laxminarayan house upto house of kailash Navik.

**South**—From N.H. 12 main road Mahaveer Colony upto boundary of ward No. 03 against Science and Technology.

**Ward No.3—Indira Gandhi Ward**

**East**—From N.H. 12 Road upto N.H.12 via Shri Chatram's house.

**West**—From the house of Shri Umashankar's upto the house of Shri Perwati's Bai.

**North**—From the Road of N.H. 12 upto Shri Umashankar's house.

**South**—From Prabhu Dayal's house upto Chetram's house.

**Ward No. 4—Pt. Jawaharlal Nehru Ward**

**East**—From Science and Technology upto agains boundary of ward 03.

**West**—From N.H. 12 National Highway.

**North**—Mahaveer Colony to store Ram Kishan Agarwal.

**South**—Ram Kishan Agarwal's house next to the (M.P.V.) Power Board to the extent of ward 3.

**Ward No. 5—Dr. Zakir Hussain Ward**

**East**—From the Hanuman's Temple upto D.K. Agarwal's house.

**West**—From the house of Shri Netram Rai up to Shamshan's Ghat.

**North**—From the house of Shri Mulchand Agarwal's upto Hanuman's Temple.

**South**—From Mulchand Agarwal Shop upto Shamshan Ghat.

**Ward No. 6—Dr. Rajendra Prasad Ward**

**East**—From Agricultural Land or Shri Narayan Singh upto Shri Mansha Ram's house (Digbad).

**West**—From Agricultural land of shri Mehtab Singh at Barkhara road upto Brij Basi Dhawa's via Agricultural land of Shri Narayan Singh (Eklama).

**North**—From the Chemical Factaries upto agriculture Land via Brij Basi Dhawa Narayan's Singh's.

**South**—From the Mansha Ram's house upto Barkhera Road's of chemical Factary via Land of Shri Mehtab Singh.

**Ward No. 7—Guru Nank Ward**

**East**—From Patel dhawa's upto Shri Jorawal's house.

**West**—From the house of Shri Ram Dayal's upto the house of Shri Jorawal's.

**North**—From Patel Dhawa's upto Agricultural land via Raj Marg's Pump house Rly. Line.

**South**—From the house of Shri Jorawal's upto Shri Ram's Dayal's house.

**Ward No. 8—Shri Lal Bahadur Shastri Ward**

**East**—From the house of Shri Dwaraka Prasad Parashar up to Rly. Electric Centre.

**West**—From Pond near Mata mandir's upto Shri Industries via middle School (new).

**North**—From the house of Shri Dwaraka Prasad Parashar upto Shri Coal Industries via Shri Krishna Gopal Tiwari & Shri Harlal's house.

**South**—From Railway Electric Centre upto Pond near's Mata Mandir's via house of Ratan Singh.

**Ward No. 9—Chandra Shekhar Ward**

**East**—From house of Shri Mathura Prasad's upto the house of Shri Ashok Nagar.

**West**—From house of Shri P. D. Sharma upto Building of Wear Housing Corporation via the house of Shri Ram Prasad to wards Rehti Road's.

**North**—From house of Mathura Prasad upto Building of Wear Housing Corporation.

**South**—From house of Shri Roshan Khan upto the house of Shri H. D. Sharma via house of Mrs Suraj Bai and house of Shri Khiladiram Sharma.

**Ward No. 10—Bal Gangadhar Tilak Ward**

**East**—From Durge Temple Railway upto the house of Shri Mishrilal's.

**West**—From Gandhi Park upto the house of Shri Sharif Ahmed via the house of Shri Rameshwar.

**North**—From the house of Shri Mishrilal upto the house of Shri Sharif Ahmed.

**South**—From the Durge temple upto Gandhi Park.

**Ward No. 11—Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward**

**East**—From the house of Shri Bhawarlal's Sahu upto Shri Nathuram's house.

**West**—From Dhwa of Shri Narayan Singh up to the Temple.

**North**—From Shri Shiv Temple upto Shri Nathuram's house.

**South**—From Shri bhawarlal's house upto Shri Narayan Singh.

**Ward No. 12—Subhash Chandra Bose Ward**

**East**—From Shri Ramesh Kumar S/o Shri Bhairo Prasad's house upto the house of Shri Hasan Miya.

**West**—From the Pump House of Rehti Road upto house of mank.

**North**—From Shri Ramesh Kumar S/o Shri Bhatrno Prasad's house up to the house of Shri Manka Kumar via Shiv Temple Colony.

**South**—From the house of Shri Hasan Miya upto Pump House at Rehti Road.

**Ward No. 13—Maharana Pratap Ward**

**East**—From the house of Shri Laxmichand Rai upto house at Barkhera Road.

**West**—From Agricultural Land near Rly. Line upto Rly. Qtrs. behind the house of Shri Ashok Mittal.

**North**—From the house of Shri Laxmichand Rai upto Rly. Qtrs. via Shri Ashok Mittal's house.

**South**—From Pump House at Barkhara Road upto Agricultural Lnad to wards Rly. Line.

**Ward No. 14—Bhagat Singh Ward**

**East**—From Kunj Bihari house upto Remesh Sharma house.

**West**—From house fo Dnable wale upto the house of Vijay Thakur.

**North**—From the house of Kunj Bihari upto Rly. Boundary via the house of Vijay Thakur.

**South**—From Ramesh Sharma house upto house of Rly. Line via Dnable Wale.

**Ward No. 15—Sardar Ballabh Bhai Ward**

**East**—From Yadav R.T.O. house via chhaighara upto the house of Shri Bhupendra Singh Choudhry.

**West**—From the house of Dr. Singhani upto Yadav (R.T.O.) via Railway Crossing Gate & Mittal Petrol Pump.

**North**—From the houe of Shri Yadav R.T.O. house upto Rly. Line.

**South**—From the house of Shri Bhupendra Singh Choudhry upto Rly. boundary via house of Khanna.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 228-डूडा-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-450-अठारह-3-04, दिनांक 24 जनवरी 2004 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के तहत नगर परिषद् बाड़ी के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार करता हूँ :—

**अनुसूची**

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	मंदिर वार्ड
2	पीर फतेहउल्ला खां वार्ड
3	महाराणा प्रताप वार्ड
4	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
5	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
6	महात्मा गांधी वार्ड
7	गुरु नानक वार्ड
8	श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड
9	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
10	पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड
11	कवि कालीदास वार्ड
12	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
13	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
14	बजीरांग वार्ड
15	सिरवारा वार्ड

**वार्ड क्रमांक 1—मंदिर वार्ड**

**उत्तर**—पर्वत तक.

**दक्षिण**—जामा मस्जिद के कोने से शुरू होकर सीधे सरकार मियां के मकान के सामने से राजा चौक से ढीमर मोहल्ला के खेरजा रोड के मध्य से पानी की टंकी तक.

**पूर्व**—खाकी मंदिर के आगे हिंगलाज देवी मंदिर को लेते हुये नगरपालिका की पूर्वी सीमा के अंत तक.

**पश्चिम**—जामा मस्जिद के सामने से अहिरवार के मकान से सीधे परमसुख कुशवाहा के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 2—पीर फतेहउल्ला खां वार्ड**

**उत्तर**—विस्थाचल पर्वत से नगरपालिका उत्तर सीमा तक.

**दक्षिण**—जैनियों की लाईन अनूपचंद जैन का मकान लेते हुए जामा मस्जिद तक.

**पूर्व**—परमसुख काढ़ी के सामने से शाहिद खां के मकान को लेते हुये जामा मस्जिद तक एवं वार्ड क्रमांक-1 की सीमा.

**पश्चिम**—तकिया ईदगाह से लेकर जैनियों के मध्य लाईन हुकुमचंद कुशवाहा तक. नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के अंत तक.

**वार्ड क्रमांक 3—महाराणा प्रताप वार्ड**

**उत्तर**—जामा मस्जिद के पश्चिमी सिरे से आगे श्री अशोक टेलर के मकान से केशरचंद जैन लौटकर बाबूलाल का मकान लेते हुये जैनियों की लाईन चुन्नीलाल प्रजापति व माधव शर्मा तक.

**दक्षिण**—आदिवासी आश्रम आबादी बारना नदी तक.

**पूर्व**—माध्यमिक शाला के बाद मोहन यादव का घर व वार्ड क्रमांक-4 की सीमा तक.

**पश्चिम**—श्री चरणदास महाराज से लेकर दूदाधारी मंदिर तक. नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के अंत तक.

**वार्ड क्रमांक 4—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

**उत्तर**—जामा मस्जिद से लेकर श्री अनीस बगैरह को शामिल करते हुये राजा चौक.

**दक्षिण**—बारना नदी के उत्तरी किनारे तक.

**पूर्व**—पानी की टंकी के आगे से दक्षिण में बारना नदी तक, नगरपालिका की पूर्वी सीमा के अंत तक.

**पश्चिम**—बाड़ी कलां, जामा मस्जिद के कोने से शुरू होकर बाड़ी कलां माध्यमिक शाला के पीछे प्रेमनारायण श्रीवास्तव के मकान से नब्बा अहीर का मकान, शंकर अहीर, बारे अहीर के मकान लेते हुये नगरपालिका मनोरंजन केन्द्र भवन शामिल करते हुये श्री सलीम खां चौकीदार के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 5—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड**

**उत्तर**—बारना नदी, हवकी बाई, हरिजन झुगियों को लेकर सीधा छोटे मंदिर तक.

**दक्षिण**—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 सिंधी केम्प शिल्पियों की नव निर्मित झुगियों तक.

**पूर्व**—वंशीदास मंदिर, महारा संग्रामपुर, सिंधी केम्प की सीमाएं न.पा. पूर्वी सीमा के अंत तक.

**पश्चिम**—कल्लू हरिजन, बारना नदी से लेकर सीधे मामा पटवारी के सामने से खरंजा रोड के मध्य से पाल मोहल्ला चौराहे से कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय भवन के पूर्वी हिस्से से कालोनी छोड़ते हुये रा.रा. मार्ग-12 तक.

**वार्ड क्रमांक 6—महात्मा गांधी वार्ड**

**उत्तर**—हरबो बाई शिल्पी के मकान से एम.पी. कान्वेंट स्कूल पहुंच मार्ग तक.

**दक्षिण**—एन.एच.-12 तक.

**पूर्व**—एन.एच.-12 के सामने से छोटा मंदिर पहुंच मार्ग तक.

**पश्चिम**—थाने के पास का नाला तक.

**वार्ड क्रमांक 7—गुरुनानक वार्ड**

**उत्तर**—बारना नदी तक.

**दक्षिण**—गनेश गौड़ के मकान के सामने गाड़ी नाला तक.

**पूर्व**—भूरा साहू के मकान से सी.सी. रोड बारना नदी तक.

**पश्चिम**—पार्वती ढीमर के मकान के सामने सी.सी. रोड गनेश गौड़ के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 8—श्रीमती इन्द्रा गांधी वार्ड**

**उत्तर**—बारना नदी के किनारे-किनारे बाड़ी कलां पहुंच मार्ग के पूर्वी किनारे से बुल्ला ढीमर के मकान के पूर्वी कोने तक.

**दक्षिण**—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 के किनारे-किनारे रेस्ट हाउस से चिंतामड़ चौराहे तक सेमरी वालों के मकान तक.

**पूर्व**—रेस्ट हाउस व थाने के बीच से शुरू होकर कन्या हाईस्कूल के पीछे से होते हुये चौराहे पर सार्वजनिक हैण्डपंप के सामने से नवनिर्मित खडंजा रोड के मध्य से सीधे बारना नदी तक.

**पश्चिम**—चिंतामड़ चौराहा सेमरी वालों के मकान से शुरू होकर सीधे बाड़ी कलां मार्ग के पूर्वी किनारे-किनारे बारना नदी तक.

**वार्ड क्रमांक 9—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**उत्तर**—बारना नदी महावीर घाट से नदी के किनारे-किनारे बाड़ी कलां पहुंच मार्ग के पश्चिमी किनारे तक.

**दक्षिण**—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 के किनारे-किनारे चिंतामड़ चौराहा से नगरपालिका कार्यालय के सामने तक.

**पूर्व—**चिंतामड़ चौराहा से महेन्द्र जैन की दुकान से सीधे जवाहर चौहान के मकान को लेते हुये एवं पवार शिक्षक के मकान के पूर्वी सिरे से सीधे बारना नदी तक बाड़ी खुर्द से बाड़ी कलां जाने वाले मार्ग के पश्चिमी किनारे-किनारे.

**पश्चिम—**राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के किनारे से सुंदरलाल साहू की पान की दुकान से सीधे सोसाईटी के सामने से प्रीतम सिंह हरिजन के मकान को लेते हुये महावीर घाट बारना नदी तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**उत्तर—**महावीर घाट के किनारे-किनारे बारना नदी तक.

**दक्षिण—**सूरज सिंह लौहापीटा के मकान से लेकर नर्मदा साहू के मकान के सामने से सीधे रमेश विश्वकर्मा के मकान को लेते हुये शंकर महाराज के मकान तक.

**पूर्व—**कुर्मी मोहल्ला वार्ड क्रमांक-9 की सीमा प्रीतम हरिजन के मकान को छोड़कर पश्चिम से सोसाईटी के सामने के मार्ग जोड़ तक.

**पश्चिम—**हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पीछे कब्रिस्तान से लेकर सीधे बारना नदी तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—कवि कालिदास वार्ड

**उत्तर—**श्री सूरज सिंह लौहापीटा के बाजू से हल्के नाई को लेकर सीधे हरनेक सिंह एवं फूलचंद सोनी के मकान को शामिल करते हुये दूरभाष केन्द्र कार्यालय तक.

**दक्षिण—**राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 के किनारे-किनारे नगरपालिका कार्यालय मिश्रा जी की दुकान से सीधे पेट्रोल पम्प शामिल करते हुये बारना सिंचाई नहर क्रमांक-1 कार्यालय तक.

**पूर्व—**नगरपालिका के नीचे मिश्रा जी की दुकान से लेकर श्री हेमराज गौर की दुकान को शामिल करते हुये सीधे हल्कू नाई के मकान तक.

**पश्चिम—**बारना सिंचाई नहर क्रमांक-1 के कार्यालय से सीधे चलते हुये दूरभाष केन्द्र के कार्यालय तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

**उत्तर—**राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 के दक्षिणी किनारे-किनारे श्री शिशिर उपाध्याय के मकान से बारना मुख्य नहर तक.

**दक्षिण—**पोषण आहार संयंत्र के नजदीक नगरपालिका की सीमा तक.

**पूर्व—**शिशिर उपाध्याय के मकान से नगरपालिका की दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिम—**बारना मुख्य नहर से पूर्वी केनाल के किनारे-किनारे नगरपालिका का दक्षिणी सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर—**बारना वर्कशाप के सामने वाली लाईन लेते हुये सीधे नाले के बाद चमड़ी ब्लॉक शामिल करते हुये कालोनी के समस्त क्वार्टर.

**दक्षिण—**क्वालिटी कन्ट्रोल कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 के उत्तरी किनारे-किनारे कार्यपालन यंत्री निवास को शामिल करते हुये श्री राघवेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान तक.

**पूर्व—**वार्ड क्रमांक-10 एवं 11 की पश्चिमी सीमा, हरिजनों के मकान के सामने से सीधे ढीमरों की झुगियों तक.

**पश्चिम—**राघवेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान से आम के पास के मकान लेते हुये गोल क्वार्टर के सामने वाली लाईन वर्कशाप तक.

#### वार्ड क्रमांक 14—बजीरगंज वार्ड

**उत्तर—**बेड़ा हनुमान मंदिर के आसपास समस्त झुगियों से शुरू होकर बारना नदी के किनारे-किनारे ढीमरों की झुगियाँ लेते हुये वार्ड 10 की पश्चिमी सीमा कब्रिस्तान आम के पेड़ तक.

**दक्षिण—**राघवेन्द्र ठाकुर के मकान से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 से डेम पहुंच मार्ग के पूर्वी किनारे का भाग.

**पूर्व—**राघवेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान से गोल क्वार्टर को शामिल करते हुये वर्कशाप के सामने पीपल तक.

**पश्चिम—**डेम पहुंच मार्ग.

#### वार्ड क्रमांक 15—सिरवारा वार्ड

**उत्तर—**एन.एच.-12 से डेम पहुंच मार्ग के पश्चिमी किनारे का सम्पूर्ण भाग.

**दक्षिण—**एन.एच.-12 के डेम पहुंच मार्ग जोड़ से मुख्य पुलिया के जोड़ से सम्पूर्ण सिरवारा ग्राम.

**पूर्व—**एन.एच.-12 से डेम पहुंच मार्ग के जोड़ मेवाड़ा ढाबा को लेते हुये मुख्य केनाल का पश्चिमी किनारे के अन्दर का भाग से पूरा सिरवारा ग्राम.

**पश्चिम—**नगरपालिका की पश्चिमी सीमा सम्पूर्ण सिरवारा ग्राम को लेते हुये.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

Raisen, the 30th April 2014

No. 228-Duda-2014.—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 4-450-XVIII-3-04, Dated 24th February, 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, J. K. Jain, Collector, Distt. Raisen, Madhya Pradesh under Section 29(1) of Madhya Pradesh

Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of wards of Municipal Council, Badi as per Schedule below :—

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Mandir Ward
2	Pir Fatehullah Kha Ward
3	Maharana Pratap Ward
4	Chandersekhar Ajaad Ward
5	Dr. Bhim Rav Ambedkar Ward
6	Mahatma Gandhi Ward
7	Gurunanak Ward
8	Shrimati Indra Gandhi Ward
9	Dr. Rajendra Prasad Ward
10	Pandit Jawaharlal Nehru Ward
11	Kavi Kalidas Ward
12	Subhash Chandra Bose Ward
13	Lal Bahadur Shastri Ward
14	Bajiraganj Ward
15	Sirwara Ward

#### Ward No. 1—Mandir Ward

**North**—Municipal boundry to Vindhya Chal Paravat.

**South**—Jama Masjid to house of Sarkar Miya to Raja Chok to Dhimar Mohalla and Water Supply Tanki.

**East**—Khaki Mandi to Hinlaj Devi Mandir to Municipal East boundry.

**West**—In front of Jama Masjid to house of AHIRVAAR and PARAMSUKH KUSHVAVA house.

#### Ward No. 2—Pir Fhatehullah Kha Ward

**North**—Municipal North boundry to Vindhya Chal Paravat.

**South**—Line of Middle Jainiyo Anupchand Jain to Jama Masjid.

**East**—House of paramsukh Kachhi to Shahid Kha and jama Masjid to ward No. 1.

**West**—Takiya Idghah to Jainiyo Middle line to Hukumchand Kushvaha house to Municipal west boundry.

#### Ward No. 3—Maharana Paratap Ward

**North**—Boundary of west to house of Ashok Taior to Keshar Chand Jain and house of Babulal to Jainiyo line to Chhunnilal Prajapati and Madhav Sharma house.

**South**—Adivasi Aanshram to Barna River.

**East**—Middle School to house of Mohan Yadav to ward No. 4 boundry.

**West**—Shri Charandas Maharaj to Temple of Dudadhari to Municipal west boundry.

#### Ward No. 4—Chandersekhar Ajaad Ward

**North**—Jama Masjid to house of unis etc. and Raja Chowk to Dheemar Mohalla to Kharanja Road to Water Supply Tanki.

**South**—Barna River to North boundry.

**East**—Water Supply Tanki to Barna Gadi and Municipal East Boundry.

**West**—From corner of Bari Kalan Jama Masjid to Middle School house of Premnarayan Shrivastava to Nabba Aheer, Shankar Aheer, Bare Aheer, Municipal Manoranjan Kendra Bhavan to house of Salam Khan Chhokidar.

#### Ward No. 5—Dr. Bhimrav Ambedkar Ward

**North**—Barna River to Hakki Bai Harijan, Jhugiyio to Chhote Temple.

**South**—NH-12 to Sindhi Camp and Shilpies new houses.

**East**—Banshidas Mandir to Muvara Sangirampur to Sindhi Camp boundry and Municipal East boundry.

**West**—Kalu harijan to Barna river to house of Mama patwari to Kharinja Road to Pal Mohalla Choraha to Office of A.D.O. out of East Colony boundary to NH-12.

#### Ward No. 6—Mahatama Gandhi Ward

**North**—harbo Bai Shilpi house to M.P. Convent School to Pohunch Marg.

**South**—N.H.-12.

**East**—N.H.-12 to Chota mandir Pohunch Marg.

**West**—Police Station to near Nala.

#### **Ward No. 7—Guru Nanak Ward**

**North**—End of Barna River.

**South**—Ganesh Gound house to Gaadri Nala.

**East**—Bhura Sahu house to C.C. Road Barna River.

**West**—Parvati Dheemar house to front C.C. Road to Ganesh Gound house.

#### **Ward No. 8—Shrimati Indira Gandhi Ward**

**North**—Barna river to Bharikala Pahuch Marg to east side to Bulla Dimar.

**South**—From side of NH-12 side to side rest house to Chintaman Chorahe and Semari Wala house.

**East**—Rest House and Police Station to Kanya High School back side to Public Hand Pump to new Kharanja Road to Barna River.

**West**—Chintaman chouraha Semari Wala house to Badi Kala Pahuch Marg and east side Barna River.

#### **Ward No. 9—Dr. Rajendra Parsad Ward**

**North**—Barna River Mahaveer Ghat to Barna side and Bari Kala Pahuch Marg to west side.

**South**—NH-12 side to side Chintaman Chouraha to Office of Municipal front.

**East**—Chintaman Chouraha to Mahendra Jain Shop to house of Jawahar Chouhan to Pawar Teacher house east side Barna river to Bari Khurd and Bari Kalan Road west side.

**West**—Side fo NH-12 to house of sunderlal sahu and shop to front of Society to Preetak Singh harijan to Mahavir Ghat Barna River.

#### **Ward No. 10—Pandit Jawahar Lal Nehru Ward**

**North**—From side of Mahavir Ghat to side of Barna River.

**South**—Suraj Singh Lohapeeta house to Narmada Sahu front Rakesh Vishvakarma to house of Shankar Maharaj house.

**East**—Kurmi Mohalla boundry of Ward No. 9 & left of Preetam Harijan house to Society west side Road.

**West**—Higher Secondary School back to Kabirsthian to River of Barna.

#### **Ward No. 11—Kavi Kalidas Ward**

**North**—Shri Suraj Singh Lohapeeta a side of Halke Nai to Harnek Singh and Phool Chand Soni to house of office of Telephone Exchange.

**South**—NH-12 side to side office of Municipal to Mishraji Shop to Petrol Pump and office of Barna Dem Kenal No. 1.

**East**—Office of Municipal to Mishraji Shop to Hemraj Gour Shop, front of Halku Nai house.

**West**—Office fo Barna Kenal No. 1 front to Office of Telephone exchange.

#### **Ward No. 12—Shubhash Chandra Bose Ward**

**North**—NH-12 west side to Shishir Upadhyay house to and Barna Main Kenal.

**South**—Near Poshan Aahar Sayantra to Municipal boundry.

**East**—House of Shishir Upadhayay to Muncipal west boundry.

**West**—Main Barna Kenal side to Municipal south boundry.

#### **Ward No. 13—Lal Bahadur Shastri Ward**

**North**—Barna workshop to front line to Chamdi Block and total quarter of Barna Colony.

**South**—Quality Control office NH-12 to north side to E.E. quarter to Shri Raghvendra Singh Thakur house.

**East**—Ward No. 11 & 11 ki west boundry, house of harijano to Dhimaro ki Jhugiy

**West**—Raghuvendra Singh Thakur house to Gol Quarter to workshop line.

#### **Ward No. 14—Bajiarganj Ward**

**North**—Beda Hanuman Temple near total Jhugiy to Dhimaro Ki Jhugiya and Ward 10 ki west boundry to Kabiristhan to Mango Tree.

**South**—Raghuvendra Thakur house to NH-12 to Dhem Road and East Road.

**East**—Raghuvendra Singh house to Gol Quarter and workshop front to pipal Tree.

**West**—Dhem Road.

**Ward No. 15—Sirwara Ward**

**North**—N.H.-12 tro Dam Road and west side total road.

**South**—N.H.-12 to Dam Road to Main Puliya and total Sirwara Village.

**East**—N.H.-12 to front of Mevara Dhaba to Barna Main Kenal west side to total Sirwara Village.

**West**—Municipal west boundry to total Sirwara Village boundary.

J. K. JAIN, Collector.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 229—जिशविअ-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 04-450-अठारह-3-04, दिनांक 24 जनवरी 2004 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एटद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद् सिलवानी, जिला रायसेन के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार आधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	शास्त्री नगर वार्ड
2	इन्द्रा नगर वार्ड
3	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
4	शिवाजी नगर वार्ड
5	शहीद भगत सिंह वार्ड
6	शहीद अशफाक उल्ला वार्ड
7	गांधी नगर वार्ड
8	मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड
9	वीर सावरकर वार्ड
10	रानी दुर्गावती वार्ड
11	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
12	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
13	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
14	सरस्वती नगर वार्ड
15	महावीर नगर वार्ड

### वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्रमांक 1—शास्त्री नगर वार्ड

**उत्तर**—आमापानी कला राजाराम सरपंच के मकान से टोला कालोनी होते हुए खनपुरा ग्राम की उत्तरी राजस्व सीमा से होते हुए जमनिया परमसुख आलम पटेल के घर तक (बेगम नदी किनारे तक).

**पूर्व**—जमनिया परमसुख में आलम पटेल के घर से जमनियापुरा में श्रीराम मंदिर तक (बेगम नदी किनारे तक).

**दक्षिण**—जमनियापुरा में श्रीराम मंदिर से जेल नाले के उस तरफ कालोनी होते हुए मनफूल काढी के मकान तक.

**पश्चिम**—मनफूल काढी के मकान से आमापानी ग्राम की पश्चिमी सीमा होते हुए राजाराम सरपंच के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 2—इन्द्रा नगर वार्ड

**उत्तर**—जेल कम्पाउण्ड होते हुए रामबाबू शर्मा के मकान होते हुए रेञ्ज बेगम नदी के किनारे तक.

**पूर्व**—राम बाबू शर्मा के मकान से रेञ्ज बेगम नदी किनारे रमेश लोढ़िया के मकान होते हुए बड़े पुल तक.

**दक्षिण**—बड़े पुल से तहसील परिसर होकर संजू तिवारी के मकान होकर मेन रोड पुलिया तक.

**पश्चिम**—मेन रोड पॉवर हाउस के सामने पुलिया से नाला होकर जेल कम्पाउण्ड तक.

#### वार्ड क्रमांक 3—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—राजू चाय छोटी पुलिया से ब्रदी महाराज के मकान से होते हुए मार्केटिंग सोसाईटी से पावर हाउस नाले तक.

**पूर्व**—साहू के मकान से (राजू चाय) से बाबूलाला कालोनी नाला होकर गांधी आश्रम अंसार पटेल के मकान तक.

**दक्षिण**—अंसार पटेल बेगम नदी से इद्रावास कालोनी सिलवानी राजस्व की सम्पूर्ण सीमा तक.

**पश्चिम**—इन्द्रावास कालेज से नाला होकर पावर हाउस मेन रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 4—शिवाजी नगर वार्ड

**उत्तर**—वसीम जूता के मकान से होकर रामू मास्टर साहब से रईस ट्रेक्टर बेगम नदी तक.

**पूर्व**—वसीम जूता के मकान से छोटी मस्जिद होकर प्रदीप जैन के मकान मेन रोड तक.

**दक्षिण**—प्रदीप जैन के मकान से स्टेट बैंक होकर बड़े पुल चौरसिया के मकान तक.

**पश्चिम**—बड़े पुल चौरसिया के मकान से बेगम नदी होकर रईस ट्रेक्टर के मकान बेगम नदी तक.

### वार्ड क्रमांक 5—शहीद भगत सिंह वार्ड

**उत्तर**—पुराने थाने रफीक भाई नसीम भाई के मकान बेगम नदी होते हुए एहसान शाह के मकान तक.

**पूर्व**—एहसान शाह के मकान से सलीमउद्दीन काजी के मकान होकर शौकत भाई के मकान तक.

**दक्षिण**—दक्षिण शोकत भाई के मकान से निढर महाराज के मकान होकर मुना भाई के मकान बेगम नदी तक.

**पश्चिम**—मुना भाई के मकान से बेगम नदी होकर मिट्ठू कुशवाहा से रफीक भाई नसीम भाई के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 6—शहीद असफाकउल्ला वार्ड

**उत्तर**—नूरअली सलीम मिस्त्री के मकान से बेगम नदी होकर कृपाराम रजक अंसार ठिगन, इरसादउल्ला के मकान से हनू हरिजन के मकान पड़ान पुलिया तक.

**पूर्व**—हनू हरिजन के मकान पड़ान पुलिया से कल्लू लखपति धनू पान वाले होते हुए अकरम कुरैशी के मकान पंप हाउस तक.

**दक्षिण**—अकरम कुरैशी के मकान पंप हाउस से नाका सप्प भाई के मकान अनू पटेल के मकान समीम किराना सुभाष पत्रकार से होली चौक राजीव समैया अनुपमा भवन रम्मू कसरे के मकान तक.

**पश्चिम**—रम्मू कसरे के मकान से अनवर अखर के मकान होकर कृष्णा श्रीवास्तव के मकान से बड़ी मस्जिद होकर नूरअली बेगम नदी तक.

### वार्ड क्रमांक 7—गांधी नगर वार्ड

**उत्तर**—कमरुद्दीन मंसूरी, मंगल ठाकुर के मकान से सिलवानी राजस्व उत्तरी सीमा को सम्मिलित करते हुए कल्ला हरिजन रम्पुरा नाला तक.

**पूर्व**—कल्ला हरिजन के मकान रम्पुरा नाले से बाबू इलाही के मकान तक.

**दक्षिण**—बाबू इलाही के मकान से इरसाद पड़रिया के मकान रहपान भाई के मकान होकर हलीम सलीम सब्बू मंसूरी के मकान तक.

**पश्चिम**—हलीम सलीम सब्बू मंसूरी के मकान से बेगम नदी होकर कमरुद्दीन मंगल काछी के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 8—मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड

**उत्तर**—मुन्नवरअली सराफत अली के मकान से नूरभाई सचिव मकान होकर टपका होटल अ. रहीम के मकान से शिवदयाल पटवा, पटवा होली चौक तक.

**पूर्व**—मुन्नवरअली के मकान से साकिर मंसूरी मदरसा गफूर सेकेट्री खुशीद भाई बदर मम्मा के मकान तक.

**दक्षिण**—मदरसा शहसाह के मकान से जुबेर मंसूरी मोहन गीताराम यादव के मकान होकर नाजिम कुरैशी के मकान तक.

**पश्चिम**—नाजिम कुरैशी के मकान से राघवेन्द्र पत्रकार के मकान होकर शिद्याल पटवा होली चौक तक.

### वार्ड क्रमांक 9—वीर सावरकर वार्ड

**उत्तर**—अवधनारायण शर्मा के मकान से भैयालाल नाई के मकान से होकर विनोद श्रीवास्तव के मकान तक.

**पूर्व**—विनोद श्रीवास्तव के मकान से समैया मंदिर होली चौक होते हुए पप्पू सेठ के मकान तक.

**दक्षिण**—पप्पू सेठ के मकान से श्री कृष्ण नामदेव से शिखर चंद सेन के मकान तक.

**पश्चिम**—शिखरचंद सेन के मकान से डॉ. सलीम के मकान होकर अवधनारायण शर्मा के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 10—रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर**—कमलेश जैन (झूनू सेठ) के मकान से मसरूर खा ठेकेदार, महबूब ठेकेदार, से दिप्पू अग्रवाल के मकान तक.

**पूर्व**—दिप्पू अग्रवाल के मकान दिगम्बर जैन मंदिर के पीछे वाली गली होकर कमला बाई सूर्या टेलर के मकान होकर आजाद सेठ नेमा जी के मकान तक.

**दक्षिण**—नेमा जी के मकान से खट्टूमल सेठ मेन रोड होकर राजा लोक विजय शाह के मकान तक.

**पश्चिम**—राजा लोक विजय शाह के मकान से बालाराम शेजवार के मकान होकर डॉ. रिहान से कमलेश जैन (झूनू सेठ) के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 11—नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

**उत्तर**—ओमकार यादव के मकान से मुना यादव शंकरलाल साहू के मकान होकर रविन्द्र मास्टर साहब लखन भद्रू के मकान से पप्पू सोनी के मकान तक.

**पूर्व**—ओमकार यादव के मकान से गोहा रोड से गुलाब विश्वकर्मा जय कुमार जैन के मकान तक.

**दक्षिण**—जय कुमार जैन के मकान से निहाल जैन कमलेश बजाज बुधवारा बाजार होते हुए दिगम्बर जैन मंदिर से आनंद विजय के मकान तक.

**पश्चिम**—आनंद विजय के मकान से जैन मंदिर होकर अमर चंद जैन से पप्पू सोनी के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 12—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर—**निर्मल जैन से बजाज मेडिकल होकर राकेश रेडीमेड से शीतल जैन के मकान तक.

**पूर्व—**निर्मल जैन के मकान से फर्शी रोड समैया जी दुकान से हाईस्कूल परिसर फार्म हाउस सिलवानी राजस्व की सीमा तक.

**दक्षिण—**फार्म हाउस से उत्तरी सिलवानी राजस्व की सीमा लेकर नूरपुरा प्राथमिक शाला तक.

**पश्चिम—**नूरपुरा प्राथमिक शाला से बेगम नदी बासल खा झाड़ू वाले के मकान से होकर राजाराम कुशवाहा के मकान से यासीन खाँ के मकान से राजीव ककरुआ के मकान होकर प्रहलाद सिंह बटेर वालों के मकान से शीतल जैन के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 13—पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

**उत्तर—**अनिल बजाज के मकान बुधवारा बाजार से रामचरण साहू से राजेन्द्र वैद्यराज नया मदरसा होकर कान्वेट बाउण्डी तक.

**पूर्व—**राजेन्द्र जैन सियरमउ रोड से प्रकाश जैन सुखनंदन सोनी के मकान, माधो चक्रवी अनीता जैन डॉ. बंगली के मकान होते हुए विनय जैन के मकान बजरंग चौराहा तक.

**दक्षिण—**विनय जैन बजरंग चौराह से कुजी सोनी सेठी कलेक्शन दुकान तक.

**पश्चिम—**सेठी कलेक्शन की दुकान से अर्जुन पटेल डुगरिया वालों के मकान होते हुए मनूराय के मकान से अनिल बजाज के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 14-सरस्वती नगर वार्ड

**उत्तर—**साकिर खा पड़ान के मकान से रियाजभाई के मकान से होकर आरडीएसएस कम्पाउण्ड नाला अशोक बिहार कालोनी तक.

**पूर्व—**अशोक बिहार कालोनी से अकबर कालोनी सरस्वती नगर से राय साहब कालोनी मां शारदा सीसी रोड तक.

**दक्षिण—**मां शारदा सीसी रोड राय साहब कालोनी लेकर बस स्टैण्ड अनगढ़ हनुमान मंदिर तक.

**पश्चिम—**अनगढ़ हनुमान मंदिर से सियरमउ रोड श्याम साहू विशाल चौरसिया से आरडीएसएस कानवेन्ट स्कूल कम्पाउण्ड होकर साकिर खाँ पड़ान के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 15-महावीर नगर वार्ड

**उत्तर—**बजरंग चौराहा फार्म हाउस स्कूल बाउण्डी पुलिस चौकी से उदयपुरा रोड मां शारदा स्कूल उत्तरी सीमा बेगवा खुर्द तक.

**पूर्व—**मां शारदा स्कूल बेगवा खुर्द से बेगवा नाला होकर उदयपुरा रोड पेट्रोल पम्प से साई खेड़ा रोड पेट्रोल पम्प सिलवानी राजस्व की सम्पूर्ण सीमा तक.

**दक्षिण—**साई खेड़ा रोड पेट्रोल पम्प सिलवानी राजस्व की सीमा से फार्म हाउस सीमा से लगकर मेन रोड तक.

**पश्चिम—**रमाशंकर शुक्ला के मकान से (फार्म हाउस सीमा) साई खेड़ा रोड प्रदीप साईकल मिलन जैन राजेन्द्र जैन से बजरंग चौराहा स्कूल बाउण्डी पुलिस चौकी तक.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

Raisen, the 30th April 2014

No. 229-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 04-450-XVIII-3-04, Dated 24th January 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, J. K. Jain, Collector, Distt. Raisen, Madhya Pradesh under Section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of ward Municipal Council, Silwani as per Schedule below :—

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Sastri Nagar Ward
2	Indra Nagar Ward
3	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
4	Shivaji Nagar Ward
5	Shahid Bhagat Singh Ward
6	Shahid Ashfaqullah Ward
7	Gandhi Nagar Ward
8	Moulana Abul Kalam Azad Ward
9	Veer Sawarkar Ward
10	Rani Durgawati Ward
11	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
12	Chandra Shekhar Azad Ward
13	Pandit Deendyal Upadhyay Ward
14	Sarswati Nagar Ward
15	Mahaveer Nagar Ward

**Ward No. 1—Sastri Nagar Ward**

**North**—From the House of Shri Rajaram (Sarpanch) in Amapani Kala Covering tola colony following north revenue boundry of Khanpura Village to the house of Alam Patel in Jamuniya Paramsukh up to the bank of river begaum.

**East**—From the of Alam Patel in Jamuniya Pramsukh to Sriram Temple in Jamaniyapura following the bank of the begum river.

**South**—Shriram Mandir in Jamaniyapura following the out side of the Jail dreian following to house of Manfool Khachhi's.

**West**—From the house of Manfool Khachhi's following the best boundry of Amapani Gram to the house of Shri Rajaram (Sarpanch).

**Ward No. 2—Indira Nagar Ward**

**North**—Following Jail compound house of Rambabu Sharma following Reng, bank of begum river.

**East**—From Rambabu Sharma house to Reng bank of begum river, House of Ramesh Lodhiya following big brige.

**South**—From big brige to following tahsil ground house of Sanju Tiwari following the main road puliya (P.H.MPEB).

**West**—In front of main road puliya (P.H.MPEB) to following Jail compound draien.

**Ward No. 3—Dr. Bhimrao Ambedkar Ward**

**North**—From Raju Tea Stall in choti puliya to house of Badri Mahraj, following marketing socity to till drain of power house.

**East**—From Sahu house (Raju Tea Stall) following Babulala colony drain Gandhi Ashram to till house of Ansar Patel.

**South**—From Ansar Patel begum river to Indra Awas Colony all Silwani revenu boundaries.

**West**—From Indra Awas Colony following drain to till power house main road.

**Ward No. 4—Shivaji Nagar Ward**

**North**—From house of Wasim juta following Ramu Master Sahab to till Raish Tractor begum river.

**East**—From house of Wasim juta to Choti Masjid following to till main road house of Pradeep Jain.

**South**—From house of Pradeep Jain to State Bank following to till big brige house of Chourasiya.

**West**—From house of Chourasiya big brige to begum river following to till house of Raish Tractor.

**Ward No. 5—Shahid Bhagat Singh Ward**

**North**—From house of Rafiq Nashim Bhai in old Police Station following to till begum river house of Ahasan Sah.

**East**—From house of Ahasan Sah to house of Salim Kazi following to till house of Saukat Bhai.

**South**—From house of Saukat Bhai to house of Nidar Maharaj following to till begum river house of Munna Bhai.

**West**—From house of Munna Bhai following begum river Mitu Kushwaha to till house of Rafiq Bhai, Nasim Bhai.

**Ward No. 6—Shahid Ashfaqullah Ward**

**North**—From house of Noorali Mistri following begum river house of Kriparam Rajak Ansar thigann, Rashidulla to till house of Hannu harizan Padan Puliya.

**East**—From house of Hannu Harizan padan puliya to Kallu Lakhpati Dhanuupan wale following to till house of Akram Quraishi pump house.

**South**—From house of Akram Quraishi pump house to house of Sappu Bhai naka house of Annu Patel Samim Kirna following to till Subhas Patrkar to house of Rajive Samyia Holi Chouk, anupma Bhawan Ramuu Ksere.

**West**—From house of Ramu Kasere following to house of Anwar Akhtar house of Krishna Srivastava folowing to Badi Masjid to till Noorali begum river.

**Ward No. 7—Gandhi Nagar Ward**

**North**—From house of Nooruddin Mansuri Mangal Thakur to the revenue of Silwani including North boundry to till house of Kall Harizan Rampura nala.

**East**—From house of kall Harizan following to till Rampura nala house of Babu Ilahi.

**South**—From house of Babu Ilahi to house of Irsad Padriya Rahman Bhai following to till house of Halim, Salim, Sabbu Mansoori.

**West**—From house of Halim, Salim, Sabbu Mansoori following to begum river house of Kamruddin Mangal Kachhi's.

#### **Ward No. 8—Moulana Abul Kalam Azad Ward**

**North**—From house of Munavarali, Sarafatali following to house of Noor Bhai Sachiv, Tapka Hotel house of Abdul Rahim to house of Shiv Dayal Patwa Holi Chouk.

**East**—From house of Munavarali to till house of Sakir Mansoori, Madarsa, Gafur Sectary Khurseed Bhai, Badar Mamma.

**South**—From house of Shahansah, Madarsa following to till house of Juber Mansoori Mohan Gitaram Yadav, Nazim Quraisee.

**West**—From house of Nazim Quraisee following to till house of Raghvedra Patrkar, Shivdayal Patwa in holi chouk.

#### **Ward No. 9—Veer Sawarkar Ward**

**North**—From house of Awadhnarayan Sharma following to till house of Bhaiyalal Nai Vinod Srivastava.

**East**—From house Vinod Srivastava following to till house of Pappu Seth in Samaya Mandir holi chouk.

**South**—From house of Pappu Seth to house of Shri Krishna Namdev, Sikharchand Sen.

**West**—From house of Sikharchand Sen following to till house of Dr. Salim, Awadharyan Sharma.

#### **Ward No. 10—Rani Durgawati Ward**

**North**—From the house of Kamlesh Jain (Ghunnu Seth) to the house of Masroor Khan contractor and Mahboob contractor upto house of Dipu Agrwal.

**East**—From Dipu Agrwal house passing behind the street of Digambar Jain Temple to Kamla Bai, following house of Surya Talir, Azad Seth upto the house of Nema Ji.

**South**—From the house of Nema Ji following to main road Khatuu Mal Seth upto house of Raja Lok Vijay Sah.

**West**—From house of Raja Lok Vijay Sah following to house of Bala Ram Sejwar Dr. Rehan upto house Kamlesh Jain (Ghunnu Seth).

#### **Ward No. 11—Netaji Subhash Chandra Bose Ward**

**North**—From house of Omkar Yadav following to house of Munna Yadav, Shankar Sahu, Ravindra Mastar Sahab Lakhan Badhu upto house Pappu Sony.

**East**—From house of Omkar Yadav, Goha road upto house of Gulab Visvkarma, Jai Kumar Jain.

**South**—From house of Jai Kumar Jain following to house of Nihal Jain, Kamlesh Bajaj Budhbbara Bazzar, Digambar Jain Temple upto house of Anad Vijay.

**West**—From house of Anad Vijay to following to Jain Mandir, Amarchand Jain upto house of Pappu Sony.

#### **Ward No. 12—Chandra Shekhar Azad Ward**

**North**—From Nirmal Jain to Bajaj Medical following upto Rakesh Redimade to house of Shital Jain.

**East**—From house of Nirmal Jain, Farshi road, shop of Samaya Ji to High School Parisar form house upto Silwani revenue boundry.

**South**—From house to coverd boundry of north revenue Silwani upto Primary School Noorpura.

**West**—From Primary School Noorpura following to Basil Khan Jhadhu Wale begum river house of Rajaram Kushwaha to house of Yaseen Khan following house of Rajiv Kakrua, Prahlad Singh Baterwale up to house of Shital Jain.

#### **Ward No. 13—Pandit Deendayal Upadhyay Ward**

**North**—From house of Anil Bajaj Budhwara Bazar to Ramcharan Sahu to Rajendra Vidhraj following to new Madarsa upto convent boundry.

**East**—From house of Rajendra Jain Sirmou road following house of Prakash Jain, Suhknandan Sony, Madhou Chakki, Anita Jain, Dr. Bangali upto house of Viny Jain Bajrang Chourha.

**South**—From Viny Jain Bajrang Chourha upto shop of Kunji Sony, Sethi Collection.

**West**—From shop of Sethi Collection following of house Arjun Patel Dungariya Wale upto house of Mannu Rai to Anil Bajaj.

#### **Ward No. 14—Sarswati Nagar Ward**

**North**—From house of Sakir Khan Padan following to house of Riyaz Khan Rdss compound upto drian of Ashok Bihar Colony.

**East**—From Ashok Bihar Colony to Akabar Colony Sarswati Nagar, Rai Sahib Colony up to Maa Sarda CC Road.

**South**—From Maa Sharda CC road Rai Sahib Colony coverd bus stand upto temple of Angad Hanuman.

**West**—From Temple of Angad Hanuman following to Sirmou road, Syam Sahu, Visaha Chourasiya to Rdss Convent School Compound upto house of Sakir Khan Padan.

#### **Ward No. 15—Mahaveer Nagar Ward**

**North**—From Bajrang Chouraha from house School boundary, Police Station to Udaipura road Maa Sharda School covered North Revenue boundary upto Begwa Khurd.

**East**—From Maa Sharda School Begwa Khurd following Begwa drain to Udpura road Petrol Pump to Saikeda Petrol Pump covered upto all Revenue of Silwani.

**South**—From Saikeda road Petrol Pump boundary of Silwani revenue upto from house to main road.

**West**—From house of Ramashankar Shukla (from house boundary), Pradeep Cycle, Millan Jain Rajendra Jain, Saikedha road upto Bajrang Chouraha School boundary Police Station.

J. K. JAIN, Collector.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 231—जि.श.वि.अ.—2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एटदूरा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद् बरेली, जिला रायसेन के बार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	शक्ति नगर वार्ड
2	मौलाना आजाद वार्ड
3	महात्मा गांधी वार्ड
4.	साकेत नगर वार्ड
5	पुलिस लाइन वार्ड
6	सिविल वार्ड
7	सरदार पटेल वार्ड
8	गल्ला मंडी वार्ड
9	बिदुआ कालोनी वार्ड
10	सुभाष वार्ड
11	राजेन्द्र वार्ड
12	तिलक वार्ड
13	रानी दुर्गावती वार्ड
14	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
15	जवाहरलाल नेहरू वार्ड

### वार्ड क्रमांक 1—शक्ति नगर वार्ड

**पूर्व में**—हाकम सिंह के मकान से एन. एच. 12 की सीमा के साथ भगवान जी दुबे के मकान तक.

**दक्षिण में**—भगवान जी दुबे के मकान तक चैनपुर रोड होते हुये रेवा सिंह राजपूत के मकान तक.

**पश्चिम में**—रेवा सिंह मकान से कामतौन रोड होते हुये परम सिंह शिल्पी के मकान तक.

**उत्तर में**—परम सिंह शिल्पी के मकान से हाकम सिंह के मकान तक.  
**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

### वार्ड क्रमांक 2—मौलाना आजाद वार्ड

**पूर्व में**—अशोक जैन एन. एच. 12 की सीमा से होते हुये बालमुकंद मेहरा के मकान तक.

**दक्षिण में**—बालमुकंद मेहरा के मकान से पशु चिकित्सालय रोड से होते मेघ सिंह सिकरवार के मकान तक.

**पश्चिम में**—मेघ सिंह सिकरवार के मकान से कामतौन रोड होते हुये भैरो सिंह राजपूत के मकान तक.

**उत्तर में**—भैरो सिंह के मकान से होते हुये चैनपुर रोड होते हुये अशोक जैन एन. एच. 12 तक.

**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

### वार्ड क्रमांक 3—महात्मा गांधी वार्ड

**पूर्व में**—जवाहर चौधरी की दुकान एन. एच. 12 से होते हुये कन्या शाला लेते हुये हनुमान मंदिर की दुकानों तक.

**दक्षिण में**—हनुमान मंदिर की दुकानों से हॉकी ग्राउंड को लेते हुये कन्या छात्रावास तक.

**पश्चिम में**—कन्या छात्रावास से नया मोहल्ला लेते हुये पुराना कामतौन रोड की सीमा से सन्तोष रावत के मकान तक.

**उत्तर में**—सन्तोष रावत से डॉ. एस. एस. राजपूत के मकान को लेते हुये जवाहर चौधरी की दुकानों तक.

**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

### वार्ड क्रमांक 4—साकेत नगर वार्ड

**उत्तर में**—राजकुमार चौहान के मकान से एन. एच. 12 महेशरपुरम से लगा हुआ पूर्व की ओर पांजरा वाले पंडित जी के मकान से सतीश गुप्ता के मकान को लेते हुए रामलाल के मकान तक.

**पूर्व में**—रामलाल के मकान से बीरेन्द्र भावसार के मकान को लेते हुये एवं नाला क्रास करते हुए बंटी तिवारी के मकान तक.

**दक्षिण में**—बंटी तिवारी के मकान को लेते हुये परबोत्तम पटवारी के आगे मस्जिद तक, मस्जिद से आगे अ. अतीक तक.

**पश्चिम में**—मस्जिद के पास अतीक के मकान को लेते हुये नरेन्द्र सिंह की दुकान एन. एच. 12 की सीमा तक.

### वार्ड क्रमांक 5—पुलिस लाइन वार्ड

**उत्तर में**—व्हीआईपी लॉज से एन. ए. 12 होते हुये थाना क्षेत्र से सुनील साहू की दुकान तक.

**दक्षिण में**—सुनील साहू की दुकानों से किनारी रोड होते हुये केशव यादव के मकान तक.

**पूर्व में—**केशव यादव के मकान से हेमराज सिंह राजपूत के मकान।  
**पश्चिम में—**हेमराज सिंह के मकान से नाला क्रास करते हुये रतन दुबे का मकान लेते हुये हलीम का मकान से व्हीआईपी लॉज एन. एच. 12 तक।  
**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

#### वार्ड क्रमांक 6—सिविल वार्ड

**उत्तर में—**दीनदयाल परिसर से किनगी रोड होते हुये कृष्णा कालोनी राजेश शर्मा के मकान तक।

**पूर्व में—**राजेश शर्मा के मकान से मारुति नगर होते हुये मोनू भार्गव के मकान तक।

**दक्षिण में—**मोनू भार्गव के मकान से नाहर गार्डन की सीमा से होते हुये भवूत सिंह धाकड़ के मकान को लेते हुये मुन्नी लाल तिवारी के मकान को लेते हुये चुन्नी लाल गौर के मकान से विमल जैन की दुकान एन. एच. 12 तक।

**पश्चिम में—**विमल जैन की दुकान से एन. एच. 12 से होते हुये दीनदयाल परिसर तक।

**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

#### वार्ड क्रमांक 7—सरदार पटेल वार्ड

**दक्षिण में—**परमसुख राठी जेल के पास एन. एच. 12 बाल विहार होते हुये पिपरिया रोड क्रास कर कब्रिस्तान होते हुये रोड क्रास कर सरदार सिंह के मकान तक।

**उत्तर में—**सरदार सिंह के मकान से होते हुये वर्षा गेस्ट हाउस तक।

**पूर्व में—**वर्षा गेस्ट हाउस से नाहर नगर एवं नाहर गार्डन से मारुति नगर की सीमा लेते हुये हनुमान मंदिर नहर के पास पिपरिया रोड क्रास करके मुन्ना धाकड़ के मकान तक।

**पश्चिम में—**मुन्ना धाकड़ के मकान से पूजा पब्लिक स्कूल लेते हुये दालमिल रोड होते हुये परमसुख राठी एन. एच. 12 तक।

**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

#### वार्ड क्रमांक 8—गल्ला मंडी वार्ड

**उत्तर में—**केशव राठी के मकान से एन. एच. 12 से दालमिल रोड होते हुये अशोक शर्मा के मकान तक।

**पूर्व में—**अशोक शर्मा के मकान से गल्ला मंडी का पीछे का क्षेत्र रमेश धाकड़ व हनुमत धाकड़ के मकान तक।

**पश्चिम में—**रमेश धाकड़ के मकान से होते हुये गुरारिया रोड के हनुमान मंदिर एन. एच. 12 तक।

**दक्षिण में—**हनुमान मंदिर एन. एच. 12 से मानस भवन होते हुये केशव राठी के मकान तक।

**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

#### वार्ड क्रमांक 9—बिदुआ कालोनी वार्ड

**पूर्व में—**न्यायालय कोर्ट परिसर लेते हुये एन. एच. 12 के साथ असपाताल एरिया लेते हुये बिदुआ कालोनी नर्मदा प्रसाद शर्मा के मकान तक।

**दक्षिण में—**नर्मदा प्रसाद शर्मा से बिदुआ कालोनी नगर सीमा के साथ कोमल हरिजन से सफर अली के मकान तक।

**पश्चिम में—**सफर अली के मकान नगर सीमा पुराना बगलवाड़ा से होते हुये श्रवण पटेरिया के मकान तक।

**उत्तर में—**श्रवण पटेरिया से बगलवाड़ा रोड क्रास करते हुये नंद भवन को लेते हुये नालाक्रास करते हुये पावर हाऊस को लेते हुये न्यायालय कोर्ट हाइवे तक।

**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

#### वार्ड क्रमांक 10—सुभाष वार्ड

**पूर्व में—**एन. एच. 12 रामलीला भैदान की दुकान लेते हुये पावर हाउस रोड लेते हुये चुन्नी लाल जैन के मकान से रोड क्रास करते हुये बलू पुरोहित के मकान से बाबूलाल जैन के मकान से शंकर जी मंदिर से होते हुये बगलवाड़ा रोड से श्री हरीनारायण सोनी के मकान तक।

**दक्षिण में—**हरीनारायण सोनी के मकान से बगलवाड़ा रोड होते हुये सुशील जैन के मकान को लेते हुये धनूलाल आदिवासी से आगे हरीनारायण कोली के मकान तक।

**पश्चिम में—**हरीनारायण कोली के मकान से बुंदेलखण्डी मोहल्ला रोड लेते हुये रामचरण साहू के मकान से शक्ति धाम मंदिर बड़ा क्षेत्र लेते हुये मुन्ने खां के मकान तक।

**उत्तर में—**मुन्ने खां के मकान से नवीन टॉकीज लेते हुये वाहिद अंसारी का मकान लेते हुये मंडी मस्जिद की दुकानों को लेते हुये एन. एच. 12 तक।

**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

#### वार्ड क्रमांक 11—राजेन्द्र वार्ड

**पश्चिम में—**सरस्वती शिशु मंदिर धर्मशाला लेते हुये नाला क्रास कर पासी मोहल्ला पप्पू चावरिया के मकान तक।

**दक्षिण में—**पप्पू चावरिया के मकान से हेमराज के मकान को लेते हुये ओमप्रकाश विश्वकर्मा के मकान तक।

**उत्तर में—**ओमप्रकाश विश्वकर्मा के मकान से काली मंदिर क्षेत्र होते हुये गोपाल कोली के मकान से होते हुये भैयालाल आदिवासी के मकान तक।

**पूर्व में—**भैयालाल आदिवासी से बजरंग देव का मकान लेते हुये दिनेश साहू के मकान से होते हुये बगलवाड़ा रोड सईद कुरैशी कसाई के मकान से सरस्वती शिशु मंदिर तक।

**नोट—**चौहदी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है।

### वार्ड क्रमांक 12—तिलक वार्ड

**पूर्व में**—अरविन्द राय के मकान से एन. एच. 12 होते हुये राय आप्टिकल्स की दुकान तक.

**दक्षिण में**—राय आप्टिकल्स से नवीन टॉकीज रोड होते हुये रोड क्रास कर सफरदर अली के मकान होते हुये नप की दुकान तक.

**उत्तर में**—नप की दुकान से विद्युत डीपी से रमेश पटेल जामगढ़ बालों के मकान तक.

**पश्चिम में**—रमेश पटेल जामगढ़ बालों के मकान से रोड क्रास करते हुये महेश राय के मकान से पुरानी कन्या शाला रोड लेते हुये अरविन्द राय की दुकान तक.

**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है.

### वार्ड क्रमांक 13—रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर में**—नरसिंह टेकरी के सामने सड़क क्रास कर पप्पू कहार के मकान से गणेश काढ़ी को लेते हुये लखन बेरेठा के साथ रूपनारायण ओमप्रकाश भावसार के मकान तक.

**पूर्व में**—ओमप्रकाश भावसार के मकान से ब्रजमोहन किरार को लेते हुये रोड क्रास कर भबूत सिंह मास्टर के मकान को लेते हुये भगतजी के मकान होते हुए नर्मदा खोजर के मकान तक.

**दक्षिण में**—नर्मदा खोजर के मकान से होते हुये रोड क्रास कर नारायण बिदुआ के मकान को होते हुये जगदीश सोनी के मकान तक.

**पश्चिम में**—जगदीश सोनी के मकान से छक्कू कोली के मकान को लेते हुये गंगाराम डागौर का मकान लेते हुये बरहई माता होते हुए पप्पू कहार के मकान तक.

**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है.

### वार्ड क्रमांक 14—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर में**—नदी धोघरा से मवेशी बाजार होते हुये रमन बाबा के मकान को लेते हुये नरेन्द्र साहू की दुकानों तक.

**पूर्व में**—नरेन्द्र साहू की दुकान से रोड क्रास कर कासीराम सोनी के मकान से सुलेमान की दुकान से बद्री राठी के मकान तक.

**पश्चिम में**—बद्री राठी से होते हुये बद्री वागड़ी से गब्दू महाराज लेते हुये नवल किशोर रिछारिया के मकान तक.

**दक्षिण में**—नवल किशोर रिछारिया के मकान से होते हुये गुलाब नाई का मकान लेते हुये सरदार किरार मकान से होते हुये छोटे धोबी के आगे सो बहोरी किरार के मकान को लेते हुये हरप्रसाद छीपा एवं सोमराज काढ़ी से नरसिंह टेकरी से होते हुये नदी धौघरा तक.

**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है.

### वार्ड क्रमांक 15—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**उत्तर में**—हनुमान गढ़ी नगर सीमा से भीलट आश्रम लेते हुये नर्मदा प्रसाद खपररिया वाले के मकान से कामतौन रोड की नगर सीमा तक.

**पूर्व में**—नर्मदा प्रसाद के मकान से कामतौन रोड सीमा के साथ ऐकवार मौहल्ला लेते हुये हरीराम गढ़रिया के मकान को लेते हुये आफाक मियां के साथ अजीम जूता वाले के मकान को लेते हुये काले खां के मकान तक.

**दक्षिण में**—काले खां के मकान से अतीक मियां को लेते हुए राजेश पटवा के आगे सुखराम साहू के साथ नदी रोड प्रेमनारायण की दुकान तक.

**पश्चिम में**—प्रेमनारायण राय से नदी रोड के साथ भूतड़ा खेत एवं कब्रिस्तान को लेते हुये नगर सीमा में हनुमान गढ़ी तक.

**नोट**—चौहादी के अन्दर का समस्त भाग सम्मिलित है.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

Raisen, the 30th April 2014

No.-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-450-XVIII-3-04, dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, J. K. Jain, Collector, District Raisen, Madhya Pradesh under Section 29(1) of Madhya Pradesh Municipal Council, Bareli as per Schedule below :—

### SCHEDULE

Ward Number (1)	Name of Ward (2)
01	Shakti Nagar Ward
02	Moulana Azad Ward
03	Mahatma Gandhi Ward
04	Saket Nagar Ward
05	Police Line Ward
06	Civil Ward
07	Sardar Patel Ward
08	Galla Mandi Ward
09	Bidua Colony Ward
10	Shubhash Ward
11	Rajendra Ward
12	Tilak Ward
13	Rani Durgawati Ward
14	Dr. Ambedkar Ward
15	Jawahar Lal Nehru Ward

### Ward No. 01—Shakti Nagar Ward

**East**—Hakam Singh house to N. H. 12 border with Bhagwanji Dubey house till.

**South**—Bhagwan ji Dubey house to Chainpur Road  
By Rewa Singh Rajput house till.

**West**—Rewa Singh house to Kamton road via Param  
Singh Shilpi house till.

**North**—Param Singh Shilpi House to Hakam Singh  
House till.

#### **Ward No. 02—Moulana Azad Ward**

**East**—Ashok Jain N. H. 12 with border via  
Balmukand Mehra house till.

**South**—Balmukand Mehra house to Veterinary hospital  
road via Megh Singh Sikarwar house till.

**West**—Megh Singh Sikarwar house to Kamton road  
via Bhairo Siongh Rajput house till.

**North**—Bhairo Singh house to Chainpur via Ashok  
Jain N. H. 12 till.

#### **Ward No. 03—Mahatma Gandhi Ward**

**East**—Jawahar Choudhari shops N. H.12 via Girls  
School include via Hanuman Mandir  
shops till.

**South**—Hanuman Mandir shops to Hockey ground  
via Girls Hostel till.

**West**—Girls Hostel to Naya Mohalla via old Kamton  
road border to Santosh house till.

**North**—Santosh Rawat house to Dr. S. S. Rajput  
house via Jawahar Choudhari shops till.

#### **Ward No. 04—Saket Nagar Ward**

**North**—Rajkumar Chouhan house to N. H. 12 nearly  
Maheshpuram from East side Panjara Wale  
Pandit Ji house from Sateesh Gupta house  
included via Ramlal house till.

**East**— Ram Lal house to Veendra Bhavsar house  
included and acrose Nallah via Banti Tiwari  
house till.

**South**—Banti Tiwari house included Parshottam  
Patwari to next Masjid till and next Ateek  
house till.

**West**—Near Masjid Ateek house included Narendra  
Singh Shops to N. H. 12 border till.

#### **Ward No. 05—Police Line Ward**

**North**—VIP Lodge to N. H. 12 via Thana Area from  
Suneel Sahu shops till.

**South**— Suneel Sahu shops to Kingi road via  
Keshav Yadav.

**East**—Keshav Yadav house to Hemraj Singh Rajput  
house till.

**West**—Hemraj Singh Rajput house to across Nallah  
via Ratan Dubey house included Haleem  
house to VIP Lodge N. H. 12 till.

#### **Ward No. 06—Civil Ward**

**North**—Deen Dayal Parisar to Kingi road via Krishna  
Colony Rajesh Sharma house till.

**East**— Rajesh Sharma house to Maruti Nagar  
included via Monu Bhargava house till.

**South**—Monu Bhargava house to Nahar Garden  
border included via Bhabut Singh Dhakar  
house included Munni Lal Tiwari included  
Chunni Lal Gour house to Vimal Jain shops  
N. H. 12 till.

**West**—Vimal Jain shops to N. H. 12 via Deen Dayal  
Parisar till.

#### **Ward No. 07—Sardar Patel Ward**

**North**—Param Sukh Rathi near Jail N. H. 12 Balbihar  
included via Pipariya road Cross Kbristan via  
across road Sardar Singh house till.

**East**— Sardar Singh house via Varsha Guest  
house till.

**South**—Varsha Guest house to Nahar Nagar and Nahar  
Garden to Maruti Nagar border included via  
Hanuman temple near cannel Pipariya across  
to Munna Dhakar house till.

**West**—Munna Dhakar house to Pooja Public School  
included via Dalmil road via Param Sukha  
Rathi N. H. 12 till.

#### **Ward No. 08—Galla Mandi Ward**

**North**—Keshav Rathi House to N. H. 12 to Dalmil  
road via Ashok Sharma house till.

**East**— Ashok Sharma house to Behind Galla Mandi  
area Ramesh Dhakar and Munna Dhakar  
house till.

**South**—Hanuman Temple N. H. 12 to Manas Bhawan  
via Keshav Rathi house till.

**West**—Ramesh Dhakar house to via Guraiya road to  
Hanuman Temple N. H. 12 till.

#### **Ward No. 09—Bidua Colony Ward**

**East**— Court Parisar included N. H. 12 with Hospital  
Area included via Bidua Colony, Narmada  
Prasad house till.

**South**—Narmada Prasad Sharma house to Bidua Colony, Nagar Border with Komal Harijan to Sardar Ali house till.

**West**—Safar Ali house Nagar border old Bagalwara road via Shrawan Pateriya house till.

**North**—Shrawan Pateriya to Bagalwara road across via Nand Bhawan included across Nallah Power house included court N. H. 12 till.

#### **Ward No. 10—Subhash Ward**

**East**—N. H. 12 Ramleela ground shops included power house road included Chunni Lal Jain house to road across via Bablu Purohit house to Babu Lal Jain house to Shankar temple via Bagalwara road to Harinarayan Soni house till.

**South**—Harinarayan Soni house to Bagalwara road via Susheel Jain house included via Dhannu Lal Adiwashi to next Harinarayan Koli till.

**West**—Harinarayan Koli house to Bundelkhandi Mohalla road included Ramcharan Sahu house to Shakti Dham temple Big Bajar area included via Munne Kha house till.

**North**—Munne Kha house to Naveen talkies included via Wahid Ansari house included via Mandi Masjid shops included via N. H. 12 till.

#### **Ward No. 11—Rajendra Ward**

**West**—Sarswati Shishu Mandir Dharmshala included across Nallah Pasi Mohills Pappu Chawriya house till.

**South**—Pappu Chawriya house to Hemraj house included via Omprakash Vishwakarma house till.

**North**—Omprakash Vishwakarma house to Kali temple area included Gopal Koli house via Bhaiya Lal Adiwashi house till.

**East**—Bhaiya Lal Adiwashi to Bajrang Dev house included via Dinesh Sahu house via Bagalwara road Saeed Quareshi Kasai house to Sarswati Shishu Mandir School till.

#### **Ward No. 12—Tilak Ward**

**East**—Arvind Rai house to N. H. 12 via Rai Opticals shops till.

**South**—Rai Opticals to Naveen talkies road via road across Safdar Ali house via NP shops till.

**North**—NP shops to Electricity DP to Ramesh Patel Jamgarh Wale house till.

**West**—Ramesh Patel house Jamgarh wale house to road across via Mahesh Rai house to old Girls School road included via Arvind Rai shop till.

#### **Ward No. 13—Rani Durgawati Ward**

**North**—In front of across the road Narsingh Tekari Pappu Kahar house to Ganesh Kachhi included Lakan Baretha with Roopnarayan, Omprakash Bhavsar house till.

**East**—Omprakash Bhavsar house to Brajmohan Kirar included road across Bhabut Singh Master house included Bhagat Ji house via Narmada Khojar house till.

**South**—Narmada Khojar house to via road cross Narayan Bidua house included Jagdeesh Soni house till.

**West**—Jagdeesh Soni house to Chhakku Koli house included Gangaram Dagour house included Barhai Mata via Pappu Kahar till.

#### **Ward No. 14—Dr. Ambedkar Ward**

**West**—River Ghoghra to Maveshi Bajar via Raman Baba house included Narendra Sahu shops till.

**East**—Narendra Sahu shops to across road Kashiram Soni house to Suleman shops to Badri Rathi house till.

**North**—Badri Rathi via Bari Bagadi to Gabdu Maharaj included Nawal Kishore Richharia house.

**South**—Nabal Kishore Richharia house via Gulab Nai house included via sardar Kirar house via Chote Dhobi to next So Bahori Kirar house included Harprasad Chhepa and Somraj Kachhi to Narsingh Tekari till.

#### **Ward No. 15—Sardar Patel Ward**

**East**—Narmada Prasad house to Kamton road with border Raikwar mohalla included Hariram Gagriya house included with Afak Miya Ajeem Juta wale house included Kalle Kha house till.

**South**—Kale Kha house to Ateek Miya via Rajesh Patva to next Sukhram Sahu with river road Premnarayan shops till.

**North**—Premnarayan Rai river road with Bhutara Khet and Kabristan included Nagar border in Hanuman Gari till.

**West** —Hanuman Gari Nagar border to Bheelat Ashram included Narmad Khapriya wale house to Kamtona road Nagar border till.

J. K. JAIN, Collector.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 227-जि.श.वि.अ.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठाह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	आजाद वार्ड
2	शिवाजी वार्ड
3	शास्त्री वार्ड
4	विवेकानंद वार्ड
5	नेहरू वार्ड
6	गांधी वार्ड
7	महाराणा प्रताप वार्ड
8	दीनदयाल वार्ड
9	जवाहर वार्ड
10	मो. अ. कलाम आजाद वार्ड
11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
12	तिलक वार्ड
13	इन्द्रा वार्ड
14	हेमू कल्याणी वार्ड
15	मोती वार्ड

### वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्रमांक 1—आजाद वार्ड

उत्तर—बड़े घाट के पास से छोटा गोबी झोरा होते हुये रायसेन रोड तक.

पूर्व—छोटा गोबी झोरा से रायसेन गौहरगंज रोड के किनारे-किनारे श्रीमती कुलसुम बी के मकान तक.

दक्षिण—श्रीमती कुलसुम बी के मकान से कसाई मोहल्ला वाले मार्ग से होते हुए पुरानी मस्जिद तक.

पश्चिम—पुरानी मस्जिद से पुरानी कन्या शाला होते हुए भावसिंह के मकान तक और सीधे द्यूब वैल नं. 2 तक वहाँ से अतरसिंह के मकान से श्री तुलाराम के मकान से पुरानी कब्रिस्तान होते हुए कर्बला तक और पलकमती नदी के किनारे-किनारे बड़े घाट के पास नहर तक.

#### वार्ड क्रमांक 2—शिवाजी वार्ड

उत्तर—कर्बला के रामप्रसाद गौर के मकान से प्रकाश गौर के मकान तक.

पूर्व—प्रकाश गौर के मकान से सीधा सी. सी. रोड होते हुए सीधा जमनी बाई के मकान तक.

दक्षिण—जमनी बाई के मकान से बाबूलाल लोहर के मकान तक.

पश्चिम—बाबूलाल लुहार के मकान से जमना प्रसाद गौर से होते हुए गोहे से कर्बला तक.

#### वार्ड क्रमांक 3—शास्त्री वार्ड

उत्तर—द्यूबवैल नं. 2.

पूर्व—श्री विष्णु के मकान से नंदलाल चौहान के मकान से होते हुये राजू चौहान के मकान से सीधे प्रकाश जाटव के मकान तक.

दक्षिण—प्रकाश जाटव के मकान से सी. सी. रोड होते हुये अजीज खां के मकान से सीधे सी. सी. रोड होते हुए शंकरलाल धूते के मकान से जैन मंदिर नहें खां के मकान तक.

पश्चिम—बन्ने खां के मकान से सी. सी. रोड होते हुए सीधे विष्णु के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 4—विवेकानंद वार्ड

उत्तर—कर्बला से होते हुए बालमुकंद गौर के मकान तक वहाँ से वर्मा के मकान होते हुए अय्युब पठान से गौरलाल बसोड़ के मकान तक.

पूर्व—फूलचंद जैन से मकसूद खां से कान्वेन्ट स्कूल तक.

दक्षिण—कान्वेन्ट स्कूल से भूरा खां से होली वाले घाट नदी तक.

पश्चिम—होली वाले घाट से कर्बला तक.

#### वार्ड क्रमांक 5—नेहरू वार्ड

उत्तर—राजेन्द्र साहू के मकान से सीधे सी. सी. रोड होते हुए रमेश जाटव के मकान तक.

पूर्व—रमेश जाटव के मकान से सीधे सी. सी. रोड होते हुए राकेश साहू की दुकान तक.

दक्षिण—राकेश की दुकान से धर्मराज विश्वकर्मा तक.

पश्चिम—धर्मराज के मकान से शैलेन्द्र जैन के मकान से होते हुए सी. सी. रोड से सीधे राजेश साहू के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 6—गांधी वार्ड

**उत्तर**—मनोज श्रीवास्तव के मकान से होते हुए अजीम खां के मकान तक.

**पूर्व**—अजीम खां के मकान से इरफान की चक्की होते हुए रामकिशन साहू से सीधे आर. सी. सी. रोड होते हुए लालाराम रजक के मकान तक.

**दक्षिण**—लालाराम रजक के मकान से मो. हनीफ खां के मकान तक.

**पश्चिम**—मो. हनीफ खां के मकान से सीताराम ठाकुर तक तथा कैलाश के मकान से सीधे सी. सी. रोड मनोज श्रीवास्तव के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 7—महाराणा प्रताप वार्ड

**उत्तर**—निसार खां के मकान से सी. सी. रोड होते हुए मक्सूद खां के मकान तक.

**पूर्व**—मक्सूद खां के मकान से सी. सी. रोड से केवलराम की दुकान होते हुए सीधे छोटे पुल तक.

**दक्षिण**—छोटे पुल से होते हुए मंदिर वाले घाट तक.

**पश्चिम**—मंदिर वाले घाट से होली वाले घाट होते हुए निसार खां के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 8—दीनदयाल वार्ड

**उत्तर**—रमेश सोनी के मकान से गुड़ बाजार होते हुए रायसेन रोड पुलिया तक.

**पूर्व**—पुलिया से भोपाल रोड श्याम विश्वकर्मा की पुलिया तक.

**दक्षिण**—पुलिया से कमरूददीन के मकान से मुझनउददीन के मकान होते हुए रामदत्ता की दुकान से हाजी मास्टर के मकान तक.

**पश्चिम**—हाजी मास्टर के मकान से सीधे चरनजीत के मकान होते हुए रमेश सोनी की दुकान तक.

### वार्ड क्रमांक 9—जवाहर वार्ड

**उत्तर**—प्रेम प्रकाश की दुकान का संपूर्ण टोला

**पूर्व**—भोपाल रोड से

**दक्षिण**—वार्ड क्र. 9 की सीमा. (ननूलाल गौर की दुकान से सीधे सी. सी. रोड होते हुये उद्यान तक सम्पूर्ण टोला).

**पश्चिम**—कन्याशाला को सम्मिलित करते हुए मुन्ना मेवाती के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 10—मो. अबुल कलाम आजाद वार्ड

**उत्तर**—पंप हाउस का संपूर्ण क्षेत्र (सिंचाई विभाग)

**पूर्व**—नहूं गौर की दुकान के सामने से भोपाल रोड बारना पुल तक.

**दक्षिण**—बारना नदी तक.

**पश्चिम**—रेशम केन्द्र तक.

### वार्ड क्रमांक 11—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—छोटे गोबीझोरा से सरदार रामसिंह के फार्म तक.

**पूर्व**—सरदार रामसिंह के फार्म से नहर होते हुए इन्द्रा कालोनी के सार्वजनिक कुआं तक.

**दक्षिण**—सार्वजनिक कुआं से मंसूरभाई के मकान होकर नगर-पालिका कार्यालय होते हुए गिरजा मेडीकल स्टोर तक.

**पश्चिम**—गिरजा मेडीकल स्टोर से रायसेन रोड होकर सीधे गोबीझोरा तक.

### वार्ड क्रमांक 12—तिलक वार्ड

**उत्तर**—रानीबाई से सार्वजनिक कुआं होते हुए नहर होकर पावर हाउस तक.

**पूर्व**—पावर हाउस से बजरंग मंदिर तक.

**दक्षिण**—बजरंग मंदिर से सीधे आर. डी. शर्मा तक.

**पश्चिम**—रानी बाई का मकान.

### वार्ड क्रमांक 13—इन्द्रा वार्ड

**उत्तर**—नगरपालिका के सामने से

**पूर्व**—हनुमान मंदिर, इंदिरा कालोनी

**दक्षिण**—पलकमती नदी, जीवन बाबा मंदिर की संपूर्ण टोला एवं दुनाह टोला (पुलिस थाना की शासकीय भूमि की सीमा से जीवन बाबा मंदिर टोला सहित).

**पश्चिम**—भोपाल रोड

### वार्ड क्रमांक 14—हेमू कालाणी वार्ड

**उत्तर**—पलकमती नदी

**पूर्व**—पुलिस थाना (पुलिस थाना की शा. भूमि सीमा तक)

**दक्षिण**—बारना नदी तक.

**पश्चिम**—भोपाल रोड तक.

### वार्ड क्रमांक 15—मोती वार्ड

**उत्तर**—छोटा गोबी झोरा से खसरा नं. 39 से होते हुए मगरई खसरा नं. 20 तक.

**पूर्व**—गोबी झोरा ख. नं. 20 से सीधे पलकमति नदी बारना नदी के संगम तक.

**दक्षिण**—पलकमति नदी एवं बारना नदी के संगम से पलकमति नदी के किनारे-किनारे पीरखां के मकान तक.

**पश्चिम**—पीरखां के मकान से एम.पी.इ.बी. के पावर हाउस होते हुए छोटे गोबी झोरा के पास ख. नं. 39 तक.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

Raisen, the 30th April 2014

No.-227-Duda-2014.—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-04, dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, J. K. Jain, Collector, District Raisen, Madhya Pradesh under section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of wards of Municipal Council, Sultanpur as per Schedule below :—

#### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
01	Aazad Ward
02	Shivaji Ward
03	Shastri Ward
04	Vivekanand Ward
05	Nehru Ward
06	Gandhi Ward
07	Maharana Pratap Ward
08	Deendayal Ward
09	Jawahar Ward
10	M. A. Kalaam Aazad Ward
11	Dr. Ambedkar Ward
12	Tilak Ward
13	Indra Ward
14	Hemu Kalyani Ward
15	Moti Ward

#### Ward No. 01—Azad Ward

**North**—From the Bada Ghat via Chhota Gobijhora upto Raisen road.

**East**— From Chhota Gobi Jhora along the Raisen Goharganj road side to side upto Kulsum Bee's home.

**South**—From Shrimati Kulsum Bee's home to via street of Kasai Mohalla upto old Mosque.

**West**—From the old Mosque to old Girls School upto Bhavsingh's home straight tubewell No. 2 from here Atar Singh's home to Tularam's home via old Graveyard to Karbala and along the Bank of Palakmati river Bade Ghat near canal.

#### Ward No. 02—Shivaji Ward

**North**—From Karbala Ram Prasad Gour's home to till Prakesh Gour's home.

**East**— From Prakesh Gour's home to straight C. C. road upto Straight Jamni Bai's home.

**South**—From Jamni Bai's home to Babulal Lohar's home.

**West**—From Babulal Lohar's home to via Jamno Prasad Gour's to Gohe to till Karbala.

#### Ward No. 03—Shastri Ward

**North**—From Tubewell No. 2.

**East**— From Vishnu's home to via Nandlal Chouhan's home to Raju Chouhan's home to straight till Prakash Jatav's home.

**South**—From Prakash Jatav's home to via C. C. road to Ajiz Kha's home to straight via C. C. road upto Shankarlal Dhute's home to till Jain Temple road Nanhe Kha's home.

**West**—From Banne Kha's home to via C. C. road straight to Vishnu's home.

#### Ward No. 04—Vivekanand Ward

**North**—From Karbala to Bal Mukund's home from where to via Verma's home to Ayub Pathan to till Gorelal Bansod's home.

**East**— From Phool chand to Maksood Kha to till Convent School.

**South**—From Convent School to Bhura Khan to Holi wala Ghat till river.

**West**—From Holi wala Ghat to Karbala.

#### Ward No. 05—Nehru Ward

**North**—From Rajendra Shau's home to straight to via C. C. road to till Ramesh Jatav's home.

**East**— From Ramesh Jatav's home straight to C. C. road via Rakesh Sahu's shop.

**South**—From Rakesh Sahu's shop to Dharmraj Vishwakarma's home.

**West**—From Dharmraj Vishwakarma's home to Shaileendra Jain's home via C. C. road straight to Rajesh Sahu's home.

#### Ward No. 06—Gandhi Ward

**North**—From Manoj Shrivastava's home to via Azim Khan's home.

**East**— From Azim Khan's home to Irfaan Floor Mill to via Ramkishan Sahu straight to C. C. road to via Lalaram Rajak's home.

**South**—From Lalaram Rajak's home to till Moh. Hanif Khan's home.

**West**—From Moh. Hanif Khan's home to Sitaram Thakur and from Kailash's home to straight C. C. road to till Manoj Shrivastava's home.

#### **Ward No. 07—Maharana Pratap Ward**

**North**—From Nisaar Khan's home to C. C. road via to till Maksood Khan's home.

**East**—From Maksood Khan's home to C. C. road to Kevalram's shop to via straight small bridge.

**South**—From small bridge to via Mandir wala Ghat.

**West**—From Mandir wala Ghat to Holi wala Ghat via Nisaar Khan's home.

#### **Ward No. 08—Deendayal Ward**

**North**—From Ramesh Soni's home to Gud Bazar via Raisen road Puliya.

**East**—From Raisen road Puliya to Bhopal road Shayam Vishwakarma's Puliya.

**South**—From Puliya to Kamrudin's home to Moinudi's home via Ram Datta's shop to Haji Master's home.

**West**—From Haji Master's home straight to Charanjeet's home via till Ramesh Soni shop..

#### **Ward No. 09—Jawahar Ward**

**North**—Overall Tolla of Pemprakash's shop.

**East**—From Bhopal road.

**South**—From Border of Ward No. 09 Nanulal Gour's shop straight to via C. C. road till overall Tolla of Garden.

**West**—Including Girls School to Munna Mewati's home.

#### **Ward No. 10—Abdul Kalam Azad Ward**

**North**—Overall Area of pump house (Ariagation Office)

**East**—Infront of Nanulal Gour's shop till Bhopal road Baarna Bridge.

**South**—Till Barna River.

**West**—Till Resham Kendra.

#### **Ward No. 11—Dr. Ambedkar Ward**

**North**—From Chota Gobijhora to Sardar Ramsingh's Farm.

**East**—From Sardar Ramsingh's Farm via Canal to till Indira Colony's Public Well.

**South**—From Public well to Mansoor Bhai's home via Nagar Parishad Office to Girja Medical Store.

**West**—From Girja Medical Store to Raisen road via straight to Gobijhora.

#### **Ward No. 12—Tilak Ward**

**North**—From Rani Bai to Public well via Canal to power house.

**East**—From Power house to Bajrang Temple.

**South**—From Bajrang Temple to straight R. D. Sharma.

**West**—Rani Bai's home.

#### **Ward No. 13—Indra Ward**

**North**—In front of Nagar Parishad.

**East**—From Hanuman Temple Indira Colony.

**South**—From Palakmati River, Overall Tolla of Jeevan Baba Temple & Dunaha Tolla. (Border of Govt. land of Police Station to with Jeevan baba Temple Tolla)

**West**—Bhopal road.

#### **Ward No. 14—Hemu Kalyani Ward**

**North**—Palakmati River

**East**—Police Station (Till border of Govt. land of Police Station)

**South**—Till Barna River.

**West**—Till Bhopal road.

#### **Ward No. 15—Moti Ward**

**North**—From Chota Gobijhora to Khasra No. 39 via till Magrai Khasra No. 20.

**East**—From Gobijhora Khasra No. 20 to straight Palakmati river to till Barna river sangam.

**South**—From Palakmati river & Barna River Sangam to Bank of Palakmati river till Peer Khan's home.

**West**—From Peer Khan's home to MPEB power house via till Chota Gobijhora Near Khasra No. 39.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

हातोद, दिनांक 06.05. 2014

क. 60 –लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014– मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् हातोद के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करती हैः –

### अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	डॉ. महात्मा गांधी वार्ड
3	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	देवी अहिल्या वार्ड
5	नंदलाल वार्ड
6	तिलक वार्ड
7	देवजी वार्ड
8	सुभाष वार्ड
9	शिवाजी वार्ड
10	महाराणा प्रताप वार्ड
11	महावीर वार्ड
12	चंद्रशेखर वार्ड
13	सरदार भगतसिंह वार्ड
14	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
15	मौलाना आजाद वार्ड

### वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थ सीमा
01	02	03	04
01	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	बलाई मोहल्ला, चमार मोहल्ला, कोल्ड स्टोरेज, देपालपुर रोड, खजुरिया रोड़ रामचंद्र बजेसिंह के मकान से रतनलाल बलवंत, प्रहलाद बलवंत, छोगालाल बलवंत, लीलाधर सिद्धनाथ के मकान तक, चन्द्र भेरुलाल, समंदरसिंह से भागीरथ सोमाजी के मकान तक, सम्पूर्ण चमार मोहल्ला, माणक सेठ के मकान से कोल्ड स्टोरेज, खजूरिया रोड़, देपालपुर रोड़	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: तहसील कार्यालय, राजस्व भूमि</li> <li>पूर्व में: शिव मंदिर सुतार गली वार्ड क्रमांक 2 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: शेष गली वार्ड क्रं. 15 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: राजस्व भूमि सर्वे नं. 1 व 2 पश्चिम की ओर</li> </ol>
02	महात्मा गांधी वार्ड	नंदलाल रोड़, सुतार गली की दोनों पट्टी, मोड़ मंदिर गली प्रफूल्ल उपाध्याय के मकान से अनिल काका से नानूराम छीतर, लक्ष्मीनारायण ब्रजलाल के मकान से अजीज हसनमियां के मकान तक, इसका मोहम्मद के मकान से अरविन्द जैन के मकान तक, मोड़ मंदिर गली अम्बाराम गबूजी के मकान तक, मदन टेलर के मकान से गोवर्धनलाल जाट के मकान तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: देपालपुर रोड़ वार्ड कं. 4 की सीमा</li> <li>पूर्व में: वार्ड कं. 05 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: नंदलाल रोड़ वार्ड कं. 10 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: सुतार गली बड़ी मस्जिद वार्ड कं. 01 की सीमा</li> </ol>
03	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	बागरी मोहल्ला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोची मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला बद्रीलाल प्यारेलाल से अनोपसिंह मांगीलाल तक, समन्दरसिंह नाहरजी से कमलाबाई सिद्धूजी तक, गंगाराम हरिराम से सिद्धू धन्नाजी से बाबूलाल रामाजी तक, दयाराम ढूंगाजी से बद्रीलाल भेराजी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हातोद, कमलाबाई मनोहर से राजेश मिस्टर के मकान तक, सुखराम से हुक्कम सज्जन तक, पोपसिंह चौधरी, नरसिंह, मोहन झायवर से बलराम मनीराम	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: देपालपुर रोड़ वार्ड कं. 4 की सीमा</li> <li>पूर्व में: वार्ड कं. 5 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: वार्ड कं. 5 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: छोटी मस्जिद वार्ड कं. 2 की सीमा, तेजाजी का मंदिर</li> </ol>
04	देवी अहिल्या वार्ड	तहसील क्षेत्र, पी.डब्ल्यू.डी. कांकरिया रोड़, विशाल फेकट्री, चौराहा इन्दौर रोड़ दोनों साईड सोनगीर रोड़ मरीमाता चौराहा कालूरामजी पटेल की दुकान से पश्चि चिकित्सालय, दूरसंचार विभाग, कांकरिया रोड़, विशाल फेकट्री क्षेत्र, पालिया रोड़ दोनों साईड, सोनगीर रोड़, इन्दौर रोड़, दोनों साईड, भगवती कान्चेट स्कूल तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: ग्राम कांकरिया रोड़ तहसील कार्यालय राजस्व भूमि सर्वे नं. 616/640/683</li> <li>पूर्व में: इन्दौर रोड़ की सीमा, राजस्व भूमि</li> <li>दक्षिण में: सुतार गली, प्रास्वास्थ्य केन्द्र, थाना एवं वार्ड कं. 05 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: मरीमाता चौराहा मंदिर देपालपुर रोड़, वार्ड कं. 01 की सीमा</li> </ol>

05	नंदलाल वार्ड	<p>नंदलाल रोड, भोई मोहल्ला, ढोली मोहल्ला, अहिल्या कॉलोनी, थाना ग्रीड, वन विभाग</p> <p>इसरार अकबर से दिलीप गुप्ता से ताराचंद दशरथ से, प्रेमनारायण काशीराम से रामचन्द्र काशीराम से, राजेन्द्र साहु से राधाकिशन भेराजी से कालजी रामजी से मझलेसिंह तोमर ढोली मोहल्ला सम्पूर्ण क्षेत्र, थाना, ग्रीड, वनविभाग, एमपीईबी ऑफिस से बहादुर काका तक, रोशन शीतलचंद्र से बाबूलाल दादूजी से रमेश कुशवाह, पण्डयाजी वकील साहब से दिनेश सोलंकी रवि पांचाल तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: बागरी मोहल्ला वार्ड कं. 3 की सीमा</li> <li>पूर्व में: वृहत्ताकार सोसायटी एवं वार्ड कं. 06 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: नंदलाल रोड बैंक ऑफ इण्डिया वार्ड कं. 8 व 10 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: मोड मंदिर गली वार्ड कं. 2 की सीमा</li> </ol>
06	तिलक वार्ड	<p>भोई मोहल्ला, हातोद चौराहा देपालपुर रोड</p> <p>अखाडे से बद्रीलाल-भेरुलाल तक से व्यारचंद कन्हैयालाल तक, बाबूलाल पीराजी से देवाजी रामाजी तक, हंजाबाई सिद्धुनाथ से सेवाराम गोविंद तक, भवंरबाई भागीरथ से दर्यावाई दगडूजी तक, नाथू गब्बा से इरफान पहलावान तक, बद्रीलाल मोती से मांगीलाल ओंकार तक, रामचन्द्र धीसाजी से हरिसिंह मांगीलाल तक, अखाडे से देवीजी मंदिर से शमशनघाट तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: एम.पी.ई.बी. कार्यालय एवं वार्ड कं. 4 व 5 की सीमा</li> <li>पूर्व में: इन्दौर रोड, वार्ड कं. 4 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: गांधी द्वार के बाहर वार्ड कं. 8 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: नगर पालिका रोड वार्ड कं. 5 की सीमा</li> </ol>
07	देवीजी वार्ड	<p>नई कॉलोनी</p> <p>नई कॉलोनी सम्पूर्ण क्षेत्र</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: राजस्व भूमि सर्वे कं. 707 व 952</li> <li>पूर्व में: पालिया रोड राजस्व भूमि सर्वे नं. 700</li> <li>दक्षिण में: देपालपुर रोड वार्ड कं. 4 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: कांकरिया रोड एवं वार्ड कं. 4 की सीमा</li> </ol>
08	सुभाष वार्ड	<p>हैंदर कॉलोनी, ब्रह्म पैलेस, मिर्चीबाड़ा रामकिशन देवाजी से पर्वतसिंह पूनाजी तक, बाबूलाल मूलचन्द्र से बाबूलाल बद्रीलाल तक, मासूम चाचा से गंगाराम, केशरसिंह तक, टावर वाली दोनों गली, ब्रह्म पैलेस दोनों गली, मिर्चीबाड़ा सम्पूर्ण क्षेत्र</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: इन्दौर रोड वार्ड कं. 6 की सीमा</li> <li>पूर्व में: इन्दौर रोड वार्ड कमांक 4 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: मीठी बावड़ी एवं राजस्व कृषि भूमि</li> <li>पश्चिम में: बजाजखाना वार्ड कं. 9 की सीमा</li> </ol>
10	महाराणा प्रताप वार्ड	<p>नंदलाल रोड, पंचायत मार्ग, भटेवरा बाजार, पटेल गली</p> <p>महेश काका से कृष्णदास बलदेव मोदी से, मोहनलाल-लालचंद्र झायवर से जमानलाल भेरुलाल तक, विनयकुमार-चिरोंजीलाल से प्रेमनारायण-लक्ष्मीनारायण राठौड़ तक, चमकौरसिंह हरदतसिंह से सागरमल टेलर तक, गोकरण प्रेमनारायण मोदी से बैंक ऑफ इण्डिया तक, शिव मंदिर से तेजकरण हजारीलाल तक (पटेल गली), अशोकनेताजी, के मकान से रमेश दुबे के मकान तक, राजू रिंधी की दुकान से पुरुषोत्तम परमार के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: नंदलाल रोड वार्ड कं. 2 व 5 व 15 सीमा</li> <li>पूर्व में: बजाजखाना रोड वार्ड कं. 09 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: भटेवरा बाजार वार्ड कं. 11 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: काली बावड़ी वार्ड कं. 11 की सीमा</li> </ol>

11	महावीर वार्ड	गणपती चौक, माली मोहल्ला, भटेवरा बाजार, पटेल गली, खैर गली, हनुमान चौक	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: भटेवरा बाजार वार्ड कं. 10 की सीमा</li> <li>पूर्व में: गणपति मंदिर वार्ड कं. 09 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: कनाडिया भौम्बी मोहल्ला वार्ड कं. 12 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: खैर गली वार्ड कं. 14 की सीमा</li> </ol>
12	चंद्रशेखर वार्ड	कनाडिया मोहल्ला, कनाडिया भामी मोहल्ला, शिव कॉलोनी मदरसिंह रामाजी से फूलसिंह बोन्दरजी तक, पूनमचन्द्र बोन्दरजी से बद्रीलाल तुलसीराम तक, आत्माराम सौमाजी से देवकरण छतरसिंह तक, छतरसिंह कुंवजी से भुवानसिंह अम्बाराम तक, नदाजी शिनलाल से मनोहरसिंह छतरसिंह तक, अंतरसिंह केशरसिंह से मांगीलाल सौमाजी तक, सौदरशबाई भूरालाल से रामेश्वर रूपाजी तक। गोपाल माली से हरचंद्र चतरा के मकान तक, अंतरसिंह पूनाजी के मकान से गंगाराम चौधरी के मकान तक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में : कनाडिया भौम्बी मोहल्ला गली वार्ड कं. 11 की सीमा</li> <li>पूर्व में: माली मोहल्ला वार्ड कं. 09 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: कुन्ड शिव मंदिर राजस्व भूमि सर्वे नं. 952 की भूमि।</li> <li>पश्चिम में: हनुमान मंदिर गुर्दाखेड़ी रोड वार्ड कं. 13 की सीमा</li> </ol>
13	सरदार भगतसिंह वार्ड	संपूर्ण उद्देशय क्षेत्र, रोजड़ी रोड़ संपूर्ण उद्देशय क्षेत्र, अकबर मिया से अम्बाराम औंकारजी तक, बालमुकुन्द मांगीलाल से तेजराम, हीरालाल तक एवं गुरुखेड़ी रोड़ कालू पटेल की भूमि में बने मकान।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: चौधरी मोहल्ला वार्ड कं. 15 की सीमा</li> <li>पूर्व में: कुण्ड शिव मंदिर कलमेर रोड़ वार्ड कं. 12 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: रोजड़ी रोड़ राजस्व भूमि सर्वे नं. 337</li> <li>पश्चिम में: गुरुखेड़ी रोड़ राजस्व भूमि सर्वे नं. 304</li> </ol>
14	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	कस्बा मंदिर, खैर गली, हनुमान चौक, चौधरी मोहल्ला रमेशचन्द्र भेरुलाला राठौड़ से आगंदीलाल चौधरी तक, हिन्दूसिंह ठेकेदार से रामेश्वर गोपालजी तक, भेरुसिंह दर्यावसिंह से वासुदेव जगन्नाथ तक, मंछराम धीसाजी से तेजकरण बापूसिंह तक, बालकृष्ण चौधरी के मकान से चंद्रसिंह चौधरी एवं कनीराम चौधरी के मकान तक, सत्यनारायण थावरजी से केशरबाई पूनाजी के मकान तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: कस्बा मंदिर रोड़, वार्ड कं. 15 की सीमा</li> <li>पूर्व में: खैर गली वार्ड कं. 11 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: हनुमान मंदिर वार्ड कं. 13 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: गुरुखेड़ी रोड़ राजस्व भूमि सर्वे नं. 100 की भूमि</li> </ol>
15	मौलाना आजाद रोड	पटेल गली, कुमार मोहल्ला, जोशी मोहल्ला, कस्बा मंदिर, काढी मोहल्ला, गुवाड़ी नंदराम धीसाजी से रामचन्द्र गेंदालाल तक, गोवर्धन बाबूलाल से ज्ञानसिंह मांगीलाल तक, इदरसिंह नाथूजी से भामीरथ हरिराम तक, झून्नालाल बाबूलाल से मोरसिंह गेंदालाल, बालकृष्ण वकील सा. के मकान से कालूरामजी पटेल तक, अल्लुमुद्दीन के मकान से समन्दर के मकान तक,	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में: शेष गली (नाला) वार्ड कं. 1 की सीमा</li> <li>पूर्व में: नन्दलाल चौक बस स्टेंड वार्ड कं. 10 की सीमा</li> <li>दक्षिण में: वार्ड कं. 11 की सीमा</li> <li>पश्चिम में: नाला राजस्व भूमि सर्वे नं. 90 व 91, वार्ड कं. 14 की सीमा</li> </ol>

		सलीम के मकान से कैलाश बंशीधर तक, सलीम के मकान से कैलाश बंशीधर तक, कयामुददीन से भावदीन बाबा के मकान तक, संतोष खुमानसिंह दुलारे एवं गुलाबसिंह चम्पालाल दुलारे के भवन।	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

Hatod Dated 06.05.2014

No. 60 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intension to include the following discription of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Hatod as shown below:-

**Schedule**

Ward No. (1)	Name of the ward (2)
1	Dr.Ambedkar Ward
2	Mahatma Gandhi Ward
3	Lal Bahadur Shastri Ward
4	Devi Ahilya Ward Ward
5	Nandlal Ward
6	Tilak Ward
7	Deviji Ward
8	Subhash Ward
9	Shivaji Ward
10	Maharana Pratap Ward
11	Mahavir Ward Ward
12	Chandra Shekhar Ward
13	Sardar Bagatsingh Ward
14	Jawaharlal Nehru Ward
15	Molana Azad Ward

**Four Dimensional Extents of wards are as follows**

<b>Ward No.</b>	<b>Name of Ward</b>	<b>Lanes, Houses &amp; Mohalla's including in the Ward</b>	<b>Boundaries of Ward</b>
01	Dr. Ambedkar Ward	<p><i>Balai Mohall, Chamar Mohalla, Cold Storage, Depalpur Road, Khajuriya Road</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Ramchandar Bajesingh house to Ratanlal Balwant, Prahalad Balwant, Chogalal Balwant, Leeladhar Sidhnath House</li> <li>- From Chandar Bherulal, Smandarsingh to Bhagirath Somaji House</li> <li>- Whole Chamar Mohalla</li> <li>- From Mank Seth house to Cold Storage, Khajuriya Road, Depalpur Road</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> – Thesil Office, Revenue Land</li> <li>2. <b>East</b> - Shiv Mandir Sutar Gali Boundaries of Ward No. 2</li> <li>3. <b>South</b> – Shesh Gali Boundaries of Ward No. 15</li> <li>4. <b>West</b> – Revenue Land Survey No. 1 &amp; 2 side of west.</li> </ol>
02	Mahatma Gadhi Ward	<p><i>Nandlal Road, Sutar Gali Both Side, Mod Mandir Gali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Prafull Upadhyay House to Anil kaka to Nanuram Chitar, Laxminarayan Brajlal house to Aziz Hasanmiya house</li> <li>- From Ishak Mohamad House to Arvind Jain House</li> <li>- Mod Mandir Gali Ambaram Gabbaji house</li> <li>- From Madan Tailor house to Goverdhan Jat House</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Depalpur Road, Boundaries of Word No. 4</li> <li>2. <b>East</b> - Boundries of Ward No. 5</li> <li>3. <b>South</b> – Nandlal Road Boundries of Ward No. 10</li> <li>4. <b>West</b> – Sutargali Badi Masjid Boundaries of Ward No. 1</li> </ol>
03	Lal Bahadur Shastri Ward	<p><i>Bagri Mohalla, Prathamik Svastha Kendra, Mochi Mohalla, Harijan Mohalla</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Badrilal Pyarelal to Anopsingh Mangilal</li> <li>- From Samandersingh naharji to Kamalabai Sidhuji</li> <li>- From Gangaram Hariram to Sidhu Dhannaji to Babulal Ramaji</li> <li>- From Dayaram Dungji to Badrilal Bheraji Primary Health Centre Hathod</li> <li>- From Kalabai Manohar to Rajesh Mister House</li> <li>- From Sukharam to Hukkam Sajjan</li> <li>- From Popsingh Choudhary, Narsingh Mohan Driver to Balram Maniram</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Depalpur Road, Boundaries of Word No. 4</li> <li>2. <b>East</b> - Boundaries of Ward No. 5</li> <li>3. <b>South</b> – Boundaries of Ward No. 5</li> <li>4. <b>West</b> – Chhoti Masjid, Boundaries of Ward No.</li> </ol>
04	Devi Ahilya Ward	<p><i>Tahsil Area, PWD, Kankriya Road, Vishal Factory, Chouraha Indore Road Both Side, Songir Road</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Marimata Chouraha Kaluramji Patel Shope to Veterinary Hospital, Department of telecommunications, Kankriya Road, Vishal Vactory area, Paliya Roadh both side, Songir Road, Indore Road both side Bhagwati convent school</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Kankriya Road, Revenue Land Survey No. 616/640/683.</li> <li>2. <b>East</b> - Boundaries of Indore Road, Revenue Land</li> <li>3. <b>South</b> – Sutar Gali, Primary Health Center, Police Station , and Boundaries of Ward No. 5</li> <li>4. <b>West</b> - Marimata Chouraha Mandir Depalpur Road, Boundaries of Ward No. 1</li> </ol>

05.	Nandlal Ward	<p><i>Nandlal Road, Bhoi Mohalla, Dholi Mohalla, Ahiliya Colony, Police Station, Gird, Forest Department</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Israr akbar to Delip Gupta to Tarachand Dashrath to Premnarayan Kashiram to Ramchandra Kashiram to Rajendra sahu to radhakishan bheraji to kalji ramji to majhalesingh tomar whole dholi mohalla</li> <li>- From Police Station, Grid, Forest Department, MPEB Office to Bahadur Kaka</li> <li>- From Roshan Shitalchand to babulal daduji to ramesh kushwaha, pandiyaji advocate to dinesh solanki ravi panchal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North - Bagri Mohalla, Boundaries of Ward No. 3</li> <li>2. East - Vrahatakar Society Boundaries of Ward No. 6</li> <li>3. South - Nandlal Road, Bank of India, Boundaries of Ward No. 8 &amp; 10</li> <li>4. West - Mode Mandir Gali, Boundaries Ward No. 2</li> </ol>
06	Tilak Ward	<p><i>Bhoi Mohalla, Hatod Chouraha Depalpur Road</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Akhade to Badrilal Bherulal to Pyarechand Kanhaiyalal</li> <li>- From Babula Piraji to Devaji Ramaji</li> <li>- From Hanjabai Sidhanath to Sevaram Govind</li> <li>- From Bhavarbai Bhagirath to Daryavbai Dagruji</li> <li>- From Nathu gabba to Irfan Pahalwan.</li> <li>- From Badrilal Moti to Mangilal Onkar.</li> <li>- From Ramchandra Ghisaji to Harisingh Mangilal</li> <li>- From Akhada to Deviji Mandir to Shamshan Ghat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North - MPEB Office &amp; Boundaries of Ward No. 4 &amp; 5</li> <li>2. East - Indore Road, Boundaries of Ward No. 4</li> <li>3. South - Gandhi Dwar ke bahar &amp; Boundaries of Ward No. 8</li> <li>4. West - Nagar Palika Road &amp; Boundaries of Ward No. 5</li> </ol>
07	Deviji Ward	<p><i>New Colony</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Whole Area of New Colony</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North - Revenue Land Survey No. 707 &amp; 952</li> <li>2. East - Paliya Road Revenue Land Survey No. 700</li> <li>3. South - Depalpur Road, Boundaries of Ward No. 4</li> <li>4. West - Kankariya Road &amp; Boundaries of Ward No. 4</li> </ol>
08	Subhash Ward	<p><i>Haidar Colony, Brahm Palace, Mirchibada</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramkishan Dewaji to Parvatsingh Punaji</li> <li>- From Babulal Mulchand to Babulal Badrilal</li> <li>- From Masum Chacha to Gangaram Kesharsingh</li> <li>- Tower Wali Gali Both Side</li> <li>- Brahm Palace Both Gali</li> <li>- Whole Area of Mirchibada</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North - Indore Road, Boundaries of Ward No. 6</li> <li>2. East - Indore Road, Boundaries of Ward No. 4</li> <li>3. South - Mithi Bavadi &amp; Revenue Agriculture Land</li> <li>4. West - Bajaj Khana, Boundaries of Ward No. 9</li> </ol>

09	Shivaji Ward	<p><i>Bajajkhana Chouk, Kumawat Mohalla, Mali Mohalla, Ganpati Chouk, Panchayat Marg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Laxminarayan Punamchand Rathor to Ramchandra Munnalal</li> <li>- From B.K.Tant House to Lalaji Mistri</li> <li>- From Chaganbai Chogalal to Jagannath Nathuji Choudhary.</li> <li>- From Dhannala Nathuji to Ganpati Mandir to Jain Dharmshalla</li> <li>- Khandelwal Dharmsala to Nandkishor Kanhiyalal House</li> <li>- From Laxminarayan Tailor to Kailash Nai</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Boundries of Ward No. 10</li> <li>2. <b>East</b> - Revenue Land Boundries of Ward No. 8</li> <li>3. <b>South</b> - Water Works Road, Ramdev Krashi Farm, Revenue Land Survey No. 952.</li> <li>4. <b>West</b> - Mali Mohalla, Boundries of Ward No. 11&amp; 12</li> </ol>
10	Maharana Pratap Ward	<p><i>Nandlal Road, Panchayat Marg, Bhatevra Bazar, Patel Gali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Mahesh kaka to Krisandas Baldev Modi to Mohanlal-Lalchand Driver to Jamnalal Bherulal</li> <li>- From Vinay Kumar Chirongilal to Premnarayan Laxminarayan Rathore</li> <li>- From Chamkorsingh Hardatsingh to Sagarmal Tailor</li> <li>- From Gokaram Premnarayan Modi to Bank of India</li> <li>- From Shiv Mandir to Tejkaran Hajarilal (Patel Gali)</li> <li>- From Ashok Netaji House to Ramesh Dubey House</li> <li>- From Raju Sindhi shop to Purushotam Parmar House</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Nandlal Road, Boundaries of Ward No. 2, 5 &amp; 15</li> <li>2. <b>East</b> - Bajaj Khana Road, Boundaries of Ward No. 9</li> <li>3. <b>South</b> - Bhatewara Bazar Road, Boundaries of Ward No. 11</li> <li>4. <b>West</b> - Kali Bawadi Road, Boundaries of Ward No. 11</li> </ol>
11	Mahavir Ward	<p><i>Ganpati Chouk, Mali Mohalla, Bhatewra Bazar, Patel Gali, Kher Gali, Hanuman Chouk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Hatesingh Hiraji to Babulal Pandey</li> <li>- From Shaligram Bhagwansingh to Chandersingh Bajesingh</li> <li>- From Suresh Chandra Bhagirath to Paras ki Dukan</li> <li>- From Kesharsingh Ratiram to Dayaram Kher</li> <li>- From Dinesh Govindram to Ratansingh Kashiram</li> <li>- From Pannalal Chapola house to Kanhiyalal Munim House</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Bhatewra Bazar, Boundaries of Ward No. 10</li> <li>2. <b>East</b> - Ganpati Mandir Boundaries of Ward No. 9</li> <li>3. <b>South</b> - Kanadiya Bhambi Mohalla Boundaries of Ward No. 12</li> <li>4. <b>West</b> - Kher Gali, Boundaries of Ward no. 14</li> </ol>

12	Chandra Shekhar Ward	<p><i>Kanadiya Mohalla, Kanadiya Bhambhi Mohalla, Shiv Colony</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Madrusingh Ramaji to Fulsingh Bondarji</li> <li>- From Punamchand Bondarji to Badrilal Tulsiram</li> <li>- From Atmaram Somaji Devkaran Chhatarsingh</li> <li>- From Chhatarsingh Kuwarji to Bhuwansingh Ambararam</li> <li>- From Nandaji Kishanlal to Manohar singh Chatarsingh</li> <li>- From Antarsingh Kesharsingh to Mangilal Somaji</li> <li>- From Sodrabai Bhuralal to Rameshwar Rupaji</li> <li>- From Gopal Mali to Harchand Chatra House</li> <li>- From Antarsingh Punaji house to Gangaram Choudhary House</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - kanakiya Bhambhi Mohalla (Gali) Boundaries of Ward No. 11</li> <li>2. <b>East</b> - Mali Mohalla, Boundaries of Ward No. 9</li> <li>3. <b>South</b> - Kund Siv Mandir Revenue land of Survey No.952</li> <li>4. <b>West</b> - Hanuman Mandir Gurdakhedi Road Boundaries of Ward No. 13</li> </ol>
13	Sardar Bagatsingh Ward	<p><i>Total Area of Uderai &amp; Rojadi Road</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Total Area of Uderai</li> <li>- From Akabarmiya to Ambararam Onkarji</li> <li>- From Balmukund Mangilal to Tejram Hiralal</li> <li>- Gurdakhedi Road Kaluram patel ki bhumi me bane makan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Choudhary Mohalla Boundaries of Ward no. 14</li> <li>2. <b>East</b> - Kund Shiv Mandir Kalmer Road Boundaries of Ward No. 12</li> <li>3. <b>South</b> - Rojari Road, Revenue land of Survey No. 337</li> <li>4. <b>West</b> - Gurdakhedi Road Revenue land of Survey No. 304</li> </ol>
14	Jawaharlal Nehru Ward	<p><i>Kasba Mandir, Kher Gali, Hanuman Chouk, Choudhary Mohalla</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Rameshchandra Bherulal Rathore to Anandilal Choudhari</li> <li>- From Hindusingh Thekedar to Rameshwar Gopalji</li> <li>- Bherusingh Daryavsingh to Vasudev Jagannath</li> <li>- From Machharam Ghisaji to Tejkaran Bapusingh</li> <li>- From Balkrishna Choudhary house to Chandarsingh choudry &amp; Kaniram Choudhary House</li> <li>- From Satyanarayan Thowarji to kesharbai punaji house</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Kasba Mandir Boundaries of Ward no. 15</li> <li>2. <b>East</b> - Khair Gali Boundaries of Ward No. 11</li> <li>3. <b>South</b> - Hanuman Mandir Boundaries of Ward No. 13</li> <li>4. <b>West</b> - Gurdakhedi Roadd Revenue land of Survey No. 100</li> </ol>
15	Molana Azad Ward	<p><i>Patel Gali, Kumar Mohalla, Joshi Mohalla, Kasba Mandir, Khachhi Mohalla, Guwadi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Nandram Ghisaji to Ramchandra Gendalal</li> <li>- From Goverdhanlal Babula to Gyansingh Mangilal</li> <li>- From Indarsingh Nathuji to Bhagirath Hariram</li> <li>- From Jhunnalal Babulal to Morsingh</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>North</b> - Sesha Gali (Nalal) Boundaries of Ward No. 1</li> <li>2. <b>East</b> - Nandlal Chock Bus Stand Boundaries of Ward No. 10</li> <li>3. <b>South</b> - Boundaries of Ward No. 11</li> <li>4. <b>West</b> - Nala Revenue land Survey No. 90 &amp; 91, Boundaries of Ward No. 14</li> </ol>

		<p>Gendalal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- From Balkrishan Vakil to Kaluram Patel</li> <li>- From Alimuddin House to Samandar House</li> <li>- From Salim House to Kailash Banshidar</li> <li>- From Kayumuddin to Bhavdin Baba house</li> <li>- Santosh Khumansingh Dulare and Gulabsingh Champalal Dulare House</li> </ul>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

बेटमा, दिनांक 06.05 2014

क्र. 61 –लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् बेटमा के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है: —

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	जवाहर वार्ड
2	महात्मा गांधी वार्ड
3	सुभाष वार्ड
4	शास्त्री वार्ड
5	अम्बेडकर वार्ड
6	देवी अहिल्या वार्ड
7	इंदिरा वार्ड
8	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
9	आजाद वार्ड
10	वालिमकी वार्ड
11	शिवाजी वार्ड
12	राणा प्रताप वार्ड
13	सम्राट अशोक वार्ड
14	महावीर वार्ड
15	अन्नपूर्णा वार्ड

## वार्डों की चतुर्थी सीमा का विवरण निम्नानुसार है

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थी सीमा
			1 2 3 4
01	जवाहर वार्ड	<p>धार रोड हाजी कॉलोनी, मंत्री नगर, देपालपुर रोड़, नगर बस स्टेण्ड, प्रकाश नगर, राज पैलेस गार्डन धार रोड़ – पश्चि चिकित्सालय से हाजी कॉलोनी सम्पूर्ण, मंत्री नगर सम्पूर्ण नाना सेठ के वेयर हाउस से टप्पा कार्यालय, फारेस्ट कर्वाटर, होते हुए धार रोड़ बाबू माली का मकान से रमेशचन्द्र फूलचन्द्र के गैरेज तक।</p> <p>देपालपुर रोड़ – मकवाना होटल से मदनलाला गौरीशंकर जैन का मकान एवं डॉ. सुलानिखया एवं अन्य के मकान तक।</p> <p>नया बस स्टेण्ड – आई.एच.एस.डी.पी. भवन मार्केटिंग सोसायटी देपालपुर रोड़- इब्राहिम चक्कीवाले की दुकान से उत्तर की ओर राज पैलेस गार्डन तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में – देपालपुर रोड़ पिल्याखाल</li> <li>दक्षिण में – इन्दौर धार रोड़</li> <li>पूर्व में – देपालपुर रोड़</li> <li>पश्चिम में – शा. पश्चि चिकित्सालय</li> </ol>
02	महात्मा गांधी वार्ड	<p>देपालपुर रोड़, गुरुकृपा कॉलोनी, भील मोहल्ला, कलाम कॉलोनी इन्दौर धार रोड़ बस स्टेण्ड, गाड़ी अड़ा, हरकचन्द्र कॉलोनी, सनावदा रोड़</p> <p>देपालपुर रोड़— शमशान घाट से गुरुकृपा कॉलोनी के गेट तक एवं सम्पूर्ण गुरुकृपा कॉलोनी, भील मोहल्ले की दोनों पट्टी, कलाम कॉलोनी सम्पूर्ण। देपालपुर रोड़ खत्रीजी की किताबों की दुकान से विट्ठल सेठ की बोरवेल की दुकान।</p> <p>बस स्टेण्ड – मदनलाल जैन के मकान से संतोष जायसवाल के मकान तक।</p> <p>गाड़ी अड़ा – छोटे खाँ लोहार के मकान से वासुदेव राठौर के मकान तक, मीठी बावड़ी हरकचन्द्र कॉलोनी वैष्णव मांगलिक भवन, बियाणी गार्डन, केसरसिंहजी गारी के मकान से अमरु माली के मकान तक देवीसिंह गारी के मकान से सतीश अग्रवाल के मकान एवं सुवालाल सेठ का सेव का कारखाना तेजाजी मंदिर से दीपक अग्रवाल के मकान तक, दीपक अग्रवाल की दुकान से राजचन्द्रजी जायसवाल के मकान तक जायसवाल के मकान से अमरु माली के मकान तक भेरु चौधरी के मकान से रविश पाठक के मकान से श्यामबाई जाट के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में – पीलिया खाल</li> <li>दक्षिण में – इन्दौर धार रोड़</li> <li>पूर्व में – सनावदा रोड़</li> <li>पश्चिम में – देपालपुर रोड़</li> </ol>
03	सुभाष वार्ड	<p>सनावदा रोड़, वाघ कॉलोनी, शिक्षक नगर, इन्दौर धार रोड़, हायर सेकंडरी स्कूल परिसर, यशवंत बाग, इन्दौर नाका उपाध्याय कॉलोनी कालासूरा रोड़</p> <p>सनावदा रोड़ – रणछोड़ सेठ के कुंऐ से रामप्रसाद चौहान के मकान तक चौहान के मकान से महेश चौधरी के मकान तक धनश्याम चौधरी के मकान तक से रामेश्वर कुशवाह के मकान तक बाघ कॉलोनी सम्पूर्ण, शिक्षक नगर सम्पूर्ण, यशवंत बाग, सनावदा रोड़, संजय वाघ के मकान से</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में – खतेड़िया रोड़</li> <li>दक्षिण में – इन्दौर धार रोड़</li> <li>पूर्व में – कालासूरा रोड़</li> <li>पश्चिम में – सनावदा रोड़</li> </ol>

		<p>सुवालाल जैन की होटल वाले मकान तक। इन्दौर रोड़ हेमराज किराना दुकान से हायर सेकेण्डर स्कूल परिसर, रतनलाल सेव वाले की दुकान से रामकिशन बागरी के मकान तक यशवंत बाग से मनीष मोदी के मकान होते हुए इन्दौर नाके पीछे की दोनों लाईन होते हुए सतपाल ढाबे से कालासुरा रोड़ तक।</p>	
04	शास्त्री वार्ड	<p>इन्दौर धार रोड़, नर्मदा नगर, नानजी चौधरी वाली कॉलोनी, भील बाखल, गवली मोहल्ला, कटकटपुरा एवं वालिमकी मोहल्ला।</p> <p>इन्दौर रोड़ लाला दरबार के कुंऐ से पेट्रोल पम्प, गुरुद्वारा लंगर भवन, गुरुद्वारे की दुकानों से बिजली ऑफिस तक, नर्मदा नगर सम्पूर्ण, इन्दौर रोड़ श्याम खण्डेलवाल के मकान से चौधरी हॉस्पिटल से शब्दीर जागीरदार मार्केट तक। गवली मोहल्ला अरुणा उपाध्याय के मकान से भी पहलवान के मकान तक। कटकटपुरा अकरम शाह के मकान से रहूफ साहब के मकान तक वालिमकी मोहल्ला विजय खत्री के मकान से सुरेश खत्री के मकान से रतनलाल खत्री के मकान तक। कटकटपुरा कुदरत शाह के मकान से भंसूर टेलर एवं वहाब पहलवान गिरवर काछी तक मुन्नवर बैग के मकान से वहाब पहलवान झायवर एवं फौजी के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — इन्दौर धार रोड़</li> <li>दक्षिण में — कटकटपुरा रोड़</li> <li>पूर्व में — लाला दरबार का कुआ</li> <li>पश्चिम में — गवली बाखल रोड़</li> </ol>
05	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	<p>काछी मोहल्ला सम्पूर्ण गली नम्बर 01 एवं 02, मीरदा बाखल, सांकल्या भेरू, कचहरी कम्पाउण्ड, गवली बाखल रोड़।</p> <p>अमरसिंह गंगाराम काछी के मकान से हीरासिंह चेनसिंह के मकान तक कैलाश परतानी के मकान से अनिल गुरु के मकान तक।</p> <p>सांकल्या भेरू रोड़ — अनिल गुरु के मकान नर्मदाबाई पूसाजी माली के मकान तक।</p> <p>गवली बाखल रोड़ — भागीरथ देवराम व्यास के मकान से उत्तर तरफ की लाईन न्याज मोहम्मद पिंजारे के मकान तक काछी मोहल्ला — रामचन्द्र काछी का मकान, संगीता माली का मकान, बालकिशन काछी का मकान, पूनमचन्द्र काछी का मकान एवं रमेश वर्मा मास्टर के मकान तक, कन्हैयलाल कालू के मकान होते हुए शब्दीर जागीरदार के मकान से रमेशचन्द्र गंगाराम काछी का मकान तक, परसराम के मकान से गंगाराम मास्टर साहब के मकान तक, गंगाराम मास्टर के मकान से काछी पंचायती होते हुए कचहरी चौक मीरदा बाखल सम्पूर्ण कचहरी घाटी तम्बरदार के मकान तक एवं भागरीथ देवराम व्यास के मकान तक काछी पंचायती से पश्चिम की ओर की दोनों लाईन अन्ना साहब के मकान से बाबू पहलवान के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — कटकटपुरा</li> <li>दक्षिण में — गुरुदारा रोड़</li> <li>पूर्व में — नर्मदा नगर</li> <li>पश्चिम में — गवली बाखल रोड़</li> </ol>

06	देवी अहिल्या वाडे	गुरुदारा रोड़, गुरुदारा बावडी, रांवला, गढ़ी मोहल्ला, लखेरा बाखल, आल्या बाखल, गलगोया, हनुमान दरवाजा गुरुदारा रोड़, कुंवरसिंह चैनसिंह के मकान से गुरुदारे का पुराना लंगर भवन होते हुए गाविन्दसिंह दरबार के मकान तक। गुरुदारा बावडी से अभिनन्दन स्कूल होते हुए नाथ महाराज का मकान ढोली चौक सम्पूर्ण रावला सम्पूर्ण, गढ़ी मोहल्ला सम्पूर्ण, लखेरा बाखल पूर्वी लाईन हनुमान दरवाजे तक, आल्या मोहल्ला सम्पूर्ण एवं गलगोया।	1. उत्तर में – वार्ड क. 5 की सीमा एवं नर्मदा नगर 2. दक्षिण में – हाईवे रोड़ 3. पूर्व में – गुरुद्वारा बावडी 4. पश्चिम में – लखेरा बाखल रोड़
07	इंदिरा वार्ड	कुम्हार मोहल्ला, लखेरा बाखल, जैन मंदिर एवं जैन धर्मशाला, अन्नपूर्णा चौकी बाजार, सांकल्या भेरू रोड़, तम्बोली मोहल्ला, कुम्हार बाखल कुम्हार मोहल्ला रमेश गुलाब भारती के मकान से उत्तर की ओर लखेरा बाखल की पश्चिम लाईन जैन मंदिर तक जैन धर्मशाला शंकर दादा के मकान से दक्षिण की ओर अनिल गुरु के मकान होते हुए हीरालाल महाराज के मकान होते हुए अन्नपूर्णा मंदिर तक। मोहन तम्बोली के मकान से जैन धर्मशाला, जैन मंदिर से वर्धमान सेठ का मकान होते हुए तम्बोली मोहल्ला एवं कुम्हार बाखल जगदीश भारती के मकान तक	1. उत्तर में – कचहरी रोड़ 2. दक्षिण में – हाईवे रोड़ 3. पूर्व में – लखेरा बाखल रोड़ 4. पश्चिम में – तम्बोली मोहल्ला रोड़
08	डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड	कुम्हार मोहल्ला, तम्बोली मोहल्ला, धार दरवाजा, मालवीय जूनी बोहरा बाखल कुम्हार मोहल्ला – झोपड़ी वाले हनुमान से उत्तर की ओर मूलचन्द्र आल्या के मकान से तोलाराम कलोता एवं बिरमपुरी के मकान तक तम्बोली मोहल्ला कुंजडे के मकान से पारस जैन के मकान तक। धार दरवाजा पारस जैन के मकान से परमानन्द बालकृष्ण ब्राह्मण के मकान तक। मालवीय मोहल्ला – मंत्रीजी की सम्पूर्ण चाल, जूनी बोहरा बाखल की दोनों लाईन, मालवीय मोहल्ला, द्वारका शारदा के कोठे से होते हुए अमरसिंह गढ़ वाले के मकान तक	1. उत्तर में – धार दरवाजा रोड़ 2. दक्षिण में – हाईवे रोड़ 3. पूर्व में – तम्बोली मोहल्ला रोड़ 4. पश्चिम में – मालवीय मोहल्ला रोड़
09	आजाद वार्ड	मालवीय मोहल्ला, खारी बावडी इमामबाड़ा, धार दरवाजा, कॉलोनी, सागोर रोड़ मालवीय मोहल्ला – रामसिंह किशन हरिजन के मकान से मालवीय मोहल्ले की पश्चिम पट्टी, नोशाद बेंड के मकान तक, खारी बावडी इमाम बाड़ा, धार दरवाजा, सागोर रोड़ चौधरी कॉलोनी सम्पूर्ण	1. उत्तर में – धार दरवाजा रोड़ 2. दक्षिण में – हाईवे रोड़ 3. पूर्व में – मालवीय मोहल्ला रोड़ 4. पश्चिम में – सागोर रोड़
10	वाल्मीकी वार्ड	धार दरवाजा, सांकल्या भेरू रोड़, गवली बाखल रोड़, राजवाडा चौक, पुराबाजार, बोहरा बाखल, मस्जिद, कचहरी रोड़ एवं मीरखों का मोहल्ला धार दरवाजा – विटठल सेठ के मकान से, पुष्पक मोदी के मकान तक सांकल्या भेरू रोड़ – पुष्पक मोदी के मकान से गोपाल दरबार के मकान तक। कचहरी रोड़ – गोपाल दरबार के मकान से छगनलाल रामरतन दरजी का मकान, मस्जिद से गवली बाखल ताहेर बोहरे के मकान से रणछोड़ चौधरी के मकान तक। रणछोड़ चौधरी के मकान से परसराम सोनी के मकान तक देवीलाल सोनी	1. उत्तर में – इन्दौर धार रोड़ 2. दक्षिण में – धार दरवाजा 3. पूर्व में – सांकल्या भेरू रोड़ गवली मोहल्ला रोड़ 4. पश्चिम में – मीरखों का मोहल्ला

		<p>के मकान होते हुए राम सहाय के मकान तक। मीहन सोडानी के मकान से दक्षिण की ओर पुरा बाजार वाली लाईन बोहरा बाखल तक। बोहरा बाखल सम्पूर्ण एवं मरिजद तक मीरखों का मोहल्ला रामरतन दरजी के मकान होते हुए लाल ईमली वाली गली, जाजूजी का नूरा, सत्तार चाचा के मकान से दक्षिण की ओर गिटठल सेठ के मकान तक।</p>	
11	शिवाजी वार्ड	<p>धार दरवाजा, मीरखों का मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, कचहरी रोड़, अम्बेडकर मोहल्ला धार दरवाजा — कैलाश आत्माराम नाई के मकान से पश्चिम की ओर मुन्ना दिलदार शाह फकीर के मकान तक। खटीक मोहल्ला — जगन्नाथ बरगुण्डे के मकान से उत्तर की ओर अम्बेडकर मोहल्ले की पश्चिमी लाईन, तोलाराम चौधरी के मकान तक। अम्बेडकर मोहल्ला पूर्वी लाईन — गोगादेव मंदिर, सुभाष मेहता का मकान हेतु मदन पहलवान के मकान से कल्लू पतंग वाले के मकान तक। चुन्नीबाई हुकमा के मकान से खटीक मोहल्ले के कॉर्नर तक। मीरखों का मोहल्ला मंसूर खों मुंशीजी के मकान तक। कचहरी रोड़ बद्री सुतार के मकान से पश्चिम लाईन शा. उर्दू स्कूल तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — कचहरी रोड़</li> <li>दक्षिण में — धार दरवाजा रोड़</li> <li>पूर्व में — मीरखों का मोहल्ला रोड़</li> <li>पश्चिम में — आवास कॉलोनी</li> </ol>
12	राणा प्रताप वार्ड	<p>कचहरी रोड़ नगर पालिका परिसर, श्रीराम मंदिर वाली गली, पुराबाजार, सोसायटी रोड़ इन्दौर धार रोड़, अम्बेडकर मार्ग कचहरी रोड़ — नगर परिषद कार्यालय से पूर्व की ओर श्रीराम मंदिर होते हुए डॉ. जैन के मकान तक। पुराबाजार — डॉ. जैन का मकान से जगदीश सेठ के मकान होते हुये, राधेश्याम जाखेटिया के मकान होते हुये उत्तर वाली लाईन राजू जैन के मकान तक। सोसायटी रोड़ — राजू जैन के मकान से सोसायटी कार्यालय तक एवं दया शंकर शर्मा के मकान से पूर्व की ओर सार्वजनिक प्याउ होते हुये, पुराबाजार प्याउ से सुवालाला सेठ का मकान तक। इन्दौर धार रोड़ — सुवालाला सेठ के मकान से मंगलम मेडीकल स्टोर एवं हुकमचन्द्र जैन किराना दुकान एवं नाना सेठ की दुकान तक। अम्बेडकर मार्ग — सोसायटी कार्यालय से अमरसिंह चौधरी के मकान तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — कचहरी रोड़</li> <li>दक्षिण में — इन्दौर धार रोड़</li> <li>पूर्व में — पुराबाजार रोड़</li> <li>पश्चिम में — अम्बेडकर वार्ड की सीमा</li> </ol>
13	सम्राट अशोक वार्ड	<p>अम्बेडकर मार्ग, नगर पालिका मार्केट, पुलिस थाना परिसर, सागोर रोड़, आवास कॉलोनी गली नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम्पूर्ण एवं डाबरी रोड़ अम्बेडकर मार्ग — नगर पालिका मार्केट की दुकाने, पुलिस थाना परिसर सम्पूर्ण। सागोर रोड़ — सुलभ काम्लेक्स से राजीव गांधी मार्केट होते हुये हंसराज फोटोग्राफर के मकान तक। आवास कॉलोनी — गली नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम्पूर्ण सागोर रोड़ हनुमान मंदिर से आरा मशीन,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — इन्दौर धार रोड़</li> <li>दक्षिण में — धार दरवाजा डाबरी रोड़</li> <li>पूर्व में — अम्बेडकर वार्ड की सीमा</li> <li>पश्चिम में — सागोर रोड़</li> </ol>

		<p>मारबेसिल स्कूल डाबरी तक।  <b>धार दरवाजा डाबरी रोड़</b> — मारबेसिल स्कूल से पूर्व की ओर पीरस्तान दरगार मार्केट तक उत्तर में इन्दौर धार रोड़</p>	
14	महावीर वार्ड	<p>सागोर रोड़, इन्दौर धार रोड़, छात्रावास रोड़, मंत्री कॉलोनी, रजाक कॉलोनी सागोर रोड़ — अब्दुल रहमान चाचा की घाल से उत्तर की ओर रमेश तम्बोली की किराना दुकान। इन्दौर धार रोड़ — बगदीराम की मिठाई दुकान से पश्चिम की ओर देवीसिंह राय का मकान, छात्रावास रोड़ दोनों लाईन, मंत्री कॉलोनी सम्पूर्ण, रजाक कॉलोनी आधी— अब्दुल रहमान सांखू जी के मकान से पश्चिम की ओर बेटमा पब्लिक स्कूल तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — इन्दौर धार रोड़</li> <li>दक्षिण में — रजाक कॉलोनी शांति नगर</li> <li>पूर्व में — सागोर रोड़</li> <li>पश्चिम में — महंत महाराज का खेत</li> </ol>
15	अन्नपूर्णा रोड़	<p>रजाक कॉलोनी, शांति नगर, ग्रीड रोड़ की दोनों लाईन और सागोर रोड़  <b>रजाक कॉलोनी</b> — मुकेश रामचन्द्र वर्मा के मकान से इब्राहिम कुंजडे के मकान एवं प्रमाद खाण्डे के मकान से पूर्वी लाईन पाकिजा किराना दुकान तक।  <b>सागोरा रोड़</b> — पाकिजा किराना दुकान से दक्षिण लाईन धीसालाल सोलंकी मास्टर के मकान तक।  <b>ग्रीड रोड़</b> — बुन्दू चाचा की गुमटी से विद्युत ग्रीड तक। विद्युत ग्रीड से उत्तर की ओर मुकेश रामचन्द्र वर्मा के मकान तक एवं शांति नगर सम्पूर्ण।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर में — वार्ड कं. 14 की सीमा</li> <li>दक्षिण में — सॉई बाग कॉलोनी (बद्रीपुरा पंचायत सीमा)</li> <li>पूर्व में — सागोर रोड़</li> <li>पश्चिम में — महंत महाराज का खेत</li> </ol>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आकाश त्रिपाठी**, कलेक्टर,

Betma, Dated 06.05. 2014

No. 61 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intention to include the following description of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Betma as shown below:-

**Schedule**

Ward No.	Name of the ward
(1)	(2)
01	Jawahar Ward
02	Mahatma Gandhi Ward
03	Subhash Ward
04	Shastri Ward
05	Ambekar Ward
06	Devi Ahilya Ward
07	Indira Ward
08	Dr. Jakir Hussain Ward
09	Azad Ward
10	Valmiki Ward
11	Shivaji Ward
12	Rana Pratap Ward
13	Samrat Ashok Ward
14	Mahavir Ward
15	Anaapurna Ward

**Four Dimensional Extents of wards are as follows**

<b>Ward no.</b>	<b>Name of Ward</b>	<b>Description of Ward, Arla No. Street etc.</b>	<b>Description of Boundary</b>
01	Jawahar Ward	<p>Dhar Road, Haji Colony, Mantri Nagar, Depalpur Road, Prakash Nagar, Raj Palace Garden</p> <p><b>Dhar Road</b> – From Veterinary Hospital to Ali Haji Colony, Ali Mantri Nagar, From Nane Seth's Ware House to Tappa Office, Via Forest Quarter to Dhar Road, From Babu Mail's House to Rameshchandra Fulchandra's Gargage.</p> <p><b>Depalpur Road</b> – From Makwana Hotel to Madanlal Gorishankar Jain's House, Dr. Sulakhya &amp; other's House. New Bus Stand – From Ibrahim Chakkiala's Shop to North side and Raj Place.</p>	1. North – Depalpur Road, Pliya Khal 2. South – Indore Dhar Road 3. East – Depalpur Road 4. West – Govt. Veterinary Hospital
02	Mahatma Gandhi Ward	<p>Depalpur Road, Gurukripa Colony, Bheel Mohalla, Kalam Colony, Indore Dhar Road, Bus Stand, Gadi Adda, Harakchandra Colony, Sanawad Road</p> <p><b>Depalpur Road</b> – From Shamshan Ghat to Gurukripa Colony Gate and Ali Gurukripa Colony, Both side of Bheel Mohalla Colony, Kalam Colony All. Depalpur Road Khatriji Book Store to Vitthal Seth Bore well Shop.</p> <p><b>Bus Stand</b> – From Madanlal Jain House to Santosh Jaiswal House.</p> <p><b>Gadi Adda</b> – Chhote Khan Lohar House to Vasudev Rathore House, Meethi Bawdi Harachandra Colony, Vaishnav Mangalik Bhawan, Biyani Garden, Kesarsingh Gari House to Amru Mali House, Devi Singh Gari House to Satish Agrawal House &amp; Suwalal Seth Namkeen Factory, Tejaji Mandir to Deepak Agrawal House, Deepak Agarwal shop to Rajchandraji Jaiwal House, Jaiswal House to Amru Mali House, Bheru Choudhary House to Ravish Pathak House to Shyamubai Jat House.</p>	1. North – Peliya Khal 2. South – Indore Dhar Road 3. East – Sanawad Road 4. West – Depalpur Road
03	Subhash Ward	<p>Sanawad Road, Wagh Colony, Shikshak Nagar, Indore Dhar Road, Higher Secondary School Parisar, Yashwant Bagh, Indore Naka Upadhyay Colony, Kalasura Road</p> <p>Sanawad Road – Ranchhod Seth Well to Ramprasad Chouhan House, Chouhan House to Mahesh Choudhary House, Ghanishyam Choudhary house to Rameshwar Kushwah House all Shikshak Nagar, Yashwanant Bagh, Sanawad Road, Sanjay Wagh House to Suvalal Jain Hotel house. Indore Road Hermraj General Store to Higher Secondary School Compound, Ratanlai Namkeen Shop to Ramkishan Bagri House, yashwant Bagh to Via Manish Modi house to Behind Indore Naka's both line Satpal Dhaba to Kalasura Road.</p>	1. North – Khetdiya Road 2. South – Indore Dhar Road 3. East – Kalasura Road 4. West – Sanawad Road
04	Shastri Ward	<p>Indore Dhar Road, Narmada Nagar, Nanji Choudhary Gali, Bheel Bakhal, Gawli Mohalla, Katkatpura and Valmiki Mohalla</p> <p>Indore Road Lala Darbar well to Petrol Pump, Gurudwara Langar Bhawan, Gurudwara's shops to Electric Office, Narmada Nagar All, Indore Road Shyam Khandelwal House to Behind Choudhary Hospital to Behind Choudhary Hospital, Bheel Mohalla and Nanji Colony All, Choudhary Hospital to Shabbir Jagirdar Market, Gawli Mohalla Aruna Upadhyay House to Bheem Pahalwan House, Katkatpura Akram Shah House to Via Rahuf Sahab House, Valmiki Mohalla Vijay Khatri House to via Suresh Khatri house Mohan lineman house, Mohan lineman house to Ratanlal Khatri house, Katatpura Kudrat Shah house to Mansur Tailor and Wahab Pahalwan Girwar Kachhi House, Munnawar Baig House to Wahab Pahalwan Driver and Fouji House.</p>	1. North – Indore Dhar Road 2. South – Katktpura Road 3. East – Lala Darbar Well 4. West – Gawali Bakhal Road

05	Dr. Ambedkar Ward	Kachhi Mohalla All Street No. 1 and 2, Meerda Bakhal, Sankalya Bheru, Kachari Compound, Gawali Bakhal Road Amar Singh Gangaram Kachhi house to Heerasingh Chalsingh house, Kallash Partani house to Anil Guru house, Sankalya Bheru Road – Anil Guru house to Narmadabal Pusaji Mali House, Gawali Bakhal Road – Bhagirath Devram Vyas house to North Side Line Nyaz Mohammad Pinjare House, Kachhi Mohalla. Ramchandra Kachhi House, Sangeeta Mali House, Balkishan Kachhi House, Poonamchandra Kachhi House and Ramesh Verma Master House, Vla Kanhalal Kalu House Shabbir Jagirdar House to Gangaram Master Sahab House, Gangaram Master House to via Kachhi Panchayati to Kachari Chowk, Meerda Bakhal, all Kachari Ghati Lambardar House and to Bhagirath Devram Vyas House, Kachhi Panchayati to both line of West Side, Anna Sahab House to Babu Pahalwan House.	1. North – Katkatpura 2. South – Gurudwara Road 3. East – Narmada Nagar 4. West – Gawli Bakhal Road
06	Devi Ahilya Ward	Gurudwara Road, Gurudawar Bawdi, Rawla, Gadhi Mohalla, Lakheda Bakhal, Aalya Bakhal, Galgoya, Hanuman Darwaja Gurudwara Road, Kunwar Singh Chalsingh House to via Gurudwara old Langar Govind Singh House, Gurudwara Bawdi to Abhinandan School to Nath Maharaj House, Dholi chowk all, Rawla All, Gadhi Mohalla All, Lakheda Bakhai Eastern Line to Hanuman Darwaja, Aalya Mohalla All and Galgoya.	1. North – Line of Ward No. 5 and Naramada Nagar 2. South – Highway Road 3. East – Gurudwara Bawdi 4. West – Lakheda Bakhal Road
07	Indira Gandhi Road	Kumhar Mohalla, Lakheda Bakhal, Jain Temple and Jain Dharmshala, Annapurna Chowki Bazar, Sankalya Bheru Road, Tamboli Mohalla, Kumhar Bakhal Kumhar Mohalla Ramesh Gulab Bharti house to North Side Lakheda Bakhal's Western Line Jain Temple, Jan Dharmshala Shankar Dada house to Singh Sahab House, Kachari Ghati – Narmada Pusaji Mali House to via south side Anil Guru House hiralal Maharaj House to Annapurna Temple, Mohan Tamboli house to Jain Dharmshala Jain Temple to via Vardhaman Seth house Tamboli Mohalla and Kumhar Bakhal, Jagdish Bharti house	1. North – Kachari Road 2. South – Highway Road 3. East – Lahera Bakhal Road 4. West – Tamboli Mohalla Road
08	Dr. Jakir Hussain Ward	Kumhar Mohalla, Tamboli Mohalla, Dhar Darwaja, Malviya Mohalla, Juni Bohra Bakhal Kumhar Mohalla – Jhopdiwale Human Temple to Northern side Gulchandra Aalya house to Tolaram Kalota and Birampuri House, Tamboli Mohalla Kunjde house to Paras Jain House, Dhar Dawaja Paras Jain house to Pramanand Balkrishna Brahman house, Malviya Mohalla – Mantri Ji's all Chawl, Juni Bohra Bakhal's both lines, Malviya Mohalla, Dwarka Sharda's Kotha to Amarsingh gudwala house.	1. North – Dhar Darwaja Road. 2. South – Highway Road. 3. East – Tamboli Mohalla Road. 4. West – Malviya Mohalla Road.
09	Azad Ward	Malviya Mohalla, Khari Bawdi, Imambada, Dhar Darwaja, Choudhary Colony, Sagore Road Malviya Mohalla – Ramsingh Kishan Harijan House to Malviya Mohalla's west Lane Naushad Band wala house, Khari Bawdi Imambada, Dhar Darwaja, Sagore Road Choudhary Colony all.	1. North – Dhar Darwaja Road 2. South – Highway Road. 3. East – Malviya Mohalla Road. 4. West – Sagore Road.
10	Valmiki Ward	Dhar Darwaja, Sankalya Bheru Road, Gawli Bakhal Road, Rajwada Chowk, Pura Bazar, Bohra Bakai, Masjid, Kachari Road and Meerkhan Mohalla Dhar Darwaja – Vitthal Seth House to Pushpak Modi house, Sankalya Bheru Road – Pushpak Modi House to Gopal Darbar house, Kachari Road – Gopal Darbar house to Chhaganlal Ramratan Darzi house, Masjid to Gawli Bakhal Taher Bohre house to Ranchhod choudhary house, Ranchhod choudhary house to Parasram choudhary House, Devilal Soni House to Inder yadav House, Inder Yadav House to via Daya Nai House to Ram Sahav House, Mohan Sodani house to southern side Pura Bazar Line, Bohra Bakhal, Bohra Bakhal all and to Masjid, Via Meerkhan Mohalla Ramratan Darzi house to Lal Imli Gali, Jajuji ka noora, Sattar Chacha house to Southern side Vitthal Seth house.	1. North – Indore Dhar Road 2. South – Dhar Darwaja 3. East – Sankalya Bheru Road 4. West – Meerkhan Mohalla

11	Shivaji Ward	Dhar Darwaja, Meerkhan Mohalla, Khatik Mohalla, Kachari Road, Ambedkar Mohalla <b>Dhar Darwaja</b> – Kallash Atmaram Nal house to Western side Munna Dildar Shah Fakir House, Khatik Mohalla – Jagannath Bargunde house to Northern Ambedkar Mohalla's Western line Tolaram Choudhary House, Ambedkar Mohalla Eastern Line – Via Gogadev Temple, Subhash Mehta house to Madan Pahalwan house to Kallu Patang wala house, Chunnilba Hukma house to Khatik mohallas corner, Via Merkhan Mohalla to Western Line Ibrahim Akram Khan house to Northern line Mansoor Khan Munshi Ji house, kachari Road Badri Sutar House to Western line Govt. School.	1. North – Kachari Road. 2. South – Dhar Darwaja Road. 3. East – Merkhan Mohalla Road. 4. West – Awas Colony.
12	Rana Pratap Ward	Kachari Road, Nagar Palika Parisar, Shriram Mandir Gali, Pura Bazar, Society Road, Indore Dhar Road, Ambedkar Marg <b>Kachari Road</b> – From the Eastern Side of City Council Office via Shri Ram Temple to Dr. Jain house, pura Bazar – Dr. Jain House to via Jagdish Seth house via Radheshyam Jakhetiya house to Northern line Raju Jain House, Society Road – Raju Jain house to Society office and Daya Shankar Sharma house to via East side Public Water Drinking place, pura Bazar Public Water Drinking Place to Suwalal Seth house, Indore Dhar Road – Suwalal Seth house to mangalam Medical Store and Hukumchandra Jain General Store and Nana Seth Shop, <b>Ambedkar Marg</b> – Society Office to Amarsingh Choudhary House.	1. North – Kachari Road 2. South – Indore Dhar Road 3. East – Pura Bazar 4. West – Line of Ambedkar Ward
13	Samrat Ashok Ward	Ambedkar Marg, Nagar Palika Market, Police Thana Compound, Sagore Road, Awas Colony, Galli No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and all Dabri Road <b>Ambedkar Marg</b> – Nagar Palika Market Shop, Police Station Parisar All, Sagore Road – Sulabh Complex to via Rajeev Gandhi Market Hansraj Photographer house, Awas Colony – Galli No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 all, Sagore Roat Hanuman Temple to Ara Machine, Marbesil School Dabri. Dhar Darwaja Dabri Road – Marbesil School to East side Peerstan Dargah Market, Indore Dhar Road in North.	1. North – Indore Dhar Road. 2. South – Dhar Darwaja Dabri Road. 3. East – Line of Ambedkar Ward. 4. West – Sagore Road.
14	Mahavir Ward	Sagore Road, Indore Dhar Road, Chaatrawas Road, Mantri Colony, Rajjaz Colony <b>Sagore Road</b> – Abdul Rahman Chacha Chawl to North side Ramesh Tamboli General Store, Indore Dhar Road – Bagdiram Sweet Shop to west side Devi Singh Rai House, Hostel Road both lines, Mantri Colony All, Rajjaz Colony half, Abdul Rahman Sandu ji house to west side Betma School.	1. North – Indore Dhar Road. 2. South – Rajjaz Colony Shanti Nagar. 3. East – Sagore Road. 4. West – Mahant Maharaj Field.
15	Annapurna Ward	Rajjaz Colony, Shanti Nagar, Grid Road Both Sides, and Sagore Road <b>Rajjaz Colony</b> – From Mukesh Ramchandra Verma house to Ibrahim Kunjda house and Pramod Khande House to Eastern Line, Pakija Kirana Store, Sagore Road – Pakija General Store to Southern Line Gheesalal Solanki master House. <b>Grid Road</b> – Bundu Chacha Gupti to Electric Grid, Electric Grid to Northern side Mukesh Ramchandra Verma house and Shanti Nagar all.	1. North – Line of Ward No. 14 2. South – Sai Bagh Colony (Line of Badipura Panchayat) 3. East – Sagore Road 4. West – Mahant Maharaj Field.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

## गौतमपुरा, दिनांक 06.05. 2014

क. 62 –लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् गौतमपुरा के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है: —

वार्ड क्रमांक	वार्ड के नाम
1.	मौलाना आजाद वार्ड
2.	जवाहर वार्ड
3.	शहीद भगतसिंह वार्ड
4.	रानी दूर्गावती वार्ड
5.	इंदिरा वार्ड
6.	महात्मा गांधी वार्ड
7.	पंडित दीनदयाल वार्ड
8.	डा. जाकिर हुसैन वार्ड
9.	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
10.	सुभाष वार्ड
11.	शास्त्री वार्ड
12.	डा. अंबेडकर वार्ड
13.	राजीव वार्ड
14.	रैदास वार्ड
15.	वाल्मीकी वार्ड

## वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड में आने वाले मोहल्ले, गलियाँ एवं मकानों का विवरण	चतुर्सीमा
1	2	3	4
01	मौलाना आजाद वार्ड	<p>बाड़ी, मस्जिद रोड, सरकारी कुआं रोड, खरसोडा शासकीय स्कूल से मोहन मेवाड़ा के मकान होते हुवे, गोपाल माली के मकान से जगदीश महाराज के मकान से खरसोडा रोड के दक्षिण दिशा विजयकुमार झांझरी के गोडाउन से हा. से. स्कूल होते हुवे मांगीलाल माली के मकान से पन्नालाल झाईवर के मकान की उत्तर दिशा होते हुवे सोनीजी के बगीचे के पीछे आजाद शर्मा के मकान से होते हुवे संपतबाई कचरा के मकान से अरुण योगी के मकान होते हुवे सरकारी स्कूल खरसोडा रोड तक।</p>	<p>1. पूर्व में : सरकारी ट्युबवेल चंबल रोड (वार्ड क्रमांक 02 की सीमा)</p> <p>2. पश्चिम में : मस्जिद के पास नजूल की भूमि</p> <p>3. उत्तर में : प्रायमरी स्कूल नयापुरा एवं खरसोडा रोड</p> <p>4. दक्षिण में : हायर सेकेन्डरी स्कूल (वार्ड क्रमांक 03 की सीमा)</p>
02	जवाहर वार्ड	<p>गल महादेव रोड, चंबल रोड, सुदामा नगर, इंदौर रोड</p> <p>इंदौर रोड सरकारी ट्युबवेल से कालुराम पाटीदार का नया मकान संपूर्ण सुदामा नगर रमेश भट्टी के मकान के पीछे पश्चिम दिशा से होते हुवे नारायण पाटीदार के मकान के आगे पश्चिम दिशा की ओर होते हुवे स्व. रमेश कन्फर्टर के मकान होते हुवे संतोष पांचाल मकान से रूपसिंह दरबार के मकान से लक्ष्मीनारायण मामाजी के मकान से पाटीदार कांपलेक्स, सालीग्राम चौहान के मकान सामने पश्चिम की ओर सत्यनारायण काका के मकान से रमेश चट्टान के मकान से होते हुवे नाला तुलसीराम का मकान से चंदु सेठ का गेरेज से अशोक राठी के मकान होते हुवे नगर परिषद की दुकानों से बजंगबाली का मंदिर से खारोल मोहल्ला से टप्पा तहसील से ट्युबवेल तक।</p>	<p>1. पूर्व में : गल महादेव रोड कबीट डोज (वार्ड 15 नंबर की सीमा)</p> <p>2. पश्चिम में : शा.उ.मा.वि. व इंदिरा प्रतिमा इंदौर रोड (वार्ड क्रमांक 03 की सीमा)</p> <p>3. उत्तर में : तलावली ग्राम का कच्चा रास्ता सरकारी ट्युबवेल (वार्ड क्रमांक 01 की सीमा)</p> <p>4. दक्षिण में : मुक्ति धाम नाला (वार्ड क्रमांक 11 की सीमा)</p>
03	शहीद भगतसिंह वार्ड	<p>थाना रोड, चंबल रोड, माली मोहल्ला, उकाला रोड, नया बस स्टेप्प, पुराना बस स्टेप्प</p> <p>टीकमचन्द्र के मकान से राजेश शर्मा की दूकान के अंदर कुआं बाड़ी तक विमल झांझरी के मकान से प्रवीण हरन्या के मकान के सामने दक्षिण दिशा में राधेश्याम पांचाल के मकान से अशोक राठी के मकान के पीछे होते हुवे नाले पार कन्हैयालाल पटेल के मकान से मुंशी खाँ के मकान से सागर राठौड़ के मकान से राधेश्याम माली के मकान के माली मंदिर से मांगुदास बैरागी के मकान से बैंक आफ इंडिया से जयशिंव की दुकान से साई मंदिर, माताजी मंदिर राजेश महंत के मकान से नाथ का मकान, भागीरथ पाल के मकान होते हुवे टीकमचन्द्र के मकान तक।</p>	<p>1. पूर्व में : इंदौर रोड हा.से. स्कूल (वार्ड क्रमांक 02 की सीमा)</p> <p>2. पश्चिम में : साई मंदिर, माताजी मंदिर, उकाला (वार्ड क्रमांक 04 की सीमा)</p> <p>3. उत्तर में : हा. से. स्कूल, चंबल रोड थाना रोड, (वार्ड क्रमांक 02 की सीमा)</p> <p>4. दक्षिण में : तकिया रोड, कब्रिस्तान (वार्ड क्रमांक 07 की सीमा)</p>

04	रानी दूर्गायती वार्ड	<p>सदर बाजार, उकाला रोड, पंचायत रोड, कुमार मोहल्ला, नयी आबादी</p> <p>अर्जुन पंडित की बाड़ी होते हुवे कैसरीमल प्रजापत के मकान से भंवरसिंह पहलवान नाथ का श्मशान भावसार मंदिर से शैराबाई के मकान के सामने रामकिशन टेलर के मकान से सुधाकर शर्मा के घर पश्चिम दिशा सोहन मारू के मकान से महेश मारू की बाड़ी, रतन बादशाह के मकान से जगदीश निषाद के मकान के पीछे होते हुवे बाबुलाल के मकान से ईश्वर नाई के मकान से मनोज करडवाल के मकान से अर्जुन पंडित की बाड़ी तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : बंशीवाला मंदिर (वार्ड कमांक 07 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : हनुमान मंदिर</li> <li>उत्तर में : साई मंदिर, चौधरी की बाड़ी (वार्ड कमांक 03 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : जवाहर मार्ग पुराना टाकीज (वार्ड कमांक 06 की सीमा)</li> </ol>
05	इंदिरा वार्ड	<p>सदर बाजार, जवाहर मार्ग, नोंगावा रोड, साल्वी मो., गुर्जर मोहल्ला</p> <p>देवरा टेकरी से रामा पहलवान के मकान से स्कूल का दक्षिण कोने से करणसिंह के मकान से मनोज नाथ के मकान से भारत देवडा के मकान से बसंत गुर्जर के मकान के सामने बाबुलाल प्रजापत के मकान से विनोद गुर्जर के मकान होते हुवे पीछे की गली कंवरलाल जैन के मकान से प्रमोद सक्सेना के मकान के सामने हजारी धर्मशाला से बंशीवाला मंदिर के सामने शांतु नामदेव की दूकान से ताहेर बोहरा के मकान से गोविन्द प्रजापत के मकान से भोई के मकान होते हुवे हिंगोट स्टेडियम के पीछे, टेकरे पर निवासरत बस्ती के मकानों से मायाराम भोई के मकान होते हुवे, नोंगावा रोड का उत्तरी हिस्से से नगर परिषद् तालाब होते हुवे हनुमान मंदिर तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : गणपति मंदिर, महेश मारू की दुकान (वार्ड कमांक 04 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : देवरा टेकरी</li> <li>उत्तर में : छोटा स्कूल, हिंगलाज मंदिर (वार्ड कमांक 04 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : जैन धर्मशाला (वार्ड कमांक 06 की सीमा)</li> </ol>
06	महात्मा गांधी वार्ड	<p>सदर बाजार, रलायता रोड, नोंगावा रोड, कब्रिस्तान, बोहरा मस्जिद भोई मोहल्ला, देवरा टेकरी</p> <p>बाबुलाल गुर्जर के कुरे से विनोद गुर्जर के बाडे देवीलाल चौधरी के मकान से हुकमचन्द्र जैन की दूकान से राठीजी का मकान से ईश्वर सारंगे के मकान से छुट्टु चाचा के मकान डाबरीपुरा से बछोडा रोड जगदीश महाराज के मकान से सदाशिव महाराज के मकान से गोवर्धन भोई के मकान से गौतम सरोवर होते हुवे लीलाधर भांभी से समस्त देवरा टेकरी के नोंगावा रोड के दशिण दिशा पर स्थित मकानों से रणछोड कुमार के मकान से बाबुलाल गुर्जर के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : सदर बाजार दरगाह (वार्ड कमांक 07 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : गौतम सरोवर बछोडा रोड</li> <li>उत्तर में : देवरा नोंगावा रोड (वार्ड 04 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : बछोडा रोड, सदाशिव का मकान (वार्ड 09 की सीमा)</li> </ol>

07	पंडित दीनदयाल वार्ड	<p>महात्मा गांधी मार्ग, चारभूजा गली, रंगरा मोहल्ला, सदर बाजार</p> <p>जुगल सेठ के मेडीकल से सुरेश विजयवर्गीय के मकान से मुकेश मालपानी के मकान के सामने शिवनदास जोधानी के मकान से कमलाबाई ठाकुर के मकान से कंवरलाल नामदेव के मकान से चारभूजा गली से गणेश वृहताकार सोसायटी से नुरजहांबी के मकान से सुंदरलाल नामदेव के मकान से डा. रवि के मकान के सामने विजय शर्मा के मकान से शंकर सोनी के मकान से रविन्द्र मंडोवरा की दूकान से जुगल सेठ के मेडीकल तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : पिजारा मोहल्ला (वार्ड क्रमांक 12 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : दिगंबर जैन मंदिर (वार्ड क्र. 06 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : राघव मंदिर (वार्ड क्र. 05 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : सरस्वती शिशु मंदिर रंगरा मोहल्ला (वार्ड क्र. 08 की सीमा)</li> </ol>
08	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड	<p>बाग मोहल्ला चौराहा, गुरुनानक मार्ग, नई आबादी रोड, धोबी मो.</p> <p>गणपति मंदिर से डा. पवन जैन के मकान से मस्जिद होते हुवे प्रकाश डाईवर के मकान से अकबर के मकान से सलीम के मकान से वापस प्रदीप गौसर के मकान से कैलाश गौसर के मकान से भूरी भांभी के मकान से उर्दू स्कूल के पीछे से मोतीलाल धोबी के मकान से पेंटर के नये मकान के सामने जीतु वर्मा के मकान से पानी की टंकी से उत्तर की ओर से जयराम चौधरी के मकान से याकूब का मकान से गिरीश सिंधी के मकान हरिराम टेलर की होटल से भोलाराम सारंगे के मकान से डा. पवन जैन के मकान से गणपति मंदिर तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : दरगाह सिंधी मोहल्ला, उर्दु स्कूल (वार्ड क्र. 12 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : नाला डाबरीपुरा (वार्ड क्र. 06, 09 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : गणपति मंदिर (वार्ड क्र. 07 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : धोबी मोहल्ला, उर्दु स्कूल, जमील का गोडाउन (वार्ड क्रमांक 10 की सीमा)</li> </ol>
09	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	<p>बछोडा रोड, डाबरीपुरा, बाग मोहल्ला, 96 भवन, रलायता रोड</p> <p>फिल्टर प्लांट से रशीद पेंटर के मकान से मौर्य सा. के मकान से बगदीराम राठौर के मकान से जमनालाल के मकान से कन्हैया पहलवान के मकान से कल्लु खाँ बन्ते पहलवान की दुकान से खत्री पंच की दुकान से दरगाह से अनवर खाँ के मकान से अय्युब के मकान से राठीजी के गोडाउन से मजीद लकड़ी वाले से रफ़फ़न खा से मकान तक देवा चौधरी के मकान से नंदू मिस्त्री से रतन बादशाह के मकान से बछोडा रोड के सभी मकानों से 96 भवन तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : कन्याशाला (वार्ड क्र. 10 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : ईदगाह (वार्ड क्र. 06 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : संपवेल फिल्टर प्लांट (वार्ड क्र. 06 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : नाला (वार्ड क. 10 की सीमा)</li> </ol>
10	सुभोष वार्ड	<p>बाग, मोहल्ला, काढीमोहल्ला, धोबी मोहल्ला, शक्ति मंदिर रोड</p> <p>जमील के गोडाउन से महेश प्रजापत के मकान से गौपाल करवरिया के मकान से रतनलाल जी की दुकान से पीछे जसरथ वर्मा विजय बोना डाक्टर के मकान से कन्याशाला छगन गौसर का मकान से विशाल जी राठी का मकान से छात्रावास के पीछे से चौधरी का मकान से होते हुए रामचन्द्र जी का मकान से नाला होते हुवे से जगदीश हम्माल का मकान से मन्जु का मकान से</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : शक्ति मंदिर (वार्ड क्र. 11 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : नाला (वार्ड क्र. 09 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : दरगाह खत्री पंच की जगह (वार्ड क्र. 08 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : नाला (वार्ड क्र. 11 की सीमा)</li> </ol>

		रामलाल कुम्हार का मकान से प्रेमचन्द जी का मकान से सुनिल जोशी का मकान से जलील मासु के मकान के पूर्व दिशा के सामने टंकी तक ।	
11	शास्त्री वार्ड	<p>काढ़ी मोहल्ला , धोबी मोहल्ला , शक्ति मंदिर रोड , इंदौर रोड,</p> <p>धोबी मोहल्ला जमनालाल धोबी के मकान से पठान की चक्की से वर्मा जी डाक्टर का मकान से बायुलाल सेठ का मकान से मुवितधाम रोड मण्डी होते हुए कैलाश कैलवा का मकान से गो शाला से मोर्य वेयर हाउस से जगदीश जी मुनीम का मकान से पशु चिकित्सालय से शक्ति मंदिर के आगे होते हुए मोहन जायसवाल का मकान से काढ़ी मोहल्ला में बलसारा का मकान से धोबी समाज धर्मशाला के सामने पूर्व दिशा में जमनालाल जी का मकान तक ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : कृषि मंडी (वार्ड क्रमांक 13 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : जायसवाल जी का बंगला (वार्ड क्र. 10 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : उर्दु स्कूल (वार्ड क्र. 08 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : हरिजन मोहल्ला (वार्ड क्र. 12 की सीमा)</li> </ol>
12	डॉ. अंबेडकर वार्ड	नई आबादी , पिंजारा मोहल्ला , चमार मोहल्ला यशपाल सोनी के मकान से सरदार बरगुंडा का मकान से हरिजन मोहल्ला होते हुए प्यारचंद खिची के मकान से जगदीश गौसर के मकान से जितु के मकान से मनोज शास्त्री की दुकान के सामने नुर मो लाईनमेन का मकान से हैण्डपंप से प्रकाश गौसर के मकान से रमेश गौसर का मकान से कल्यु पहलवान का मकान के सामने पश्चिम दिशा में छोटी मस्जिद से पिंजारा मोहल्ला से मोलाना तस्वीर वाले के सामने यशपाल सोनी के मकान तक ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : तकीया (वार्ड क्रमांक 02 व 03 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : छोटी मस्जिद (वार्ड क्र. 07 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : कब्रिस्तान (वार्ड क्र. 03 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : मंदिर की खुली भुमि (वार्ड क्र. 11 की सीमा)</li> </ol>
13	राजीव वार्ड	धर्माट रोड , नीम चौक , पिंजारा मोहल्ला , घाटी नीचे , नाई सेरी बलाई सेरी, हरिजन मोहल्ला रुणजी चौपटी अशोक सोलंकी के मकान से रमेश दुबे के मकान से पटेल प्रतिमा से घनश्याम योगी का मकान से नाई सेरी होते हुए देवरा बद्रीलाल का मकान बालु हरिजन के मकान से सत्यनारायण भूत के मकान से दरियावसिंह के मकान से सोमा बा के मकान से चंपालाल पंवार के नये मकान से रामचन्द्र के मकान से कैलाश बाबूजी के कोठा से मानकर सेरी से रायसिंह मानकर का मकान से छतरसिंह पटेल के कारखाना से कल्याण की दुकान से अशोक सोलंकी के मकान तक ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : नाला (वार्ड क्र. 14 की सीमा )</li> <li>पश्चिम में : पटेल प्रतिमा इंदौर रोड (वार्ड क. 02 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : धर्माट रोड दरगाह (वार्ड क्र. 15 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : नाला (वार्ड क 11 की सीमा)</li> </ol>
14	रैदास वार्ड	धर्माट रोड , गल महादेव की पीछे वाली गली , भील मोहल्ला, नाथ मोहल्ला , बामण सेरी, अजबसिंह का मकान से मारसाब का मकान से गल महादेव के थानक से स्कूल होते हुए सामने नीम के पेड से सुदर काकाजी का मकान से भरत बाबूजी के बाड़ा से बालाराम बा का मकान से सिद्धनाथ घाटी के मकान से घिसी भुआजी का मकान से कैलाश बाबूजी का निवास से शिवनारायण गांधी के मकान से प्रहलाद भांझी	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : धर्माट रोड पानी का ठेल (वार्ड क 15 की सीमा)</li> <li>पश्चिम में : दरगाह (वार्ड क 13 की सीमा)</li> <li>उत्तर में : गल महादेव रोड (वार्ड क्र. 02 व 15 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : बशीवाला मंदिर (वार्ड क्र. 13 की सीमा)</li> </ol>

		का मकान से बंशीवाला मंदिर से रंजित हरन्धा के मकान से माताजी के मंदिर से परमानंद जी के मकान से बंशीलाल पाटीदार का मकान से मोहन योगी का मकान से रटेच्यु के सामने कृष्णलाल पाटीदार का मकान से प्रहलाद पाटीदार का मकान से कंचनलाल का मकान से प्रेम बैरागी के मकान के पीछे होते हुए अजबसिंह का मकान के पीछे तक।	
15	वाल्मिकी वार्ड	<p>गल महादेव रोड , कबीट डोज , हरिजन मोहल्ले नवीन आबादी , पाटीदार नगर , धर्माट रोड</p> <p>मामाजी वेल्डिंग की दूकान के पीछे कबीट डोज से हुकमचन्द्र पाटीदार से नारायण पाटीदार के मकान से रमेश भट्टी पाटीदार के मकान से धन्नालाल चौधरी का मकान से पानी की टंकी होते हुए गोदावरी बाई का मकान से रामदेवरा से कैलाश चौधरी के मकान से कैलाश भील गल महादेव मेला ग्राउंड से सामने अजोध्याबाई के मकान से पीछे टावर से दरगाह होते हुवे गजू मिस्त्री का मकान से राजा की होटल से पाटीदार कामप्लेक्स के पीछे से भरत सौलंकी के मकान से मामाजी वेल्डिंग के पीछे तक ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में : पानी की टंकी नजूल की भूमि</li> <li>पश्चिम में : इंदिरा प्रतिमा पटेल प्रतिमा (वार्ड क 02 की भूमि)</li> <li>उत्तर में : गल महादेव रोड (वार्ड क्रं. 02 की सीमा)</li> <li>दक्षिण में : दरगाह धर्माट रोड (वार्ड क्रं. 14 की सीमा)</li> </ol>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

Gautampura, Dated 06.05. 2014

No. 62 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intention to include the following description of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Gautampura as shown below:—

Ward no.	Name of Ward
01-	Molana azad ward
02-	Jawahar ward
03-	Sahid Bhagatsingh ward
04-	Rani durgawati ward
05-	Indira Ward
06-	Mahatma Gandhi Ward
07-	Pandit dindayal Ward
08-	Dr. jakir husain Ward
09-	Swami Vivekanand Ward
10-	Subhash Ward
11-	Shashtri Ward
12-	Dr. Ambedkar Ward
13-	Rajeev ward
14-	Raidas Ward
15-	Walmiki Ward

## Four Dimensional Extents of wards are as follows

Ward No.	Name of Ward	Lanes, Houses & Mohalla's including in the Ward	Boundries of Ward
01	Molana azad ward	Badi , Masjid road , Government well Road, Kharsoda Road Government school to Mohan Mewada's House to Gopal Mall's house to Jagdish Maharaj's house to The Side of South Vijaykumar Jhanjhari's Godown to H.S. School via Mangilal Mali 's house to Pannalal Drive house North Sonji's Garden Back of Azad sharma's house via Sampatbai Kachru's house to Arun yogi's house via Government School to kharsoda Road.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East -</b> Government well Road, Chambal Road (Ward no. 02 side)</li> <li>2. <b>West –</b> Masjid Near Land of Nazul</li> <li>3. <b>North -</b> Primary School Nayapura and Kharsodha Road</li> <li>4. <b>South –</b> H.S. School (Ward no. 03 side)</li> </ol>
02	Jawahar ward	Gal Mahadev Road, Chambal Road, Sudama Nagar, Indore Road Indore Road Government Tube well to Kaluram Patidar's New house to all Sudama nagar to Ramesh Bhatti's house	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East -</b> Gal mahadev Road, Kabit Doj (Ward no. 15 side)</li> <li>2. <b>West –</b> Govt. School and Indira Statue Indore Road (ward.no. 03 side)</li> <li>3. <b>North- Talavli Gram kachcha Road Government Tubewell (Ward no. 01 side)</b></li> <li>4. <b>South –</b> Mukti Dham Nala of (Ward no. 11 side)</li> </ol>
03	Sahid Bhagat singh ward	Thana Road, Chambal Road, Mali Mohalla, Ukala Road, New Bus Stand, Old Bus Stand. Tikamchandra's house to Vimal Jhanjhari's house to Radheshyam Panchal's house to Behind Ashok Rathi's house via Nala to Kanhaiyalal Patel's house to Munshi Khan's house to Sagar Rathore's house to Radheshyam Mali's house to Mali Samaj Temple to Mangudas Bairagi's house to Bank of India to Jaishiv's Shop to Sai Temple, Mataji Temple to Rajesh Mahant's house Nath's house to Baghirath Pal's house to Tikamchandra' house.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East -</b> Indore Road, H.S. School (Ward no. 02 side)</li> <li>2. <b>West –</b> Sai Temple, Mataji Tample, Ukala (Ward No. 04 side)</li> <li>3. <b>North -</b> H.S. School, Chambal Road, Thana Road (Ward no. 02 side)</li> <li>4. <b>South- Takia Road, Kabristan (Ward no. 07 side)</b></li> </ol>
04	Rani Durga wati ward	Sadar Bazar, Ukala Road, Parishad Road, Kumal Mohalla, New Abadi. From Arjun Pandit's Badi via Keshrimal Prajapat's house to Bhanwarsingh Pahalwan, Nath Samaj Shamshan to Bhawsar Temple In Front of Ramkishan Tailor's House Sherabai's house In Front Of Sudhakar Sharma's house Sohan Maru' house to Mahesh Maru's Badi to Ratan Badshah' house to Jagdish Nishad's house via Ishwar Nai's house to Manoj Karadwal's house to Arjun Pandit's Badi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East -</b> Banshiwala's Temple (Ward no. 07 side)</li> <li>2. <b>West -</b> Hanuman Temple</li> <li>3. <b>North -</b> Sai Temple, Choudhari,s Badi (Ward no. 03 side)</li> <li>4. <b>South –</b> Jain Dharmshala (Ward no. 06 side)</li> </ol>
05	Indira Ward	Sadar Bazar, Jawahar Marg, Nogawa Road, Salwi Mohalla, Gurjar Mohalla. From Dewra Tekri to Rama Pahalwan's house to The South Corner of The School to Karansingh's house to Manoj Nath' s house to Bharat Dewra's house In front of Basant Gurjar's house to Babulal Prajapat's house to Vinod Gurjar's house via Back Gali Kanwarlal Jain's house In Front of Pramod Saxena's house Hajari Dharmshala to In Front of	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East- Ganpati Temple, Mahesh Maru.s Shop (Ward no. 04 side)</b></li> <li>2. <b>West- Dewra Tekri</b></li> <li>3. <b>North- Chota School, Hinglaj Temple (Ward no. 06 side)</b></li> <li>4. <b>South- Jain Dharmshala (Ward no. 06 side)</b></li> </ol>

		Banshiwala Temple Shantu Namdev's Shop to Tahir Bohra's house to Govind Prajapat's house to Bhoi's house via Behind Hingot Stadium Residents of Tekra to Mayaram Bhoi's house via North Part of Nogawa Road via Nagar Parishad Tank (Talab) to Hanuman Temple.	
06	Mahatma Gandhi Ward	Sadar Bazar, Ralyata Road, Nogawa Road, Kabristan, Bohra Masjid, Bhoi Mohalla. Dewra Tekri From Babul Gurjar's Well to Vinod Gurjar's Bade to Devilal Choudhari's house to Hukumchandra Jain's Shop to Rathiji's house to Ishwar Sarange's house to Chuttu Chacha's house Dabripura to Bachodha Road Jagdish Maharaj's house to Sadashiv Maharaj's house to Goverdhan Bhoi's house to Gotam Sarovar to Leeladhar Bhambhi's house to all Dewra Tekri to West Situated houses Of Nogawa Road to Ranchodh Kumar's house to Babul Gurjar's House.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. East- Sadar Bazar Dargah (Ward no. 07 side)</li> <li>2. West- Gotam Sarowar, Bachodha Road</li> <li>3. North- Dewra, Nogawa Road (Ward no. 04 side)</li> <li>4. South- Bachodha Road, Sadashiv's house (Ward no. 09 side)</li> </ol>
07	Pundit Dindayal Ward	Mahatma Gandhi Marg, Charbujha Gali, Rangara Mohalla, Sadar Bazar From Jugal Seth's Medical to Suresh Vijayvargiya's house to Shivandas Jodhani's house in Front of Mukesh Malpani's house to Kamlabai Thakur's house to Kanwari Lal Namdev's house to Chrbujha Gali to Ganesh Vrithakar Society to Nurjanha's house to Sundarlal Namdev's house to Ganpati Temple In Front of Dr. Ravi's house to Vijay Sharma's house to Shankar Soni's house to Ravindra Mandowara's Shop to Jugal Seth's Medical.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. East- Pinjara Mohalla (Ward no. 12 side)</li> <li>2. West- Digambar Jain Temple (Ward no. 06 side)</li> <li>3. North- Raghav Temple (Ward no. 03 side)</li> <li>4. South- Saraswati Shishu Mandir, Rangara Mohalla.</li> </ol>
08	Dr. Jakir Husain Ward	Bag Mohalla, Gurunanak Marg, New Abadi Road, Dhobi Mohalla. From Ganpati Temple to Dr. Pawan Jain's house to Masjid via Prakash Driver's house to Akbar's house to Salim's house Return to Pradip Gosar's house to Kailash Gosar's house to Bhuri Bhambhi's house to Behind Urdu School Motilal Dhobi's house to In front of Painter's New house to Jeetu Varma's house to Water Tank to Jairam Choudhry's house to Yakub's house to Girish Sindhi's house to Hariram Tailor's hotel to Bholaram Sarange's house to Dr. Pawan Jain to Ganpati Temple.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. East- Dargah Sindhi Mohalla, Urdu School</li> <li>2. West- Nala, Dabripura (Ward no. 06 , 09 side)</li> <li>3. North- Ganpati Temple (Ward no. 07 side)</li> <li>4. South- Dhobi Mohalla, Urdu School, Jamil's Godown (Ward no. 10 side)</li> </ol>
09	Swami Vivekanand Ward	Bachodha Road, Dabripura, Bag Mohalla, 96 Building, Ralyata Road. From Filter Plant to Rashid Painter's house to Morya's house to Bagdiram Rathore's house to Jamnalal's house to Kanhaiya Pahalwan's house to Kallu Khan Bante Pahalwan's Shop to Khatri Panch's Shop to Dargah to Anwar Khan's house to Ayyub's house to Rathiji's Godown to Majid Lakdhiwale to Raffan Khan's house to Dewa Choudhri's house to Nandu Mistri's house to Ratan Badshah's house to Bachodha Road all houses to 96 Building.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. East- Govt. Kanya School (Ward no. 10 side)</li> <li>2. West- Idgah (Ward no. 06 side)</li> <li>3. North- Sumpwell Filter Plant (Ward no. 06 side)</li> <li>4. South- Nala (Ward no. 10 side)</li> </ol>

10	Subhash Ward	<p>Bag Mohalla, Kachi Mohalla, Dhobi Mohalla, Shakti Mandir Road.</p> <p>From Jamil's Godown to Mahesh Prajapat's house to Gopal Karwaria' house Behind Ratanlal' shop Jasrath Varma to Vijay Bona Doctor' house to Jitendra Varma's house to Kanyashala to Chagan Gosar's house to Vishal Rathi's house to Back of Chatrawas to Choudhari's house via Ramchandra's house to Jagdish Hammal's house to Manju's house to Ramlal Kumhar's house to Premchandra's house to Sunil Joshi's house In Front of Purv Disha Jalil Mamu to Water Tank.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East-</b> Shakti Mandir (Ward no. 11 side).</li> <li>2. <b>West-</b> Nala (Ward no. 09 side)</li> <li>3. <b>North-</b> Dargah, Khatri Panch's Land (Ward no. 08 side)</li> <li>4. <b>South-</b> Nala (Ward no. 11 side)</li> </ol>
11	Shashtri Ward	<p>Kachi Mohalla, Dhobi Mohalla, Shakti Mandir Road, Indore Road.</p> <p>From Dhobi Mohalla Jamnalal Dhobi's house to Pathan's Chakki to Varma Doctor's house to Babulal Seth's house to Muktldham Road Mandi via Kailash Kelwa's house to Goshala to Morya's Ware house to Jagdish Munim's house to Pashu Hospital to Shakti Mandir forward to Mohan Jaiswal's house to Kachi Mohalla to Balsara's house to Dhobi Samaj Dharmshala to Jamnalal's house.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East-</b> Krishi Mandi (Ward no. 13 side)</li> <li>2. <b>West-</b> Jaiswal's house (Ward no. 10 side)</li> <li>3. <b>North-</b> Urdu School (Ward no. 08 side)</li> <li>4. <b>South-</b> Harijan Mohalla (Ward no. 12 side)</li> </ol>
12	Dr. Ambedkar Ward	<p>New Abadi, Pinjara Mohalla, Chamar Mohalla.</p> <p>From Yashpal Soni's house to Sardar Bargunda's house to Harijan Mohalla via Pyachandra Khichi's house to Jagdish Gosar's house to Jeetu's house to In front of Manoj Shashtri's Shop to Nur Linemen's house to Ramesh Gosar's house to Kallu Pahalwan's house to Choti Masjid to Pinjara Mohalla to Molana Tasvir's house to Yashpal Soni's house.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East-</b> Takia Road (Ward no. 02, 03 side)</li> <li>2. <b>West-</b> Choti Masjid (Ward no. 07 side)</li> <li>3. <b>North-</b> Kabristan (Ward no. 03 side)</li> <li>4. <b>South-</b> Temple Open Land (Ward no. 11 side)</li> </ol>
13	Rajiv Ward	<p>Dharmat Road, Neem Chonk, Pinjara Mohalla, Ghati Neeche, Nai Seri, Balai Seri, Harijan Mohalla.</p> <p>From Runji Chopati to Ashok Solanki's house to Ramesh Dubey's house to Patel Statue to Ghanshyam Yogi's house to Nai Seri via Devra Badrilal's house to Balu Harijan's house to Satyanarayan Bhut's house to Dariyavsingh's house to Soma's house to Champalal's house to Ramchandra's house to Kailash Babuji's house to Kotha to Mankar Seri to Raisingh Mankar's house to Chatarsingh Patel's Karkhana to Kalyan's Shop to Ashok Solanki's house.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East-</b> Nala (Ward no. 14 side)</li> <li>2. <b>West-</b> Patel Statue Indore Road (Ward no. 02 side)</li> <li>3. <b>North-</b> Dharmat Road, Dargah (Ward no. 15 side)</li> <li>4. <b>South-</b> Nala (Ward no. 11 side)</li> </ol>
14	Raidas Ward	<p>Dharmat Road, Behind Gal Mahadev Gali, Bheel Mohalla, Nath Mohalla, Baman Seri.</p> <p>From Ajabsingh's house to Marsab's house to Gal Mahadev to In Front of Thanak School Neem Tree Sundar kakaji's house to Bharat Babuji's bada to Balalramba's house to Siddhnath Ghati's house to Ghishi Bhuvaji's house to Kailash Babuji's house to Shivnarayan Gandhi's house to Prahalad Bhambhi's house to Banshiwala Temple to Ranjit Harnya's house to Mataji Temple to Parmanand's house to Banshilal Patidar's house to Mohan Yogi's house to Statue to Krishnalal Patidar's house to Prahalad Patidar's house to Kanchanlal's house Behind Prem Bairagi's house to Ajabsingh's house.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>East-</b> Dharmat Road, Pani ki Thel, (Ward no. 15 side)</li> <li>2. <b>West-</b> Dargah (Ward no. 13 side)</li> <li>3. <b>North-</b> Gal Mahadev Road (Ward no. 02, 15 side)</li> <li>4. <b>South-</b> Banshiwala Temple (Ward no. 13 side)</li> </ol>

15	Valmiki Ward	<p>Gal Mahadev Road, Kabit Doj, Harijan Mohalla, New Abadi, Patidar Nagar, Dharmat Road.</p> <p>From Behind Mamji Welding's Shop to Kabit Doj to Hukamchandra Patidar's house to Ramesh Bhatti's house to Dhannalal Choudhri's house to Water tank via to Godawaribai's house to Ramdewra to Kailash Choudhri's house to Kailash Bheel's house to In Front Of Gal Mahadev Mela Ground Behind Ajodhyabai's house Tower to Dargah Via Gaju Mistri's house to Raja Hotel' to Behind Patidar Compex to Bharat Solanki's house to Mamaji Welding's Shop.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. East- Water Tank, Nazul Land</li> <li>2. West- Indira Statue, Patel Statue (Ward no. 02 side)</li> <li>3. North- Gal Mahadev Road (Ward no. 02 side)</li> <li>4. South- Dargah Dharmat Road (Ward no. 14 side)</li> </ol>
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

**सांवेर, दिनांक 06.05. 2014**

क. 63 —लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् सांवेर के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करती है: —

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	अम्बेडकर वार्ड
2	ईदगाह वार्ड
3	महात्मा गांधी वार्ड
4	जवाहर वार्ड
5	मोलाना आजाद वार्ड
6	किंदवर्झ वार्ड
7	मौं चामुण्डा वार्ड
8	इंदिरा गांधी वार्ड
9	लक्ष्मीबाई वार्ड
10	राजीव वार्ड
11	तेजाजी वार्ड
12	दयानंद वार्ड
13	श्री कृष्ण वार्ड
14	श्री राम वार्ड
15	रविदास वार्ड

## वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	वार्डों का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थ सीमा
01	अम्बेडकर वार्ड	पुराना रांवेर, होली जतरा, उल्टे हनुमान, तिरुपति कॉलोनी से कुड़ाना रोड़ बायपास तक, इट भटटा रोड़।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- बायपास रोड़</li> <li>पश्चिम :- इट भटटा</li> <li>उत्तर में :- श. विघालय</li> <li>दक्षिण में :- उल्टे हनुमान</li> </ol>
02	ईदगाह वार्ड	पानोड़ रोड़, ककराली, कुड़ाना रोड़, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- पानोड़ रोड़</li> <li>पश्चिम :- उज्जैन रोड़</li> <li>उत्तर में :- बायपास मार्ग</li> <li>दक्षिण में :- कुड़ाना रोड़</li> </ol>
03	महात्मा गांधी वार्ड	चंद्रभागा, चन्द्रभागा झील, उज्जैन रोड़ खण्डेलवाल पम्प से दोनों तरफ खान नदी पुल तक, कायरथ खेड़ी रोड़ दोनों तरफ, जनपद पंचायत के पीछे का भाग, यादव कालोनी, पुराना बायपास दोनों तरफ पानोड़ रोड़ के रास्ते तक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- पानोड़ रोड़</li> <li>पश्चिम :- उज्जैन रोड़</li> <li>उत्तर में :- कायरथ खेड़ी रोड़</li> <li>दक्षिण में :- खान नदी</li> </ol>
04	जवाहर भार्ग	पुलिस थाना, कसाई मोहल्ला, संतोष सिंह गांधी से हरीश जायसवाल के मकान तक, पोरबाल के मकान से डॉ. सिंग के मकान तक, सांवरिया जनरल स्टोर्स से बाजार चौक अली हुसेन तक, रुधनाथ माली के मकान से शांतीलाल माली के मकान तक, किशन बाग से रसीद खां बाबूखां के मकान तक, खान नदी पुल से दिलीप कोडामल की दुकान तक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- डॉ. सिंग वाली गली</li> <li>पश्चिम :- इन्दौर रोड़</li> <li>उत्तर में :- पुलिस थाना</li> <li>दक्षिण में :- शांतीलाल वाली गली।</li> </ol>
05	मोलाना आजाद वार्ड	काजी मोहल्ला, मानक चौक, शिंडी घाट मिर्जा बाखल व मज्जीद के सामने, अब्दुल रजाक के मकान से रईसा बी इब्राहिम के मकान तक व मो. याकूब के मकान से मुन्ना खां के मकान तक, रेखा गेहलोद के मकान से मांगीलाल के मकान तक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- सीढ़ी घाट</li> <li>पश्चिम :- धोबी मोहल्ला</li> <li>उत्तर में :- काजी मोहल्ला</li> <li>दक्षिण में :- राम मंदिर</li> </ol>
06	किदवर्दी वार्ड	भोई मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, माली मोहल्ला, मानक चौक, रजाक बेण्ड व बाबूखां के मकान से राम मंदिर तक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- भोई मोहल्ला</li> <li>पश्चिम :- इन्दौर रोड़</li> <li>उत्तर में :- चामुण्डा माता मंदिर</li> <li>दक्षिण में :- मानक चौक</li> </ol>
07	मां चामुण्डा वार्ड	सैयद मोहल्ला, इन्दौर रोड़ टंकी कम्पाउंड एरिया, मुंशी खां वाली गली, काजी हाऊस अरयूब खां रेडियो वाली गली व चौक, पानी टंकी से इन्दौर रोड़ चौराहे तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- टंकी कम्पाउंड</li> <li>पश्चिम :- इन्दौर रोड़</li> <li>उत्तर में :- कविस्तान</li> <li>दक्षिण में :- दशहरा मैदान</li> </ol>
08	इंदिरा गांधी वार्ड	बड़ा इमामबाड़ा, छात्रावास, इन्द्रगांधी वार्ड, डॉ. कटारिया वाली पट्टी, मकवाना वाली गली, चारभुजानाथ महस्कर सा. वाली गली, जवाहर मार्ग इन्दौर रोड़, धोबी मोहल्ला भारीरथ सिसोदिया की चक्की से दोनों तरफ राणा जी के मकान तक व मकवानकर की दुकान।	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में :- बड़ा इमामबाड़ा</li> <li>पश्चिम :- मकवाना वाली गली</li> <li>उत्तर में :- चार भुजानाथ</li> <li>दक्षिण में :- छात्रावास</li> </ol>

09	लक्ष्मीबाई वार्ड	मामा बस्ती से पुलिया बाबूखां प्रेसिडेंट के पीछे का पूरा हिस्सा रसीद खां के मकान से यासीन खां आलू प्याज वाले के मकान तक, कलाल घाट तोड़ा वाली गली व रावला सम्पूर्ण क्षेत्र शांतीलाल कारपेंटर के मकान तक।	1. पूर्व में :— छात्रावास के सामने में रोड़ 2. पश्चिम :— रावला 3. उत्तर में :— कलाल घाट 4. दक्षिण में :— इन्दौर रोड़
10	राजीव वार्ड	शंकर मंदिर के पीछे बरगुण्डा मोहल्ला, सत्यनारायण मंदिर के पीछे, दुबे जी की गली, सुरेन्द्र दरबार की गली, मामा टेंट के मकान से टोस वाले बब्लू वर्मा के घर होते हुये नाग मंदिर तक। तेजाजी चौक व बरगुण्डा बाखल।	1. पूर्व में :— शंकर मंदिर 2. पश्चिम :— नाग मंदिर 3. उत्तर में :— तेजाजी चौक 4. दक्षिण में :— रावला
11	तेजाजी वार्ड	तेजाजी चौक सुनील भाटिया व हिन्दु सिंह के घर से दोनों तरफ सुखराम कुमार के घर के आमने—सामने तक, विनित टेलर के मकान से कपिल श्रीवास्तव के मकान होते हुये कांतीलाल श्रीवास्तव के मकान तक सम्पूर्ण क्षेत्र, मिर्ची वाली गली, जानी बाऊजी के मकान से दोनों ओर रामा यादव के मकान तक।	1. पूर्व में :— तार गली 2. पश्चिम :— माता मंदिर 3. उत्तर में :— श्रीवास्तव की गली 4. दक्षिण में :— रावला
12	दयानंद मार्ग	प्रहलाद यादव वाली पट्टी दोनों ओर गोपाल सिंह ठाकुर बोहरा के मकान तक, बोहरा के मकान के पीछे की गली विजय गुप्ता के मकान तक, कन्याशाला मार्केट, गवली मोहल्ला, धीरज यादव वाली गली, बाजार चौक से हनुमान मंदिर, झाला बाबूजी की पट्टी, शंकर मंदिर से खलवाले के मकान तक।	1. पूर्व में :— बोहरा का मकान 2. पश्चिम :— प्रहलाद यादव की गली 3. उत्तर में :— अजनोद रोड़ 4. दक्षिण में :— बरगुण्डा मोहल्ला
13	श्री कृष्ण वार्ड	श्री राम मार्ग, श्री कृष्ण वार्ड, पुरण सेठ से डाबरी चौक, श्री कृष्ण मंदिर के पीछे, श्री कृष्ण मार्ग से मदनलाल व पवन बाबूलाल के मकान तक। गवला खाड़ी	1. पूर्व में :— श्री कृष्ण मार्ग 2. पश्चिम :— चौधरी कॉलोनी 3. उत्तर में :— मुख्य मार्ग 4. दक्षिण में :— डाबरी
14	श्री राम वार्ड	श्री राम मार्ग, भासी मोहल्ला, राधेश्याम सिंदड से जोशी मोहल्ला, चौधरी कॉलोनी, मोची मोहल्ला नई कालोनी नाके के सामने, व केशरीपुरा मार्ग।	1. पूर्व में :— श्री राम मार्ग 2. पश्चिम :— चौधरी कॉलोनी 3. उत्तर में :— अजनोद रोड़ 4. दक्षिण में :— गवला रोड़
15	रविदास वार्ड	अजनोद रोड़, लाला खेड़ा रोड़, रपट केशरीपुरा मार्ग, रपट से हायर सेकेण्डरी स्कूल के पीछे का हिस्सा कटकिया कोने तक, तहसील के पीछे का हिस्सा, नगर पंचायत के पीछे का हिस्सा, सिधी कालोनी व छोगू महाराज के मकान तक।	1. पूर्व में :— नगर पंचायत के पीछे का भाग 2. पश्चिम :— नई कालोनी 3. उत्तर में :— अजनोद रोड़ 4. दक्षिण में :— केशरीपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर,

Sanwer Dated 06.05.2014

No. 63 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intension to include the following disrciption of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Sanwer as shown below:-

**Schedule**

Ward No. (1)	Name of the ward (2)
1	Ambedkar Ward
2	Idgah Ward
3	Mahatma Gandhi Ward
4	Jawahar Ward
5	Mohulana Azad Ward
6	Kidvai Ward
7	Maa Chamunda Ward
8	Indira Gandhi Ward
9	Laxmi Bai Ward
10	Rajiv Ward
11	Tejaji Ward
12	Dayanand Ward
13	Shri Krishna Ward
14	Shriram Ward
15	Ravidas Ward

## Four Dimensional Extents of wards are as follows

Ward no.	Name of Ward	Description of Ward, Arla No. Street etc.	Description of Boundary
01	AMBEDKAR WARD	PURANA RAWER, HOLI JATARA, ULTE HANUMAN MANDIR, TIRUPTI COLONY TO KUDRANA ROAD BYPASS, EAT BHATTA ROAD	1. PURV- BYPASS ROAD 2. PASHCHIM- EAT BHATTA 3. UTTAR- GOVT. SCHOOL AUR NALA 4. DAKSHIN- ULTE HANUMAN MANDIR
02	IDGAH WARD	PANOD ROAD, KANKRALI, KUDANA ROAD, AUR HOUSING BOARD COLONY.	1. PURV- PANOD ROAD 2. PASHCHIM- UJJAIN ROAD 3. UTTAR- UJJAIN BYPASS MARG 4. DAKSHIN- KUDANA ROAD
03	MAHATMA GANDHI WARD	CHANDRA BHAGA, JHIL, UJJAIN ROAD BOTH SIDE UPTO KHAN RIVER BRIGE, KANKAD, KHANDELWAL PUMP TO KAYASTKHEDI ROAD BOTH SIDE, BEHIND JANPAD PANCHAYAT PORTION , YADAV COLONY OLD BYPASS BOTH SIDE, UPTO PANOD ROAD .	1. PURV- PANOD ROAD 2. PASHCHIM- UJJAIN ROAD AANTRIK MARG 3. UTTAR- KAYASTH KHEDI ROAD 4. DAKSHIN- KHAN NADI
04	JAWAHAR WARD	POLICE THANA, KASAI MOHALLA , SANTOSH SINGH GHANDHI TO HARISH JAISAWAL, PORWAL HOUSE TO DR. SINGH HOUSE, SANWRIYA GENRAL STORE BAJAR CHOK TO UPTO ALI HUSAIN HOUSE, RUGNATH MALI HOUSE TO UPTO SHANTILAL MANGILAL LOHAR HOUSE, KISHAN BAG TO RASHID KHA BABU HOUSE, KHAN RIVER PUL UPTO DILIP KODAMALL'S SHOP.	1. PURV- DR. SINGH WALI PATTI 2. PASHCHIM- INDORE ROAD 3. UTTAR- POLICE THANA 4. DAKSHIN- SHANTILAL MANGILAL LOHAR WALI GALI
05	MOULANA AZAD WARD	KAJI MOHALLA, MANAK CHOUK, SIDI GHAT, MIRJA BAKHAL, IN FRONT OF MOSQUE (MASJID) , FROM ABDUL RAJAK HOUSE TO THE HOUSE OF RAISA BEE IBRAHIM, FROM HOUSE OF MO. YAKUF TO HOUSE OF MUNNA KHA & HOUSE OF REKHA GEHLOT UPTO THE HOUSE OF MANGILAL.	1. PURV- SIDI GHAT, MIRJA BAKHAL 2. PASHCHIM - DHOBI MOHALLA 3. UTTAR- KAJI MOHALLA 4. DAKSHIN- RAAM MANDIR
06	KIDVAI WARD	BHOI MOHALLA, HARIJAN MOHALLA, MALI MOHALLA, MANAK CHOUK, RAJAK BEND, UPTO THE HOUSE OF BABU KHA & RAAM MANDIR	1. PURV- BHOI MOHALLA, HARIJAN MOHALLA 2. PASHCHIM- INDORE ROAD 3. UTTAR- CHAMUNDA MATA AANTRIK MARG 4. DAKSHIN- MANAK CHOUK
07	MAA CHAMUNDA WARD	SAIYAD MOHALLA, INDORE ROAD, TANKI, COMPOUND AREA, LANE OF MUNSHI KHA, KANJI HOUSE, AYYUB KHA RADIO WALA CHOUK AND GALI WATER TANK TO INDORE ROAD SQUARE.	1. PURV- TANKI COMPOUND 2. PASHCHIM- INDORE ROAD 3. UTTAR- KABRISTAN 4. DAKSHIN- DASHAARA MAIDAN
08	INDIRA GANDHI WARD	BADA IMAMBADA, HOSTEL, INDRA GANDHI MARG, DR. KATARIYA LANE, MAKWANA LANE, CHAR BHUJA NATH MAHSKAR SAHAB LANE, JAWAHAR MARG, DHOBI MOHALLA INDORE ROAD, FROM BOTH SIDE OF BHAGIRAT SISODIYA'S CHAKI TO HOUSE OF RANA JI AND UPTO THE SHOP OF MKVANKER.	1. PURV- BADA IMAMBADA 2. PASHCHIM- MAKWANA WALI 3. GALI UTTAR- CHAR BHUJA NATH 4. DAKSHIN- CHHATRAWAS

09	LAXMI BAI WARD	NEAR MAMA BASTI CURLVERT TO BEHIND BABU KHA PRESIDENT HOUSE OF RASHID KHA TO HOUSE OF ALU PYAJ WALE, KALAL GHAT TODA LANE TO UPTO THE COMPLETE RAWLA AREA, HOUSE OF , SHANTI LAL KARPANTOR	1. PURV- CHHATRAWAS KE SAMNE MEN ROAD 2. PASHCHIM- RAWLA 3. UTTAR- KALAL GHAT 4. DAKSHIN- INDORE ROAD NETAJI KI BILDING
10	RAJIV WARD	BEHIND SHANKAR MANDIR BARGUNDA MOHALLA, BEHIND SATYANARAYAN MANDIR, DUBE JI LANE, LANE OF SURENDRA DARBAR, FROM HOUSE OF MAMA TENT TO TOS WALA BABLU VERMA UPTO THE NAG MANDIR TAK, TEJAJI CHOUK AND BARGUNDA BAKHAL.	1. PURV- SHANKAR MANDIR 2. PASHCHIM- NAG MANDIR 3. UTTAR- TEJAJI CHOUK 4. DAKSHIN- RAWLA
11	TEJAJI WARD	TEJAJI CHOUK MARG TO HOUSE OF SUNIL BHATIYA BOTH SIDE OF HINDU SINGH INFRONT OF HOUSE OF SUKHRAM KUMHAAR, FROM HOUSE OF VINIT TELOR, KAPIL SHRIWASTAV, UPTO KANTILAL SHRIWASTAV WHOLE AREA, MIRCHI WALE LANE, BOTH SIDE OF JANI BABUJI UPTO THE HOUSE OF RAMA YADAV.	1. PURV- TAR GALI 2. PASHCHIM- MATA MANDIR 3. UTTAR- SHRIWASTAV KI GALI 4. DAKSHIN- RAWLA
12.	DAYANAND WARD	FROM BOTH SIDE OF PHALAD YADAV PATTI TO HOUSE OF GOPAL SINGH TAHKUR, BEHIND LANE OF BOHRA'S HOUSE UPTO THE HOUSE OF VIJAY GUPTA, KANYASAL SHAALA MARKET, GAVLI MOHALL, LANE OF DHIRAJ YADAV, BABAR CHOUK TO HANUMAN MANDIR, PATTI OF JALA BABUJI, SHANKAR MANDIR TO HOUSE OF KALWALE.	1. PURV- BOHRA KA MAKAN 2. PASHCHIM- PRAHLAD YADAV KI GALI 3. UTTAR- AJNOD ROAD 4. DAKSHIN- BARGUNDA MOHALLA
13.	SHRI KRISHNA WARD	SHRI RAM MARG,SHRI KRISHNA MARG TO PURAN SETH,DABRI CHOUK, BEHIND KRISHNA MANDIR ,SHRI KRISHNA MANDIR MAARG HOUSE OF MADANLAL AND PAWAN BABULAL, GAWLA KHADI	1. PURV- SHRI KRISHNA MARG 2. PASHCHIM- CHOUDHARY COLONY 3. UTTAR- MUKYA MARG 4. DAKSHIN- DABRI
14	SHRIRAM WARD	SHRIRAM MARG, BHAMI MOHALLA, RADHESHYAM SINDAD TO JOSHI MOHALLA , CHOUDHARY COLONY, MOCHI MOHALLA, NAI COLONY, IN FRONT OF NAKA AND KESHRI PURA MARG.	1. PURV- SHRIRAM MARG 2. PAKSHIM- CHOUDHARY COLONY 3. UTTAR- AJNOD ROAD 4. DAKSHIN- GAWLA ROAD
15	RAVIDAS WARD	AJNOD ROAD, LALA KHEDA ROAD, RAPAT , KESHRI PURA MARG , BACK SIDE OF HIGHER SECONDARY SCHOOL UPTO THE CORNER OF KATKYA, BEHIND TEHSIL AREA, BEHIND NAGAR PARSHID AREA, SINDHI COLONY, UTPO THE HOUSE OF CHOGU MAHARAJ.	1. PURV- NAGAR PANCHAYAT KE PICHE KA BHAG 2. PASHCHIM- NAI COLONY 3. UTTAR-AJNOD ROAD 4. DAKSHIN- KESHRI PURA

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

## महूगांव, दिनांक 06.05.2014

क्र. 64 —लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् महूगांव के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है: —

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
01	संजय गांधी वार्ड
02	विकेकानन्द वार्ड
03	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
04	लोकमान्य तिलक वार्ड
05	राजीव गांधी वार्ड
06	मौलाना आजाद वार्ड
07	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
08	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
09	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
10	महात्मा गांधी वार्ड
11	इंदिरा गांधी वार्ड
12	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
13	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
14	चन्द्रशेखर वार्ड
15	लक्ष्मीबाई वार्ड

## वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	वार्डों का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थ सीमा
01	संजय गांधी वार्ड	1. सुमन कॉलोनी का उत्तर दक्षिणी भाग 2. अन्नपूर्णा कॉलोनी 3. नर्मदा कॉलोनी 4. शान्तिनगर का उत्तर पूर्वी भाग	1. उत्तर — बजरंगपुरा 2. पूर्व — श्रीखंडी मार्ग 3. दक्षिण — तहसील कॉलोनी 4. पश्चिम — राजू पंडित की कृषि भूमि
02	विवेकानन्द वार्ड	1. शान्तिनगर कॉलोनी 2. उत्कृष्ट विहार कॉलोनी	1. उत्तर — कृषि भूमि 2. पूर्व — हाऊसिंग बोर्ड 3. दक्षिण — महू नीमच 4. पश्चिम — रोयल रेसीडेंसी
03	जवाहरलाल नेहरू वार्ड	1. बजरंगपुरा 2. खातीपुरा 3. चमारपुरा 4. सुमन कॉलोनी	1. उत्तर — कृषि भूमि 2. पूर्व — तिवारी कृषि भूमि 3. दक्षिण — सुमन कॉलोनी 4. पश्चिम — शीतलामाता मंदिर
04	लोकमान्य तिलक वार्ड	1. बाजार चौक 2. बलाई मोहल्ला 3. सुभाष चौक 4. श्रीखंडी रोड़ व पट्टेधारी	1. उत्तर — खातीपुरा बजरंगपुरा सीमा 2. पूर्व — महादेव की बावड़ी 3. दक्षिण — महगांव श्रीखंडी रोड़ 4. पश्चिम — बजरंग मोहल्ले की सीमा
05	राजीव गांधी वार्ड	1. श्रीनाथ कॉलोनी 2. मॉ भगवती विहार 3. पट्टाधारी क्षेत्र	1. उत्तर — महू श्रीखंडी रोड़ 2. पूर्व — गंभीर नदी 3. दक्षिण — सुमन महाराज की कृषि भूमि एवं रज्जाक कॉलोनी का हिस्सा 4. पश्चिम — हरि नगर कॉलोनी सीमा
06	मौलाना आजाद वार्ड	1. हरि नगर कॉलोनी 2. तहसील कॉलोनी 3. कांकरपुरा का उत्तरी भाग 4. रज्जाक कॉलोनी	1. उत्तर — महू श्रीखंडी रोड़ 2. पूर्व — मॉ भगवती विहार की सीमा 3. दक्षिण — कांकरपुरा मस्जिद एवं आम रास्ता 4. पश्चिम — शान्तिनगर एवं जवाहर नगर की सीमा
07	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	1. प्रजापत मोहल्ला 2. जवाहर नगर कॉलोनी 3. शिवनगर कॉलोनी 4. भागीरथ कॉलोनी उत्तर पश्चिम 5. नवीन कॉलोनी उत्तर पश्चिमी भाग	1. उत्तर — गंभीर नदी एवं नाला 2. पूर्व — शेष भागीरथ कॉलोनी का पश्चिम भाग 3. दक्षिण — महू नीमच मार्ग 4. पश्चिम — छोटे पुल वाला नाला
08	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	1. भागीरथ कॉलोनी	1. उत्तर — गंभीर नदी 2. पूर्व — गंभीर नदी 3. दक्षिण — नवीन कॉलोनी 4. पश्चिम — भागीरथ कॉलोनी का शेष भाग

09	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	1. कृष्णपुरा 2. रिसाला 3. नवीन कॉलोनी का पूर्वी दक्षिण भाग	1. उत्तर - भागीरथ कॉलोनी 2. पूर्व - गंभीर नदी 3. दक्षिण - महू नीमच मार्ग 4. पश्चिम - नवीन कॉलोनी
10	महात्मगांधी वार्ड	1. महात्मा गांधी मार्ग 2. राजस्व कॉलोनी 3. ओढ़ी एवं सोनी कॉलोनी 4. पांडे गली 5. श्रीराम नगर कॉलोनी का उत्तरी भाग	1. उत्तर - प्रजापत मोहल्ला एवं कृष्णपुरा की सीमा 2. पूर्व - गंभीर नदी 3. दक्षिण - जगमोहन की कृषि भूमि एवं श्रीराम नगर का 4. पश्चिम - छोटी पुलिया और नाला
11	इंदिरा गांधी वार्ड	1. बिजासन कॉलोनी तेलीखेड़ा 2. तेलीखेड़ा सम्पूर्ण क्षेत्र	1. उत्तर - गंगुजी की कृषि भूमि सीमा 2. पूर्व - गंभीर नदी 3. दक्षिण - गौशाला 4. पश्चिम - धारनाका
12	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	1. गौशाला 2. अन्ना कॉलोनी 3. शंकर कॉलोनी 4. दुर्गा कॉलोनी 5. श्रीराम नगर कॉलोनी का दक्षिणी भाग 6. आशियाना तक	1. उत्तर - श्री राम नगर कॉलोनी का शेष भाग 2. पूर्व - गंभीर नदी 3. दक्षिण - डोगरगांव 4. पश्चिम - उपजेल
13	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	1. जाटव मोहल्ला सम्पूर्ण क्षेत्र 2. गवली मोहल्ला सम्पूर्ण क्षेत्र 3. डायमण्ड कॉलोनी सम्पूर्ण क्षेत्र 4. मारुति नगर कॉलोनी सम्पूर्ण क्षेत्र 5. महू नीमच रोड की दोनों पट्टी 6. कांकरपुरा का दक्षिणी भाग	1. उत्तर - कांकरपुरा का दक्षिण भाग 2. पूर्व - नाला 3. दक्षिण - नाला 4. पश्चिम - गायकवाड़ और सुपरसिटी
14	चन्द्रशेखर वार्ड	1. गायकवाड़ मध्य उत्तर पश्चिम भाग 2. सुपरसिटी 3. साऊथ शांतिनगर 4. विमल विहार कॉलोनी	1. उत्तर - महू नीमच मार्ग 2. पूर्व - डायमण्ड कॉलोनी और जाटव मोहल्ला 3. दक्षिण - गवली मोहल्ला 4. पश्चिम - यशवन्त पब्लिक स्कूल और कांकरपुरा तालाब
15	लक्ष्मीबाई वार्ड	1. जवाहर नगर कॉलोनी सम्पूर्ण क्षेत्र 2. शांतिनगर कॉलोनी का पूर्वी भाग	1. उत्तर - शांतिनगर की सीमा 2. पूर्व - तिवारी जी का खेत एवं तहसील कॉलोनी की सीमा 3. दक्षिण - महू नीमच मार्ग 4. पश्चिम - शांतिनगर का पूर्वी भाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

Mhowgaon Dated 06.05. 2014

No. 64 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intension to include the following discription of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Mhowgaon as shown below:–

**Schedule**

Ward No. (1)	Name of the ward (2)
1	Sanjay Gandhi Ward
2	Vivekanand Ward
3	Jawaharlal Nehru Ward
4	Lokmanya Tilak
5	Rajiv Gandhi Ward
6	Molana Ajad Ward
7	Bahadur Shastri
8	Dr. Rajendra Prasad Ward
9	Dr. Ambedkar Ward
10	Mahatma Gandhi Ward
11	Indira Gandhi Ward
12	Subhash Chandra Boss Ward
13	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
14	Chandrashekhar Ward
15	Laxmi Bai Ward

**Four Dimensional Extents of wards are as follows**

Ward no.	Name of Ward	Description of Ward, Arla No. Street etc.	Description of Boundary
01	Sanjay Gandhi Ward	1. North South Part of suman Colony 2. Annepurna Colony 3. Narmada Colony 4. North East Part of Shanti Nagar	1. North – Bajragnpura 2. East – Shrikhandi Road 3. South – Tehsil Colony 4. West – Agricultural Land of Raju Pandit
02	Vivekananad Ward	1. Shanti Nagar Colony 2. Utkarsh Vihar Colony	1. North – Agricultural Land 2. East – Housing Board 3. South – Mhow Neemach Road 4. West – Royal Residency
03	Jawaharlal Nehru Ward	1. Bajrangpura 2. Khatipura 3. Chamarpara 4. Suman Colony	1. North – Agricultural Land 2. East – Agricultural Farm of Tiwari 3. South – Suman Colony 4. West – Temple of Shital Mata
04	Lokmanya Tilak	1. Bajar Chok 2. Balai Mohalla 3. Subhas Chok 4. Lessor of Shrikhandi Road	1. North – Boundary of Khatipura Bajrangpura. 2. East – Step-well of Mahadev. 3. South – Road of Mhowgaon Shrikhandi 4. West – Boundary of Bajrangpura.
05	Rajiv Gandhi Ward	1. Shrinath Colony 2. Maa Bhagwati Vihar 3. Lessors Area	1. North – Road of Mhowgaon Shrikhandi 2. East – Gambhir River 3. South – Agricultural Land of Suman Maharaj and a part of Rajjak Colony 4. West – Boundary of Hari Nagar.
06	Molana Ajad Ward	1. Hari Nagar Colony 2. Tehsil Colony 3. North Part of Kakarpura 4. Rajjak Colony	1. North – Road of Mhowgaon Shrikhandi 2. East – Boundary of Maa Bhagwati Vihar Colony. 3. South – Kakarpura Mosque and thorough Fare. 4. West – Boundary of Shanti Nagar and Jawahar Nagar.
07	Lal Bahadur Shastri	1. Prajapat Mohalla 2. Jawahar Nagar Colony 3. Shiv Nagar Colony 4. North West of Bhagirath Colony 5. North West part of Navin Colony	1. North – Gambhir River and Sewer 2. East – West Part of Remaining Bhagirat Colony 3. South – Mhow Neemuch Road 4. West – Sewer of Small Bridge.
08	Dr. Rajendra Prasad Ward	1. Bhagirath Colony	1. North – Gambhir River 2. East – Gambhir River 3. South – Navin Colony 4. West – Remaining part of Bhagirat Colony

09	Dr. Ambedkar Ward	1. Krashnpura 2. Risala 3. East south part of navin Colony	1. North – Bhagirath Colony 2. East – Gambhir River 3. South – Mhow Neemuch Road 4. West – Navin Colony
10	Gandhi Ward	Mahatma Gandhi Road 2. Rajasw Colony 3. Odhe and Soni Colony 4. Panday Gali 5. North Part of Shriram Nagar Colony	1. North – Boundary of Prajapt Mohalla and Krashnpura. 2. East – Gambhir River. 3. South – Agricultural Land of Jagmohan and North Part of Shriram Nagar. 4. West – Small Bridge and Sewe.
11	Indira Gandhi Ward	1. Bijasan Colony tellkheda 2. Total Area of Telikhead	1. North – Boundary of Agricultural Land of Gangu ji 2. East – Gambhir River. 3. South – Goshala 4. West – Dharnaka.
12	Subhash Chandra Boss Ward	1. Goshala 2. Anna Colony 3. Shankar Colony 4. Durga Colony 5. South Part of Shriram Nagar Colony 6. Aashiyana	1. North – Remaining part of Shriram Nagar Colony. 2. East – Gambhir River. 3. South – Dongergao 4. West – Sub –Jail
13	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward	1. Total Area of Jatav Mohalla 2. Total Area of Gawali Mohalla 3. Total Area of Diamond Colony 4. Total Area of Marauti Nagar Colony 5. Both Side of Mhow Neemach Road 6. South Part of Kakarpura.	1. North – South Part of Kakarpura 2. East – Sewer 3. South – Sewer 4. West – Gaikwad and Super City
14	Chandrashekhar Ward	1. Center North West part of Gaikwad 2. Super City 3. South Shanti Nagar 4. Vimal Vihar Colony	1. North – Mhow Neemach Road 2. East – Diamond colony and Jatav Mohalla 3. South – Gawli Mohalla 4. West – Yashwant Public School and Kakarpura Talab.
15	Laxmi Bai Ward	1. Total Area of Jawahar Nagar 2. East Part of Shanti Nagar Colony	1. North – Boundary of Shanti Nagar 2. East – Agricultural Land of Tiwari and Boundary of Tehsil Colony 3. South – Mhow Neemach Road 4. West – East part of Shanti Nagar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

मानपुर, दिनांक 06.05. 2014

क. 65 —लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् मानपुर के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करती हैः —

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
4	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	हरि हरेश्वर वार्ड
6	राजीव गांधी वार्ड
7	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
8	जयप्रकाश वार्ड
9	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
10	मानसिंह वार्ड
11	शहीद भगतसिंह वार्ड
12	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
13	इंदिरा गांधी वार्ड
14	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
15	विनोबा भावे वार्ड

## वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	वार्डों का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थ सीमा
01	महात्मा गांधी वार्ड	ए.बी. रोड़ तम्बोली, मोहल्ला, शेरपुर रोड़ एवं मोड़िया शेड, अब्दुलरजाक का मकान, फारेस्ट नाका, राजू मिस्त्री का मकान।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — परसाई के पुल से होते हुए खुली कृषि भूमि से।</li> <li>पूर्व — ए.बी. रोड़ अब्दुल रजाक के मकान से चलते हुए फारेस्ट नाके तक।</li> <li>दक्षिण — फारेस्ट नाके से बबू गवली के खेत तक।</li> <li>पश्चिम — बबू गवली के खेत से उत्तर की ओर चलते हुए खुली कृषि भूमि।</li> </ol>
02	डॉ. अन्वेषकर वार्ड	शेरपुर रोड़, बाबूलाल भीमाजी के मकान से, इसाक बाबू, ए.बी. पुलिस थाने, म.प्र. कार्यालय, भारत सरकार, गैस एजेन्सी।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — शेरपुर रोड़ बाबूलाल भीमाजी के मकान से चलते हुये मो. इसाक बाबू के मकान तक।</li> <li>पूर्व — ए.बी. रोड़ पुलिस थाने से चलते हुये खेड़ा के रस्ते तक।</li> <li>दक्षिण — खुली कृषि भूमि।</li> <li>पश्चिम — शास. डाक बंगला, बालाराम देवीसिंह के मकान से चलते हुए गिरधारी पाटीदार के मकान तक खुली कृषि भूमि।</li> </ol>
03	जवाहर लाला नेहरू वार्ड	बोहरा समाज कब्रिस्तान, आय टी आय, पुलिस लाईन, आवास योजना, खेल मैदान, शीतला गली।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — दाउदी बोहरा जमात के मकान से खुली कृषि भूमि होते हुए ए.बी. रोड़।</li> <li>पूर्व — शीतला गली दाउदी बोहरा जमात के मकान से चलते हुए कलाबाई रामकिशन के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — भील पल्टन रोड़ सुरेश शर्मा के मकान से अमरनाथ के मकान तक एवं सम्पूर्ण पुलिस लाईन से होते हुए आय टी आय से होते हुए पन्नालाल के मकान तक एवं कैलाश गुणवत के मकान तक एवं अन्नपूर्णा मंदिर चौरहा।</li> <li>पश्चिम — ए.बी. रोड़</li> </ol>
04	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	अंकुर स्कूल, टीचर्स कॉलोनी, सोनारिया, कुंआ, ए.बी. रोड़	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — आवास योजना में अंकुर स्कूल का सम्पूर्ण क्षेत्र।</li> <li>पूर्व — सम्पूर्ण टीचर्स कॉलोनी।</li> <li>दक्षिण — सोनारिया कुंआ।</li> <li>पश्चिम — ए.बी. रोड़</li> </ol>

05	हरि हरेश्वर वार्ड	शंकर मंदिर, अन्नपूर्णा रोड, यूनिक स्कूल, जगदीश नथूसिंह का मकान, गणपति मंदिर, शा.प्रा.यि. मानपुर, शा. हाईस्कूल	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — वार्ड कं. 9 की सीमा।</li> <li>पूर्व — शंकर मंदिर से चलते हुए तुलसीराम यादव के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — अन्नपूर्णा रोड गिरजा सिंह के मकान से यूनिक स्कूल तक।</li> <li>पश्चिम — गीता भवन रोड एवं नाला।</li> </ol>
06	राजीव गांधी वार्ड	बसफोड़ मोहल्ला, रजका बेली का मकान, सूरजाबाई, राधेश्याम का मकान, गुलाब भोर सिंह का मकान, वार्ड 05 की सीमा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — बसफोड़ मोहल्ला, रजाक बेली के मकान से पूर्व की ओर बढ़ते हुए स्काउट भवन तक।</li> <li>पूर्व — बसफोड़ मोहल्ला किशनदेवचंद के मकान से सूरजाबाई राधेश्याम के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — बसफोड़ मोहल्ला गुलाब मोरसिंह के मकान से प्रवीण तंवर के मकान तक।</li> <li>पश्चिम — वार्ड कं. 5 की सीमा।</li> </ol>
07	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	न.प. फिल्टर प्लाण्ट, सम्पूर्ण गवलीपुरा, शीतला माता रोड, नवोदय विद्यालय परिसर।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — नवोदय रोड एवं नवोदय तालाब।</li> <li>पूर्व — नवोदय विद्यालय एवं आशापुरी मंदिर।</li> <li>दक्षिण — ट्रेचिंग ग्राउण्ड</li> <li>पश्चिम — नवोदय रोड से चलते हुए रामसिंह जाट का मकान तक।</li> </ol>
08	जयप्रकाश वार्ड	आशापुरी रोड, कालीदास मार्ग, इमली रोड, कलाली गली, निचला बाजार।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — दिगम्बर दादा के मकान तक एवं मिश्रीलाल छोगालाल के मकान से बशीर मोहम्मद के मकान, चबूतरा चौक तक।</li> <li>पूर्व — खुली कृषि भूमि।</li> <li>दक्षिण — अशोक जायसवाल के मकान से आशापुरी रोड नवोदय तालाब तक।</li> <li>पश्चिम — सदर बाजार</li> </ol>
09	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड	चबूतरा चौक, चुराना छात्रावास, निचला बाजार, अनवर का मकान, सावधान सोलंकी का मकान, वार्ड कं. 3 की सीमा, जीमल अहमद का मकान, नरेन्द्र नाथूलाल का मकान।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — चबूतरा चौक से हॉस्पिटल रोड चलते हुये छात्रावास तक।</li> <li>पूर्व — सदर बाजार अनवर के मकान से जैन मंदिर होते हुये निचला बाजार सावधान सिंह सोलंकी के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — निचला बाजार जीमल अहमद के मकान से नरेन्द्र नाथूलाल के मकान तक।</li> <li>पश्चिम — शीतला गली वार्ड कं. 3 की सीमा।</li> </ol>

10	मानसिंह वार्ड	वार्ड कं. 11 की सीमा, खुर्दी रोड़, बाईक 09 की सीमा, तैयब अली का मकान, देवीसिंह मीजा का मकान, नई बस्ती क्षेत्र	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — वार्ड कं. 11 की सीमा।</li> <li>पूर्व — खुर्दी रोड़ साविर लुहार के मकान से हरिजन मोहल्ला, हेमीबाई कुम्हार के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — वार्ड कं. 3 की सीमा।</li> <li>पश्चिम — ए.बी. रोड़</li> </ol>
11	शहीद भगतसिंह वार्ड	किसान मोहल्ला, रामसिंह का मकान, सदर बाजार अस्पताल मार्ग, जूनी रुकूल।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — किसान मोहल्ला लक्षण रामसिंह के मकान से रमेश नरसिंह के मकान तक सम्पूर्ण कुम्हार मोहल्ला एवं गजानन्द चौहान के मकान से अग्रवाल वकील के मकान तक।</li> <li>पूर्व — सदर बाजार अनिल मण्डलोई के मकान से चलते हुए मनोहर सुनील के मकान तक एवं शंकर उस्ताद के मकान से सतीश प्रजापति के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — हॉस्पिटल रोड़ शिवदत्त पाल के मकान से जगदीश सोलंकी के मकान तक तथा दयाराम के मकान तक।</li> <li>पश्चिम — बद्रीलाल वर्मा के मकान से होते हुए रतनलाल झायवर के मकान तक।</li> </ol>
12	डॉ. राजेन्द्र प्रेसाद वार्ड	बाईक — 13 की सीमा, इमली रोड़, कालीदास मार्ग, सदर बाजार, चबूतरा चौक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — वार्ड कं. 13 की सीमा।</li> <li>पूर्व — इमली रोड़ कैलाश मामा के मकान से हरिशंकर बिरथरे के मकान तक।</li> <li>दक्षिण — कालीदास मार्ग सुशीला बाई रामनारायण राठौर के मकान से लक्ष्मी 4 नारायण भाटिया एवं सम्पूर्ण शनि गली।</li> <li>पश्चिम — सदर बाजार बंशी सेठ के मकान से चबूतरा चौराहा कैलाशचन्द्र रमेशचन्द्र राठौर के मकान तक।</li> </ol>
13	इंदिरा गॉदी वार्ड	इमली रोड़, सेन्थिया मोहल्ला, इमली रोड़ सनादय मोहल्ला, सदर बाजार।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तर — जगदीश ओझा के मकान से पटेल सर का मकान एवं त्रिवेणी।</li> <li>पूर्व — खुली कृषि भूमि।</li> <li>दक्षिण — बंशी सेठ की गली भारतसिंह चौधरी के मकान से चलते हुए सम्पूर्ण राजौरिया गली।</li> </ol>

			<p>4. परिचय — सदर बाजार बलदेव गुरु के मकान से सुककी बाई सोनी के मकान तक।</p>
14	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	गॅंधी चौक, सदर बाजार, औंकारलाल बद्रीलाल का मकान, अनुपम स्टोर, पोर्ट ऑफिस कम्पाउण्ड, किसान मोहल्ला, गोयला अजमेरा का मकान, थावर सिंह छलाजी का मकान।	<p>1. उत्तर — गॅंधी चौक मानपुर से उण्डवा चौराहा।</p> <p>2. पूर्व — उण्डवा चौराहा।</p> <p>3. दक्षिण — कल्पाण राजपूत के मकान से होते हुए अनुपम स्टोर से होते हुए जगदीश तेली के मकान तक एवं सम्पूर्ण फारेस्ट कम्पाउण्ड व पोर्ट ऑफिस कम्पाउण्ड।</p> <p>4. पश्चिम — औंकारलाल बद्रीलाल मकान से रणजीत के मकान तक।</p>
15	विनोबा भावे वार्ड	लक्ष्मी वेयर हाउस, पशु चिकित्सालय, उण्डवा रोड ए.बी. रोड का पूर्वी भाग, रमेश शर्मा का मकान, मूलचन्द्र जाट का मकान।	<p>1. उत्तर — सारडा बैअर हाउस।</p> <p>2. पूर्व — उण्डवा की पुलिया।</p> <p>3. दक्षिण — पशु चिकित्सालय से होते हुए उण्डवा गार्डन तक।</p> <p>4. पश्चिम — ए.बी. रोड से मूलचन्द्र जाट के मकान तक।</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर,

Manpur Dated 06.05. 2014

No. 65 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intension to include the following discription of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Manpur as shown below:-

**Schedule**

Ward No. (1)	Name of the ward (2)
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Dr. Ambedkar Ward
3	Jawaharlal Nehru Ward
4	Lal Bahadur Shastri Ward
5	Hari Hareshwar Mahadev Ward
6	Rajiv Gandhi Ward
7	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
8	Jay Prakash Ward
9	Dr. Radhakrishnan Ward
10	Man Singh Ward
11	Shahid Bhagat Singh Ward
12	Dr. Rajendra Prasad Ward
13	Indira Gandhi Ward
14	Subhash Chandra Bose Ward
15	Vinoba Bhavé Ward

## Four Dimensional Extents of wards are as follows

Ward no.	Name of Ward	Description of Ward, Arla No. Street etc.	Description of Boundary
01	Mahatma Gandhi Ward	A.B. Road, Tamboli Mohalla, Serpur Road and Moriya Shed, Abdul Lal House.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Passing through open agriculture land to parsal brize.</li> <li>2. East – From A.B. Road Abdul Razak to forest Naka.</li> <li>3. South – From forest naka to Babu Gawli Farm.</li> <li>4. West – From farm of Babu Gawli to open agriculture land.</li> </ol>
02	Dr. Ambedkar Ward	Serpur Road, Babulal Bhibha je ke makan to Isaq babu makan, A.B. police station, M.P. Post office.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – From Babulal Bemji Bhimjee house serpur road to house of Ishak Babu.</li> <li>2. East – From A.B. Road Police thana to way of Kherda.</li> <li>3. South – Open agriculture land.</li> <li>4. West – From Govt. Dak bangla Balaram Dev Singh house to Gridhar patidar house open agriucture land.</li> </ol>
03	Jawaharlal Nahru Ward	Bohra Samaj, Kabristhan, ITI, Police Line, Awash Yojna, Khel Ground, Sitla Gali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – From Duadi Bhora Jamad House to Open Agriculture Land A.B. Road.</li> <li>2. East – From House of Sitagali, Duadi Bhora Jamad Passingss Kata Bai Ram Krishna House.</li> <li>3. South – Bhili Paltan Road Suresh Sharma Houses to Amarnath House and or are police line and passign ITI Pannalal house and to kalish Gunawat House and Anpura Mandir Chora.</li> <li>4. West – A.B. Road</li> </ol>
04	Lal Bhadur Shastri Ward	Ankur School, Teachers Colony, Sonaria Kuwa, A.B. Road	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – In Awash Yogn, Ankur School Sampern Area all the Cast all Teacher Colony.</li> <li>2. East – All the teachers colony.</li> <li>3. South - Sonareya Well.</li> <li>4. West – A.B. Road and open agriculture land.</li> </ol>
05	Hari Hareshwar Ward	Sankar Mandir, Annapurpa Road, Unique Schook, Jagdish – Nathu Singh ka makan, Ganpati Mandir, Govt. P.S. Manpur, Govt. High School	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Boundary Ward. No. 09.</li> <li>2. East – From Shankar Temple to Tulshi Ram Yadav House.</li> <li>3. South – From Anpurna Road Girga Singh House to Unique School.</li> <li>4. West – Geeta Bhawan Road and Nala.</li> </ol>
06	Rajeev Gandhi Ward	Busfore Mohalla, Rajak Beli ka Makan, Surja Bai – Radeshyam ka Makan, Gulabmore Singh ka makan, Ward 05 ka Sima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – From Busfore Mohalla Rajan Delhi House to Govind Ram East Scoutt Bawan.</li> <li>2. East – From Busfore Mohalla Kishna House to Suraj Bai Radheshyam House.</li> <li>3. South – From Busfore Mohalla Gulab ----- Singh house to Parween Tamba House.</li> <li>4. West – Boundary of Ward. No. 05.</li> </ol>

07	Sardar Wallabh Patel Ward	M.P. filter Plant, Sampurn Gawallpura, Sltla Mata Road, Navodaya Vldhalya Parlsar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Navodaya Road and Navodaya Talab.</li> <li>2. East – Navodaya Vidhalya and Ashapuri Temple.</li> <li>3. South – Treaching Ground.</li> <li>4. West – Navodaya Road to ramsingh Jat House.</li> </ol>
08	Jay Prakash Ward	Ashapura Road, Kalidash Marg, Imali Road, Kalali Gali, Nichala Bazar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Digamabar dadnak house to Mishrlal Chogalai house to basir Mohammed house chabutra chowk.</li> <li>2. East – Open Agricultrue Land.</li> <li>3. South – House of Ashok Jaismal to ashapuri road, Navodaya Talab.</li> <li>4. West – Sudhar Bajar.</li> </ol>
09	Dr. Radha Krishan Ward	Chabutra Chowk, Churaja Chatrawash, Nichla Bazar, Anwar ka makan, Sawdhan Solanki ka Makan, Ward No. 03 ki Sima, Janil Ahmad ka Makan, Narendhra Nathulal ka Makan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Chabutra Chowk to Hospital Road and Chatrawas.</li> <li>2. East – Sadar Bazar anwar House to Jain Mandir to Nichla bazar sadwan singh house.</li> <li>3. South – Lower market jamel ahmed house to house of narendra nathulal.</li> <li>4. West – Sita Gali ward No. 3 boundary.</li> </ol>
10	Man singh Ward	Ward No. 11 ke sima, khurdi Road, Ward No. 09 ke sima, tayyab ali ka makan, devi singh ka makan, New basti area.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Boundary of ward No. 11.</li> <li>2. East – Kurdi Road shabir house to harizan mohalla hemibai kumar house.</li> <li>3. South – Boundary of ward. No. 03.</li> <li>4. West – A.B. Road.</li> </ol>
11	Sahid Baghat Ward	Kishan Mohalla, Ramsingh ka makan, sadar market, hospital marg, juni school.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Kishn Mohalla Laxman Ram singh houses to ramesh narsingh house samapurn kumar mohalla and gajanand chouhan house to agrawal advocate house.</li> <li>2. East – Passing from sadar bazar anil mandoli houe to manhor muni house and sankar ustad house to satish parajapati house.</li> <li>3. South – Hospital Road sidatt pal house to Jagdish solanki house and dayaram house.</li> <li>4. West – Passing from badhari lal verma house to ratan lal driver house.</li> </ol>
12	Rajendra prashad ward	Ward. No. 13 ke Sima, imali road, kalidash marg. Sadar market, chabutra chowk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Boundary of Ward No. 13.</li> <li>2. East – From Emli Road kailash mama house to harishankar birthre house.</li> <li>3. South – Kalidad Road susila bai ram narayan radhav house to laxmi narayan batiya and all the sunnylal.</li> <li>4. West – Sadar bajar banshi sath house to chaturba choraha kalish chandra ramesh chandra rathore house.</li> </ol>
13	Indra Gandhi Ward	Imali Road, Londhiya Mohalla, Imali Road, Sunadhyा Mohalla, Sadar Market.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North – Jagdish Aujaha to house of Patel Sir and Triveni.</li> <li>2. East – Open Agriculture Land.</li> <li>3. South – Bansi Seth Singh Choudhary House to all the Rajoriya gali.</li> <li>4. West – Sadar Bazar Baldev guru house to suki bai soni houses.</li> </ol>

14	Subhash chandra Bose Ward	Gandhl Chowk, Sadar Market, Onkarlal Badrillal ka makan, Anupam Store, Post Office Compound, Kishan Mohalla, Gopal Ajmera ka Makan, Thawar Singh, Challa Jee Makan.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>North</b> – Gandhi chouk Manpur to Undwa Chouraha.</li> <li><b>East</b> – Undwa Chouraha.</li> <li><b>South</b> – Kalyan Rajput house to annupam Store to Jagdish Tali house and the forest compound and post office compound.</li> <li><b>West</b> – From House of Onkarlal to House of Ranjeet.</li> </ol>
15	Binova Bawav Ward	Laxmi Wear House, Animal Hosptal, Undwa Road, A.B. Road ka East part, Ramesh sharma ka makan, mulchand jat ka makan.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>North</b> – Sarda were house.</li> <li><b>East</b> – Puliya of Undwa.</li> <li><b>South</b> – Animal Dispensary to Undwa Garden.</li> <li><b>West</b> – A.B. Road to Mulchand Jat House.</li> </ol>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**AKASH TRIPATHI**, Collector.

राज, दिनांक 06.05. 2014

क्र. 66 –लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014– मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद राज के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करती है: –

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1	कोल्हू वार्ड
2	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	रैदास वार्ड
4	श्रमिक वार्ड
5	नेहरू वार्ड
6	वाल्मीकी वार्ड
7	मौलाना आजाद वार्ड
8	इंदिरा गांधी वार्ड
9	महात्मा गांधी वार्ड
10	भगतसिंह वार्ड
11	शास्त्री वार्ड
12	नानक वार्ड
13	संजय गांधी वार्ड
14	राजीव गांधी वार्ड
15	सराय वार्ड

## वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	वार्डों का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थ सीमा
01	कोल्हू वार्ड	कोल्हू वार्ड मकान नम्बर 1 से 115 तक, गुजरात सेरी म.नं. 116 से 173 तक, बड़ा बाजार म.नं. 1 से 58 तक, पटेल सेरी 130 से 146 तक मानकर मोहल्ला हनुमान छोक 145 से 214 तक	1. पूर्व में – वार्ड कं. 2 2. पश्चिम में – नाला पश्चात वार्ड कं. 08 3. उत्तर में – वार्ड कं. 02 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 08
02	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	ए.बी. रोड नई बस्ती गणेशी बाई म.नं. 52 से 158 / 03 तक, बलाई मोहल्ला 01 से 116 तक, चमार मोहल्ला म.नं. 81 से 128 तक, बाड़ी मोहल्ला म.नं. 12 से 179 तक, सौई सागर म.नं. 09 से 71 तक	1. पूर्व में – ए.बी. रोड बाद वार्ड कं. 08 2. पश्चिम में – वार्ड कं. 01 में व वार्ड कं. 08 का भाग ब्रजविहार कॉलोनी। 3. उत्तर में – वार्ड कं. 03 सौईसागर एवं बाड़ी मोहल्ला 4. दक्षिण में – पाटीदार धर्मशाला वार्ड कं. 07 मुसलमान मोहल्ला
03	रैदास वार्ड	संस्कृति रायल पार्क, कनूप्रिया नगर म.नं. 07 से 162 तक, हसन जी नगर म.नं. 01 से 156 तक, पाल झुग्गी झोपड़ी समरत झोपड़ी, रायल कृष्णा म.नं. 01 से 158 तक, कनूप्रिया नगर गेट से नेमा अर्नस्ट फैक्ट्री के सामने तक एवं आकाशवाणी, म.नं. 01 से 158 तक झूलेलाल नगर म.न. 01 से 168 तक	1. पूर्व में – वार्ड कं. 04 एवं वार्ड कं. 05 2. पश्चिम में – वार्ड कं. 02, वार्ड कं. 08 3. उत्तर में – राज नगर की राजस्व सीमा 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 02 नई बस्ती एवं हरिजन मोहल्ला
04	श्रमिक वार्ड	श्रमिक कॉलोनी अन्नपूर्णा मार्बल के म.नं. 1 से हकीम के म.नं. 60 तक, श्रमिक कॉलोनी में म.नं. 61 से जगन्नाथ कॉलोनी से छोटेलाल पांचाल म.नं. 124 तक, श्रमिक कॉलोनी राधेश्याम मालवीय के म.नं. 125 से भारतसिंह छोहान के मकान 200 तक श्रमिक कॉलोनी में सुरेश पांचाल के म.नं. 201 से पानी की टंकी 244 तक ए.बी. रोड झुग्गी बस स्टाप के पास म.नं. 245 से 261 तक	1. पूर्व में – वार्ड कं. 05 रमापति विहार कॉलोनी 2. पश्चिम में – ए.बी. रोड बाद वार्ड क्रमांक 03 कनूप्रिया नगर 3. उत्तर में – आकाशवाणी केन्द्र वार्ड कं. 03 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 05 एम.पी.ई.बी. ग्रिड
05	नेहरू वार्ड	रमापति विहार के म.नं. 1 सीमा चन्द्रेश के मकान से म.नं. 84 मुकेश सोमानी के मकान तक, पटेल कॉलोनी के म.नं. 85 महेन्द्र यादव के मकान से म.नं. 166 जीवन ज्योति पूर्व कॉलेज तक नेहरू नगर म.नं. 167 कैलाश वर्मा से म.नं. 196 राजेश राम किशन के मकान तक नेहरू नगर तेजूबाई घनश्याम पटेल के मकान 197 से जगदीश अच्चाराम के मकान नं. 330 तक (पेट्रोल पम्प ए.बी. रोड बायपास एवं पहाड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिया के बाद से नेहरू नगर म.नं. 331 से 416 तक	1. पूर्व में – पहाड़ी बाद ग्राम माचला की सीमा 2. पश्चिम में – वार्ड कं. 4 श्रमिक कॉलोनी एवं वार्ड कं. 03 शमशान घाट 3. उत्तर में – वार्ड कं. 03 का भाग एवं ग्राम निहालपुर मुंडी की सीमा 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 06 नर्मदा रोड

06	वालिमधी रोड	ग्रीष्म एरिया बाबूलाल गणपत के म.नं. 1 से हरीकृपा होते हुए ए.बी. रोड़ झुग्गी झोपड़ी हरदमलाला चौक अत्यावंसायी की बुकाने म.नं. 87 तक। कमल नगर रोड़ के मकान नं. 88 राकेश जैन के मकान से नर्मदा रोड़ मकान नं. 131 रहीम भाई के मकान तक अग्रवाल कॉलोनी म.नं. 132 एवं मुल्तानी कॉलोनी म.नं. 230 तक कमल नगर झुग्गी झोपड़ी म.नं. 231 रामबाई राजाराम 309 तक कमल नगर म.नं. 310 से देवराम सलावत से 371 तक	1. पूर्व में – ए.बी. रोड़ बायपास बाद ग्राम मांचला की राजस्व सीमा 2. पश्चिम में – वार्ड कं. 2 व 3 की सीमा 3. उत्तर में – वार्ड कं. 5 की सीमा 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 07 की सीमा
07	मौलाना आजाद वार्ड	नर्मदा रोड़ श्रद्धा टायर्स के म.नं. 372 से नंदविहार, नर्मदा रोड़ के म.नं. 458 मोतीसिंह पटेल के मकान तक नगर परिषद् (पंचायत) के सामने दुकानों के म.नं. 01 से सायराबी के म.नं. 84 तक, म.नं. 85 लेखराज पूनमचन्द्र के म.नं. 148 जयश्री कलकी के मकान तक म.नं. 196 चन्द्र इले से म.नं. 277 गुरुकृपा कॉलोनी तक	1. पूर्व में – वार्ड कं. 06 के बाद ए.बी. रोड़ बायपास राऊ राजस्व सीमा तक 2. पश्चिम में – वार्ड कं. 08 एवं 09 की सीमा 3. उत्तर में – वार्ड कं. 02 की सीमा 4. दक्षिण में – वार्ड 10 एवं 11
08	इंदिरा गांधी वार्ड	बड़ा बाजार शंकर मंदिर के सामने म.नं. 01 से शंकर मंदिर म.नं. 72 तक सीतलामाता मंदिर इमली बाजार मन. 73 से इमली बाजार के म.नं. 153 कमल चौधरी के मकान तक गुलाब विहार कॉलोनी के म.नं. 01 शंकरलाल परमार से ब्रजविहार के म.नं. 257 शिव कुमार सिंह के मकान तक ब्रज विहार कॉलोनी के म.नं. 257 शिव कुमार सिंह के मकान तक ब्रज विहार कॉलोनी के म.नं. 258 सुखराम वर्मा के म.नं. 345 तक	1. पूर्व में – वार्ड कं. 1, 2, 3 2. पश्चिम में – रेल्वे लाईन बाद वार्ड कं. 13, 14 3. उत्तर में – राऊ की आखरी राजस्व सीमा 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 09 बागरी मोहल्ला
09	महात्मा गांधी वार्ड	बागरी मोहल्ला के म.नं. 01 प्रकाश सिद्धनाथ से म.नं. 50 शिवजी के मकान तक नयापुरा के म.नं. 51 बंशीलाल के मकान से म.नं. 121 तक नयापुरा म.नं. 122 से संतोष के म.नं. 171 कैलाश पाटीदार तक नयापुरा म.नं. 172 हुकुमचन्द्र मंडले से म.नं. 225 रामेश्वर डिंगू के मकान तक ए.बी. रोड़ अनिल आर्य से कैलाश मकवानी के मान 124 तक और कैशव पाटीदार के मकान से लीलाधर टोके के मकान तक एवं विनोद पाटीदार के मकान तक एवं शा.ओषधालय से अनूप बेकरी से ओम खली वाले के मकान तक।	1. पूर्व में – वार्ड कं. 07 2. पश्चिम में – वार्ड कं. 12 3. उत्तर में – वार्ड नं. 7 एवं 8 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 10
10	भगतसिंह वार्ड	स्टेशन रोड़ कन्हैयालाल डिंगू के म.नं. 01 से म.नं. 75 ललीता बाई के मकान तक स्टेशन रोड़ म.नं. 76 से रमेश सौलंकी के म.नं. 93 तक व स्टेशन रोड़ गीताबाई हरने के म.नं. 94 से मकान नं. 123 बोंदीबाई सोनी के मकान तक म.नं. 182 गोवर्धन पाटीदार से साईकृपा कॉलोनी के म.नं. 224 तक साईं कृपा कॉलोनी म.नं. 225 से सत्यसाईं कॉलोनी के म.नं. 298 तक	1. पूर्व में – वार्ड कं. 09 का भाग नयापुरा 2. पश्चिम में – वार्ड नं. 12 मंडले कॉलोनी 3. उत्तर में – वार्ड कं. 09 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 11
11	शास्त्री वार्ड	दुर्गा कॉलोनी म.नं. 01 मनोहर सेन का नया मकान से दिलीप कोठारी के म.नं. 124 तक सहकारी संस्था के सामने झोपड़ी म.नं. 125 से शिव विहार साईं विहार के म.नं. 270 विजय सोमात्रे अवनि प्लाजा के पीछे साईं विहार	1. पूर्व में – वार्ड 06 की सीमा एवं राजस्व सीमा तक 2. पश्चिम में – वार्ड नं. 12, 15 3. उत्तर में – वार्ड नं. 10 4. दक्षिण में – वार्ड कं. 12

		साहिब / जाहिद के म.नं. 271 से कान्चेट रुकूल होते हुए ए.बी. रोड़ के एवं चन्दलोक, साईर्धाम म.नं. 404 तक, मामाजी के ढाबे के पीछे, भवानी केम्पस, साईं शक्ति, गायत्री, श्रीकृष्ण पेराडाईज, मॉ पदमावती राज तालाब की राजस्व सीमा, किसान कोल्ड स्टोरेज, झूमर तालाब की राजस्व सीमा, किसान कोल्ड स्टोरेज, झूमर घाट की सीमा तक	
12	नानक वार्ड	चन्दलोक कॉलोनी, अमर केम्पस, एवं साईं धाम त्रिया मोटर्स, स्टेशन चौक संजय चौरसिया के म.नं. 01 से रेल्वे कर्वाटर एवं रंगवासा रोड़ के म.नं. 65 से रेल्वे फाटक तक फिर डॉ चौहान के म.नं. 176 से स्टेशन के सामने तक करनावद के म.नं. 207 तक रंगवासा रोड़ श्री माखन चौधरी, मंडले कॉलोनी के म.नं. 66 से अभय पाटीदार की दुकान म.नं. 175 तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में – ए.बी. रोड़ एवं वार्ड कं 09, 10, 11 की सीमा</li> <li>पश्चिम में – रेल्वे लाईन</li> <li>उत्तर में – वार्ड नं. 08 नाला बाद</li> <li>दक्षिण में – वार्ड कं. 15 की सीमा</li> </ol>
13	संजय गांधी वार्ड	राज रंगवासा रोड़ रेल्वे फाटक के पास रमेश चौधरी के मार्केट, म.नं. 01 गणेश विहार केट रोड़, एल.जी. एकेडमी वापसी संजना कोल्ड स्टोरेज म.नं. 97 तक संजय नगर के मदनलाला चौहान के म.नं. 98 से संजय नगर के म.नं. 189 रमेश के मकान तक संजय नगर के बंजरसिंह के म.नं. 190 से संजय नगर के म.नं. 280 गवानाथ के मकान तक औद्योगिक क्षेत्र पाऊच फैक्ट्री म.नं. 281 से म.नं. 357 महेश गोविन्द के मकान तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में – वार्ड कं 08</li> <li>पश्चिम में – ग्राम रंगवासा की राजस्व सीमा</li> <li>उत्तर में – ग्राम सुखनिवास की राजस्व सीमा</li> <li>दक्षिण में – वार्ड कं 0 14</li> </ol>
14	राजीव गांधी वार्ड	म.नं. 358 बोहरा कॉलोनी जगदीश के मकान से 344 आंगनवाड़ी एवं बोहरा कॉलोनी के म.नं. 401 तक व मस्जिद के साईट की झोपड़ी 402 से 459 तक गुरुकूल कॉलोनी म.नं. 01 नीला श्रीवास्तव से म.नं. 67 देवीसिंह चौहान के मकान तक गुरुकूल कॉलोनी के म.नं. 68 से रंगवासा रोड़ गुरुकूल स्कूल की उत्तर साईट की बिल्डिंग म.नं. 135 तक औद्योगिक क्षेत्र म.नं. 136 स्पील इण्डस्ट्रीज से नितिन साईं भीड़स पिथमपुर रोड़ के म.नं. 206 तक रेल्वे फाटक रोड बाद पिथमपुर रोड आर्दश इंजि. म.नं. 297 तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में – रेल्वे लाईन</li> <li>पश्चिम में – ग्राम रंगवासा की राजस्व सीमा</li> <li>उत्तर में – वार्ड कं. 13 बोहरा कॉलोनी</li> <li>दक्षिण में – ग्राम रंगवासा एवं ग्राम पिगड़म्बर की राजस्व सीमा</li> </ol>
15	सराय वार्ड	रेल्वे स्टेशन के सामने विलास गोरे के माकन नं. 01 से राम रहीम कॉलोनी के म.नं. 72 रुपाली कोस्थाने के मकान तक रामरहीम कॉलोनी में म.नं. 73 गिरिश कुमार के मकान से म.नं. 130 मिनाक्षी के मकान तक राम रहीम कॉलोनी में म.नं. 131 एस.डी. ब्रह्मबंशी के मकान से म.नं. 204 चाय की दुकान तक रामरहीम कॉलोनी में म.नं. 0 205 सुन्दरलाल के मकान से म.नं. 271 बाबूलाल अकोले के मकान तक राम रहीम कॉलोनी के म.नं. 272 टीटी बोस से 351 तक अशोक विहार कॉलोनी के म.नं. 410 तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>पूर्व में – ए.बी. रोड़, वार्ड कं. 06</li> <li>पश्चिम में – रेल्वे लाईन, बाद वार्ड कं. 14</li> <li>उत्तर में – वार्ड कं. 12 की सीमा</li> <li>दक्षिण में – ग्राम पिगड़म्बर की राजस्व सीमा</li> </ol>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर

Rau Dated 06.05. 2014

No. 66 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intension to include the following discription of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Rau as shown below:–

### Schedule

Ward No. (1)	Name of the ward (2)
1	Kolu Ward
2	Dr. Ambedkar Ward
3	Raidas Ward
4	Sharmik Ward
5	Nehru Ward
6	Valmiki Ward
7	Molana Azad Ward
8	Indra Gandhi Ward
9	Mahatma Gandhi Ward
10	Bhagat Singh Ward
11	Shastri Ward
12	Nanak Ward
13	Sanjay Gandhi Ward
14	Rajeev Gandhi Ward
15	Saray Ward

## Four Dimensional Extents of wards are as follows

Ward no.	Name of Ward	Description of Ward, Arla No. Street etc.	Description of Boundary
01	Kolu Ward	Kolu Ward from the house No. 01 to 115, Gujrat Sarl House No. 116 to 173, Bada Bajar H.No. 01 to 58, Patel Sarl H.No. 130 to 146, and Mankar Mohalla Hanuman Chouka H.No. 145 to 214.	1. East -- Ward No. 02. 2. West -- After Nala Ward No. 08. 3. North -- Ward No. 02. 4. South -- Ward No. 08.
02	Dr. Ambedkar Ward	A.B. Road Nal Basti from H/o Ganesh Bal H.N. 52 to 158/3, Balai Mohalla H.N. 01 to 116, Chamar Mohalla H.No. 81 to 128, Badli Mohalla H.No. 12 to 179, Sal Sagar H.No. 09 to 71	1. East -- After A.B. Road Ward No. 08. 2. West -- Part of Ward No. 01 & Ward No. 08 Brij Bihari Colony. 3. North -- Ward No. 03 sal Sagar Badi Mohalla. 4. South -- Ward No. 07 Mausaman Mohalla.
03	Raidas Ward	Sanskriti Royal Park, Kanupriya nagar from H.No. 07 to 162, Hasanji nagar H.No. 01 to 156, Pal Jhuggi Jhopadi all area, Royal Kirshana Colony, H.No. 01 to 158, from Kanupriya nagar Gate to opp. Nema House Ernest factory and up to Akashwani Center H.No. 01 to 158, and Jhulelal nagar H.No. 01 to 168.	1. East -- Ward No. 04 & Ward No. 5. 2. West -- Ward No. 02 & Ward No. 08. 3. North -- Revenue Boundary of Rau Town. 4. South -- Ward No. 02 New Basti & harijan Mohalla.
04	Sharmik Ward	Sharmik Colony Annpurna Marbal H.No. 01 to h/o hakim H.No. 60, at Sharmik Colony from H.No. 61 to Jagannatha Colony H.No. Chhotelal panchal H.No. 124, Sharmik Colony from h/o Radhashyam Malviya H.No. 125 to h/o Bhartsingh Chouhan H.No. 200, Shrimik Colony from h/o Suresh Panchal H.No. 201 to water tank h.no. 244, Near from A.B. Road Jhuggi Bus Stop H.No. 245 to 261.	1. East -- Ward No. 05 Ramapati bihar Colony. 2. West -- After A.B. Road Ward No. 03 Kanupriya Nagar. 3. North -- Ward No. 03 Aakashwani Center. 4. South -- Ward No. 05 MPEB gird.
05	Nehru Ward	From Ramapati Bihar Colony H.No. 01 Seema Chanders to 844 Mukesh Somani, Patel Colony from H.No. 85 Mahander Yadav H.No. 166, Jivan Jyoti College, Nehru Nagar H.No. 167 Kaliesh verma to H.No. 196 Rajesh Ram Kishan, Nehru Nagar from h/o tejubal ghanshyam Patel H.No. 197 to Jagdhish Aambaram H.No. 330, Petrol Pump A.B. Road Bypass and Hill Housing Board Colony, upto puliya to Nehru Nagar H.No. 331 to 416.	1. East -- After Hills Village Machal Boundary. 2. West -- Ward No. 04 Shrmik Colony & Ward No. 03 Shamshan Ghat. 3. North -- Part of Ward No. 03 and Bounder of Village Neehal pur mundi. 4. South -- Ward No. 06 Narmad Road.
06	Valmiki Ward	After greed from h/o babulal ganapat H.No. 01 to Hari kripa Colony A.B. Jhuggi jhipadi Hardam Lal Chouk Aantavyasi Shop H.No. 87, Kamal Nagar Road from H.No. 88 Rakesh Jain to Narmad Road H.No. 131, H/o Rahim Bhai, Agrawal Colony from H.No. 132 and Multani Colony H.No. 230, Kamal Nagar Jhuggi Jhopadi H.No. 231 to Ramu Bai Rajaram H.No. 309 and kamal Nagar H.No. 310 to h/o Davram Salwat H.No. 37.	1. East -- After A.B. Road Revenue Bypass Boundary of Village Machal and Village Harsola's 2. West -- Ward No. 02 & Ward No. 03. 3. North -- Ward No. 05. 4. South -- Ward No. 07.
07	Molana Azad Ward	Narmad Road Shradhha Tayars H.No. 372 to Nand Vihar, Narmad Road H.No. 458 Mothi Singh Patel, Infront of Nagar Parishad Shops H.No. 01 to Sayra bee H.No. 84, H.No. 85 Lekh raj Punam chand H.No. 148 Upto jai Shri Kalki H.No. 196 chander Ele. H.No. 277 to Gurukripa Colony.	1. East -- Ward No. 06 & upto A.B. Road Bypass Rau's last Revenue Boundary. 2. West -- Ward No. 08 & Ward No. 09. 3. North -- Ward No. 02. 4. South -- Ward No. 10 & 11.
08	Indira Gandhi Ward	Bada Bazar Infront Shankar mandir H.No. 01 to H.No. 72, Shitalamata Mandir imli bazar H.No. 73 to 153 of H/o kami choudhary, gulab vihar colony H.No. 01 Shakar Lal Parmar to Brij Vihar H.No. 257 Shiv Kumar Singh, Brij Vihar Colony from H.No. 258 to Sikhamaram Verma H.No. 345	1. East -- Ward No. 1, 2, 3. 2. West -- After Railway Line Ward No. 13, 14. 3. North -- Rau's last Revenue Boundary. 4. South -- Ward No. 09 Bagri Mohalla.

09	Mahatma Gandhi Ward	Bargi Mohalla H.No. 0 to parkesh sid nath to H.No. 50 H/o Shlv JI nayapura. H.No. 51 bansi lal to H.No. 171, upto kallesh patidar nayapura H.No. 172 humkam chandra mandle to H.No. 225 rameshver dingu, a.b. Road anll aarya H.NO. 01 kallesh makvlni H.No. 124, from keshav patidar to H/o leela dhar toke and upto vinod patidar H.No. Govt. Hospital to anupa bakri to H/o Om Khall House.	1. East – Ward No. 07. 2. West – Ward No. 12. 3. North – Ward No. 07 & Ward No. 08. 4. South – Ward No. 10.
10	Bhagat Singh Ward	Station Road from Kanhlhya Lal Dingu H.No. 01 to 75, H/o Lalita bal Station Road H.No. 76 to Ramesh Solanki H.No. 93, Station Road Geeta Bal Harny H.No. 94 to H.No. 123 of Bondi bal Soni, H/o Goverdhan patidar to sal krpa Colony H.No. 224, sal krpa Colony, H.No. 225 to saty sal colony H.No. 298,	1. East – Part of Ward No. 09 Naypura. 2. West – Ward No. 12 Mandle Colony. 3. North – Ward No. 09. 4. South – Ward No. 11.
11	Shastri Ward	Durga Colony H.No. 01 to Manhor sen to Dilip Kothari H.No. 124, infortn shkari sansta, Jhopadi H.No. 125 to shlv vihar, Sai vihar H.No. 270, back off Vijay Somatery Avnl Plaza, Sal Vihar H/o Zahid H.No. 271 to Convent School A.B. Road, Chander Lok Colony, Sai Dharm Upto H.No. 404, Back of Mama Dhaba, Bhawani campas, sal shakti, gayatri, Shree Kirshan paradise, Maa Padmawati Rau, Talab ki Revenue Boundary, Kirshan Cold Storage and upto Jhoomer Ghat Revenue Boundary.	1. East – Revenue Boundary of Ward No. 06. 2. West – Ward No. 12 & 15. 3. North – Ward No. 10. 4. South – Ward No. 12.
12	Nanak Ward	Chandar Lock Colony, Aman Campas, Sai Dham, Triya Moter, Station Chouk, from H/o Sajay Chourlsiya to Railway Quarter and Rangwas Road from H.No. 65 to Railway Gat and Dr. Chouhan H.No. 176 to House of karnvad H.No. 207, Rangwasa Road from H.No. shri makhan choudhary mandle colony H.No. 66 to H/o Abay patidar H.No. 175.	1. East – A.B. Road & Ward No. 9, 10 & 11. 2. West – Railway Line. 3. North – After Nala Ward No. 08. 4. South – Ward No. 15.
13	Sanjay Gandhi Ward	Near Rau Rangwasa Railway Gate from S/o Ramesh Choudhary to Ganesh Vihar Colony, cat Road, L.G. Academy Cat Road upto Sanjan Cold Storage H.No. 97, Sanjay Nagar Madn Lal Chouhan H.No. 98 to H.No. 189 H/o Ramesh, sanjay Nagar Banjar Singh H.No. 190 to H.No. 280, and upto H/o Gavanath including induitrial Area. Pouch Factory H.No. 281 to 357 Mahesh Govind House.	1. East – Ward No. 08. 2. West – Revenue Boundary of Village Rangwasa. 3. North – Revenue Boundary of Village Sukhnwas. 4. South – Ward No. 14.
14	Rajeev Gandhi Ward	Bohara Colony H.No. 344 to 358 and upto aganwadi Bohara Colony, H.No. 401 and beside Masjid jhopadi No. 402 to 459 Gurukul Colony H.No. 01 Neela Shrivastava to H.No. 67 Davi Singh Chouhan and Gurukul Colony, 68 to Rangwasa Road, and upto Gurukul School Building H.No. 135, induitrial Area H.No. 136 Speel Indistries to nitian sai seeds, upto Pitampur Road H.No. 206 Railway Line Ram Vilesh H.No. 207 to Ram Rahim Colony gate after IIM Road to Adarsh Eng. H.No. 297.	1. East – Railway Line. 2. West – Revenue Boundary of Village Rangwasa. 3. North – Ward No. 13 Bohara Colony. 4. South – Revenue Boundary of Village Rangwasa and pigdamber.
15	Saray Ward	Infortn of Railway Station from H.No. 01 Vilash Gore to Ram Rahim Colony, H.No. 72, upto Rupali Koshane Ram Rahim Colony H.No. 73 Giresh Kumar H.No. 130, upto Minakshi Ram Rahim Colony H.No. 131 S.D. Brahmansi to H.No. 204 Ram Rahim Colony H.No. 205 Sunder lal to H.No. 271, Babulal Akole and H.No. 272 TT Boss to H.No. 351 and Ashok Vihar Colony, Total upto House No. 410.	1. East – After A.B. Road Ward No. 06. 2. West – After Railway line Ward No. 14. 3. North – Ward No. 12. 4. South – Revenue Boundary of Village Pigdamber.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

## देपालपुर, दिनांक 06.05.2014

क्र. 67 —लो.बॉ./वार्डपरिसीमन/2014— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शवितयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् देपालपुर के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतदद्वारा अवधारित करती है: —

### अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1	सरदार पटेल वार्ड
2	राम मनोहर लोहिया वार्ड
3	भागीरथ वार्ड
4	गणेश वार्ड
5	मंगलेश्वर वार्ड
6	रविदास वार्ड
7	राजीव गांधी वार्ड
8	फिरोज गांधी वार्ड
9	नेहरू वार्ड
10	मोतीलाल वार्ड
11	इंदिरा वार्ड
12	महात्मा गांधी वार्ड
13	किंदवई वार्ड
14	आजाद वार्ड
15	शिवाजी वार्ड

### वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्ड में आने वाले क्षेत्र का विवरण	चतुर्थ सीमा
01	02	03	04
01	सरदार पटेल मार्ग	<p>रमेश पटेल के मकान से होते हुवे गल की बावड़ी से चैनसिंह चौधरी, लक्ष्मण चौधरी के मकान तक</p> <p>मानसिंग के मकान से होते हुवे सीतला माता मंदिर गली से देवीसिंग के मकान तक।</p> <p>हायर सेकण्डरी स्कूल से गौतमपुरा नाका होते हुवे राजेश राठोर के मकान तक।</p> <p>खाराकुआ तामलपुर रोड से छप्पन बावड़ी शिव के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तरः— गल की बावड़ी , गौतमपुरा रोड।</li> <li>दक्षिणः— शीतला माता मंदिर, वार्ड क्रमांक 02 की सीमा।</li> <li>पूर्वः— हायर सेकण्डरी स्कूल, पानी की टंकी।</li> <li>पश्चिमः— खारा कुआ, कृषि भूमि।</li> </ol>
02	राम मनोहर लोहिया वार्ड	<p>मुजुबुद्धीन के मकान से सीतला माता मंदिर होते हुवे भागुबाई के मकान तक।</p> <p>कालु के मकान से मस्जिद होते हुवे राम मंदिर तक।</p> <p>राधाकृष्ण मंदिर से डॉ अकलाख के मकान से होते हुवे कांतीलाल जैन (हेमु) के मकान होते हुवे राधाकृष्ण राम मंदिर तक।</p> <p>भागुबाई के मकान से कमल के मकान होते हुवे खटवाड़ी रोड होते हुवे भेरुमहाराज मंदिर से ठाकुर चौक भेरुजी ओटले तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तरः— शीतला माता मंदिर ,वार्ड क्रमांक 01 सीमा।</li> <li>दक्षिणः— मस्जिद ,वार्ड क्रमांक 15 की सीमा।</li> <li>पूर्वः— राममंदिर ,राधाकृष्ण मंदिर।</li> <li>पश्चिमः— खटवाड़ी रोड ,कृषि भूमि।</li> </ol>
03	भारीरथ वार्ड	<p>प्रविण मोदी के मकान से गौतमपुरा रोड होते हुवे शरीफ भाई के मकान तक।</p> <p>सलाम सब्जी वाले के मकान से श्याम जायसवाल के मकान तक।</p> <p>श्याम जायसवाल के मकान से मंगलेश्वर मंदिर होते हुवे प्रविण जैन के मकान तक।</p> <p>शरीफ के मकान से पानी की टंकी होते हुवे डॉ.यावर अली के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तरः— गौतमपुरा रोड ,वार्ड 04 की सीमा।</li> <li>दक्षिणः— गणेश मार्ग वार्ड क्रमांक 14 की सीमा।</li> <li>पूर्वः— मंगलेश्वर मंदिर, वार्ड क्रमांक 05 की सीमा।</li> <li>पश्चिमः— पानी की टंकी हायर सेकण्डरी स्कूल</li> </ol>
04	गणेश वार्ड	<p>गौतमपुरा रोड से हनुमान मंदिर होते हुवे कर्बला मार्ग शोभाराम के मकान तक।</p> <p>डॉ अकलाख के मकान से बंसतीलाल के मकान होते हुवे गणपति मंदिर के सामने तक।</p> <p>मंगलेश्वर मंदिर से शोभाराम के मकान तक।</p> <p>गौतमपुरा रोड धनसिंह के मकान से भगतजी ,शबीरअली के मकान से होते हुवे राधाकृष्ण मंदिर के सामने केशर परवेज के मकान से रहुक के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तरः— हनुमान मंदिर ,मुक्तीधाम।</li> <li>दक्षिणः— डॉ.अकलाख का मकान।</li> <li>पूर्वः— मंगलेश्वर मंदिर घाट।</li> <li>पश्चिमः— गौतमपुरा रोड, राधाकृष्ण मंदिर।</li> </ol>
05	मंगलेश्वर वार्ड	<p>मंगलेश्वर मंदिर से गंगाराम भोई के मकान तक।</p> <p>चम्पालाल के मकान से जय स्तम्भ ,पंकज के मकान तक।</p> <p>दरगाह गौतमपुरा रोड होते हुवे सुरज कुण्ड तक।</p> <p>डॉ.पंकज के मकान से गणेश मंदिर तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तरः— मंगलेश्वर मंदिर।</li> <li>दक्षिणः— जय स्तम्भ।</li> <li>पूर्वः— दरगाह गौतमपुरा रोड</li> <li>पश्चिमः— स्लाटर हाउस ,वार्ड 13 की सीमा।</li> </ol>
06	रविदास वार्ड	<p>बनेडिया तालाब से कृषि भूमि तक।</p> <p>नगर परिषद कार्यालय बस स्टेण्ड से खण्डैराव बावड़ी यंशवन्त भृत्य के मकान तक।</p> <p>बनेडिया तालाब एहमदखां के कुएँ से होते हुवे सुलभ काम्पलेक्स तक।</p> <p>गेहलोद सांके मकान से गार्डन होते हुवे मंगलेश्वर मंदिर तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उत्तरः— बनेडिया रोड ,तालाब ,कृषि भूमि।</li> <li>दक्षिणः— बस स्टेण्ड।</li> <li>पूर्वः—कृषि भूमि ,तालाब।</li> <li>पश्चिमः— गौतमपुरा रोड।</li> </ol>

07	राजीव गांधी वार्ड	<p>शेरू टेलर्स से जैन मंदिर होते हुवे श्री कृष्ण व्यायामशाला तक।</p> <p>चमन चौराहा से बैंक होते हुवे इन्दौर रोड लीला रेसीडेन्सी कालोनी तक व पोल्की फार्म से प्रदीप यादव के मकान तक</p> <p>तालाब पेट्रोल पंप होते हुवे इन्दौर रोड तक।</p> <p>चमन चौराहा रणजीत ठाकुर के मकान से भक्त प्रह्लाद मंदिर तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>उत्तरः—</b> जैनगंदिर श्री कृष्णव्यायामशाला।</li> <li><b>दक्षिणः—</b> चमन चौराहा, इन्दौर रोड।</li> <li><b>पूर्वः—</b> पेट्रोल पंप, तालाब।</li> <li><b>पश्चिमः—</b> महात्मा गांधी मार्ग।</li> </ol>
08	फिरोज गांधी वार्ड	<p>इन्दौर रोड अजय मोदी के मकान से माणक नागर के मकान तक।</p> <p>बैरागी पैन्टर के मकान से पुष्प कुंज टाकीज के पिछे से पुराने पेट्रोल पम्प होते हुवे गज केसर की पाल तक</p> <p>नानालाल जैन के मकान से अजय मोदी के मकान तक।</p> <p>नानालाल जैन के मकान से टाकीज तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>उत्तरः—</b> इन्दौर रोड, चमन चौराहा।</li> <li><b>दक्षिणः—</b> तकीपुरा, कृषि भूमि।</li> <li><b>पूर्वः—</b> इन्दौर नाका एम पी ई.बी कार्यालय</li> <li><b>पश्चिमः—</b> टाकीज गली, वार्ड 09 की सीमा।</li> </ol>
09	नेहरू वार्ड	<p>भागचन्द जैन के मकान से राधेश्याम चौहान के मकान बैटमा नाका तक</p> <p>नरेन्द्र सोनी के मकान से देवेन्द्र ठाकुर के मकान तक</p> <p>भागचन्द जैन के मकान से नरेन्द्र सोनी के मकान तक</p> <p>देवेन्द्र ठाकुर के मकान से बैटमा नाका गोपाल सोनी के मकान तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>उत्तरः—</b> तहसील रोड, वार्ड 10 की सीमा।</li> <li><b>दक्षिणः—</b> पुराना पेट्रोल पम्प वार्ड 08 की सीमा।</li> <li><b>पूर्वः—</b> टाकीज गली, वार्ड 08 की सीमा।</li> <li><b>पश्चिमः—</b> बैटमा रोड, सरकारी अस्पताल।</li> </ol>
10	मोतीलाल वार्ड	<p>मोतिराम ठाकुर के मकान से प्रतांप नेताजी के मकान तक।</p> <p>खजराया रोड बालक छात्रावास होते हुवे अस्पताल परिसर होते हुवे बडवाया के मकान तक।</p> <p>ठाकुर बावडी से रोहित चौहान के मकान होते हुवे कैलाश बाबुजी बैटमा रोड तक।</p> <p>ब्रदी चौहान के मकान से अस्पताल जच्चावार्ड होते हुवे आयोध्याबस्ती होते हुवे पशुहाट तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>उत्तरः—</b> एरवास रोड।</li> <li><b>दक्षिणः—</b> खजराया रोड, छात्रावास।</li> <li><b>पूर्वः—</b> ठाकुर बावडी।</li> <li><b>पश्चिमः—</b> चौविस अवतार मंदिर</li> </ol>
11	इंदिरा वार्ड	<p>मुकेश जैन के मकान से नवाब खां के मकान से होते हुवे देवीमाता मंदिर तक।</p> <p>ठाकुर मशनरी पुलिया से भेरू पटेल के मकान होते हुवे कमल टेलर्स के मकान तहसील रोड तक।</p> <p>रामलाल राठौड के मकान से भागीरथ प्रतिमा होते हुवे ठाकुर मशनरी पुलिया तक।</p> <p>कमल टेलर्स के मकान से देशाई बाबू धन्नालाल लाईन मैन के मकान होते हुवे कमल बापूसिंह, रेहमान मंसुरी के मकान होते हुवे देवी माता मंदिर तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>उत्तरः—</b> भवराव सेरी हनुमान मंदिर गौसाई शमशान।</li> <li><b>दक्षिणः—</b> तहसील रोड।</li> <li><b>पूर्वः—</b> भागीरथ प्रतिमा।</li> <li><b>पश्चिमः—</b> पानी की नई टंकी, वार्ड 10 की सीमा।</li> </ol>
12	महात्मा गांधी वार्ड	<p>टीकाराम यादव के मकान से रमेश कुम्हार के मकान होते हुवे गंगाबावडी तक।</p> <p>भागीरथ सिलवाट काम्पलेक्स से नरसिंग मंदिर होते हुवे मॉ शारदा ज्ञान मंदिर तक।</p> <p>टीकाराम यादव के मकान से सब्जी मंडी मोतीलाल सोनी के मकान होते हुवे भक्त प्रह्लाद मंदिर तक।</p> <p>गंगाबावडी से जोशी जी के मकान तक।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>उत्तरः—</b> सब्जी मंडी।</li> <li><b>दक्षिणः—</b> भराव सेरी वार्ड कमांक इंदिरा वार्ड 11 की सीमा।</li> <li><b>पूर्वः—</b> तनसुखलाल जैन एवं टीकाराम यादव का मकान।</li> <li><b>पश्चिमः—</b> गंगाबावडी।</li> </ol>

13	किंवद्वार्ड	झण्डे दरगाह से अमजद के मकान तक। अब्दुल रेहमान के मकान से गौसाई शमशान अजीज खाँ, शेरदिल के मकान होते हुवे रसीद खाँ के मकान तक। नूर मोहम्मद के मकान से तवडी होते हुवे स्लाटर हाउस नाहरखाँ के मकान तक। धार नाका से रामराव दुबे के मकान होते हुवे कल्लू चाचा के मकान तक।	1. उत्तरः— झण्डे वाले बाबा की दरगाह 2. दक्षिणः— देवीमंदिर चौक गौसाई शमशान। 3. पूर्वः— स्लाटर हाउस, तवडी। 4. पश्चिमः— धार नाका।
14	आजाद वार्ड	गणपती मंदीर से मजीद खांन साहब के मकान होते हुवे दरगाह तक। ईश्वरी शर्मा के मकान से न्याज अहमद के मकान होते हुवे उस्मान ठेकेदार के मकान तक। उस्मान ठेकेदार के मकान से शाफी मोहम्मद के मकान होते हुवे बाबुखाँ मुशी के मकान तक। जामा मस्जिद से कन्हैया ठेकेदार के मकान होते हुवे सेवसिंह के मकान तक।	1. उत्तरः— गणेश मंदीर मार्ग। 2. दक्षिणः— धार नाका रोड ईश्वरी शर्मा का मकान। 3. पूर्वः— पिंजारबाड़ी। 4. पश्चिमः— राम मंदिर वार्ड कमांक 02 की सीमा।
15	शिवाजी वार्ड	जगदीश भगत के मकान से जागेश्वर मंदिर केशुभई के मकान होते मंडलोई के मकान के तक। शिखर जैन के मकान से शिव शर्मा के मकान तहसील प्रांगण तक। जीवनसिंह मकवाना के मकान से गुलाबसिंह बाबुजी के मकान तक भेरु महाराज मंदिर से भेरु मठ होते हुवे चतुरलाल के मकान से प्रताप नेता जी के मकान तक व राठौर आटा चक्की होते हुवे ब्रदी चौहान के मकान तक।	1. उत्तरः— जागेश्वर मंदिर वार्ड कमांक 02 की सीमा 2. दक्षिणः— दरगाह रोड, तहसील कार्यालय। 3. पूर्वः— राधेकृष्ण मंदीर। 4. पश्चिमः— खटवाड़ी रोड, एरवास रोड।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर

Depalpur, Dated 06.05.2014

No. 67 – in exercise of the power conferred under sub-section (i) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) hereby notifies the intension to include the following discription of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Parishad Depalpur as shown below:—

#### Schedule

Ward No. (1)	Name of the ward (2)
1	Sardar Patel Ward
2	Ram Manohar Lohiya Ward
3	Bhagirath Ward
4	Ganesh Ward
5	Mangleshwar Ward
6	Ravidas Ward
7	Rajiv Gandhi Ward
8	Firoz Gandhi Ward
9	Nehru Ward
10	Motilal Ward
11	Indira Ward
12	Mahatma Gandhi Ward
13	Kidvai Ward
14	Azad Ward
15	Shivaji Ward

### Four Dimensional Extents of wards are as follows

Ward no.	Name of Ward	Description of Ward, Arla No. Street etc.	Description of Boundary
01	Sardar Patel Ward	Ramesh Patel House to Gal Bawdi to Cansinhchaudhari to house Lcshmnchaudhari Mansingh house to sitalamata Temple to Devishing house , Higher Secondary School to Goutampura naka to Rajesh Rathor, khara kuwa,Tamlpur Road to chhappan Bawadi to Shiv House.	1. North.: Gal Bawdi, Goutampura Road. 2. South.: Sitalamata Temple, Ward no.2 Boundary 3. East.: Higher Secondary School, Water Tank. 4. West :- Khara kuwa, Agricchar land .
02	Ram Manohar Lohiya Ward	Mujubuddin house to sitalamata Temple to Bhagu bai house, Kalu house to masjid from to ram Temple, Radha Krshna Temple to Dr. Aklakh house to panchu sheth house . Kanteelal Jain 'Hemu' the houseHurricanes getting to the temple to Radhakhsn Bhagu bai house to kamal house from to khatvadi road . Temple hurricanes getting BerumaharajThakur Chowk to Beruji	1. North.: sitalamata Temple, Ward no.01 Boundary, 2. South.: Masjid ,Ward no. 15 Boundary 3. East.: Ram Temple ,Radha Krshna Temple . 4. West :- Khatvadi road , Agriculture land .
03	Bhagirath Ward	Pravin modi to Goutampura Road to sharif bhai house , Salam sabji wale house to shayam jayswal house, Shayam jayswal house to Mangleshwar Templ to pravin jain house, Sharif house to water tank to Dr.yaver ali house .	1. North.: Goutampura Road ,ward no. 4 Boundary 2. South.: Ganesh road ,Ward no.14 Boundary 3. East.: Mangleshwar Temple ,Ward no. 05 Bounder 4. West :- Water Tank, Higher Secondary School
04	Ganesh Ward	Goutampura road to hanuman Temple form karbla road to shobharam house , Dr.Aklakh house to basantilal house to ganpati Temple , Mangleshwar Temple to shobhoram house, Goutampura road to Dansingh house to Bhagatji , Shabir Ali house to Radha krshana Temple ,Keshar parvez house to Rahuf house .	1. North.: Hanuman Temple, Mukteedham 2. South.: Dr Aklakh house. 3. East.: Mangleshwar Temple, Ghat. 4. West :- Radha Krishna Temple ,Goutampura road.
05	Mangleshwar Ward	Mangleshwar Temple to Gangaram bhoi. Campalal house to jai stambha to pankaj house. Dargah Goutampura road to suraj kund. Dr.pankaj house to Ganesh Temple.	1. North.: Mangleshwar Temple. 2. South.: Jaistambh choke. 3. East.: Dargah Goutampura road 4. West :- Slater house, word no.13 Boundary.
06	Ravidas Ward	Banedia Talab to agricultur land, Nagrprisd office from Bus Stand Kndarav Bawdi to house Ynshwat Bhty Banedia talab to Ahmedkha ka kua to sulabh Complex, Gehlod's houseMngleshwar hurricanes getting to Temple Gardens	1. North.: Banedia Talab , agricultural land. 2. South.: Bus stand . 3. East.: Talab, agricultural land. 4. West :- Gotampura road.
07	Rajiv Gandhi Ward	Sheru Telor to jain Temple to shri krishna vyayam shala, Chaman choraha to bank indore road bandichod baba, Leila Colony ReseedensiBy Pradeep Yadav from the farm house and Polti Talab ,Petrol pamp to indore road , Chaman crossing Ranjit Thakur's house Bhakta Prahlada from temple	1. North.: Jain Temple , shri krishna vyayam shala. 2. South.: Chaman choraha , indore road. 3. East.: Petrol pamp, Talab. 4. West :- Mahatma Gandhi marg.
08	Firos Gandhi Ward	Ajay Mody Road House in Indore Manak Nagar far from home Baragi painter's house, pushp arbor from behind Talkies, purane sespadula hurricanes getting pumped to sail yards of saffron Natal Jain's house, By Ajay Modi's house Nanatal jain house to Takij.	1. North.: Chaman choraha, Indore road. 2. South.:Takipura, agricultur land. 3. East.: Indore Naka M P E B office 4. West :- Takij street, ward no.9 Boundary.
09	Nehru Ward	Bhagchand jain house to Radhesyam chohan house betma naka, Narendra Soni's house, by Devendra Thakur's house Bhagchandra jain house to By Narendra Soni's house Devendra Thakur's house to betma naka Gopal soni house.	1. North.: Tehsil road, ward no.10 boundary . 2. South.: Old Petol pump limit of Ward 08 3. East.:Takij street, ward no. 08 boundary 4. West :- Betma road , Government hospitals

10	Motilal Ward	Motiram thakur house to pratapNetaji's house, Khajraya road boys hostal, hospital to badwaya house, Thakur Bawadi to Rohit chouhan house kailash babuji betma road, Bradi Chauhan's house,Hospital hurricanes getting Jchchaward,Ayodyabsti to hurricanes getting Pshuhat	1. North.: Airwas road 2. South.: Khajraya road, Hostal. 3. East.: Thakur Bawadi. 4. West : Chaubis Avatar Temple
11	Indira Ward	Mukesh Jain's house, Nawab Khan's house,Devimata hurricanes getting to the temple Thakur Mashinari puliya to bheru patel house to kamal teler house to tehsil road, Ramlal Rathod house to Bhagirath pratima to Thakur Masnari puliya. Kamal teler house to Deshai babu Dhannalal house to Kamal Bapu Singh ,Rehman manshura house to Devi mata Temple.	1. North.: Bvra Seri Hanuman Temple to Gosai shamshan . 2. South.: Tehsil road . 3. East.: Bhagirath pratima. 4. West :-Water new tank ward no. 10 boundary .
12	Mahatma Gandhi Ward	Tikaram yadaw house to Ramesh kumhar house to Ganga bawadi, Bhagirath of complex Silwat, Temple hurricanes getting NanrsingMaa Sharda temple of knowledge Tikaram yadaw house to sabji mandi motilal soni house manmal jain shop to Bhakta Prahlada from temple, Gangabawadi to Joshiji house.	1. North.: Sabji mandi . 2. South.: Bvra Seri ward limit of 11 3. East.: Tnsuklajain shop to Tikaram yadaw house. 4. West :- Gangabawadi.
13	Kidvai Ward	Zande wali dargaha to amjad house , Abdul rehman house to Gosai shamshan , Ajij khan , sherdal house to Rashid khan house . Nur mod. house to twadi slatar house to nahar kha house, dhar from naka Ramraw Dube house to kallu Caca house .	1. North.: Zande wale baba ki Dargaha . 2. South.: Devi Templ, Choke , Gosai shaman . 3. East.: Slater House ,twadi. 4. West :- Dhar naka.
14	Azad Ward	Ganpati temple to majid khan saheb house, By Drgar Eoshawari sharma house to Hiyaj ahmad house Usmanthekedar house, Usmanthekedar house to shafi mod. house to babumunshi house, Jama Masjid to kanheya thekedar house Seth's house	1. North.: Ganesh mandir magr . 2. South.: Dhar naka, ishwari Sharma house. 3. East.: Pihjarwari. 4. West :- Ram temple houses clown Babuji. Ward 02
15	Shivaji Ward	Jagdish Bhagat's house,Jageshwar Temple House of Keshubi,The houses are to Mondloj, Shekhar jain house to shiv sharma house Tehsil Aria, Jivnsinh of Makwana,Babuji Gulabsinh from house to house, Maharaj Temple Monastery Beru Beru hurricanes getting Ctrulal Rathore's house to the house of Netaji flour mill hurricanes getting Pratap Chauhan's house to Bradi	1. North.: Jageshwar Temple boundary of Ward 02 2. South.: Dargah ,Tehsil office . 3. East.: RadheKrishna temple . 4. West :- Khatwari road

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKASH TRIPATHI, Collector.

## कार्यालय, कलोकटर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. एस.सी.-341-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलोकटर, जिला टीकमगढ़, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद्, के वार्डों के विस्तार बावत् पूर्व में जारी समस्त सूचनाओं को अतिथित करते हुए, निम्न अनुसूची के अनुसार वार्डों की सीमायें अवधारित करता हूँ:—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
01	शहीद नारायणदास खरे वार्ड
02	पुरानी टेहरी वार्ड
03	सरदार सिंह वार्ड
04	चतुर्भुज वार्ड
05	शंभूदयाल दीक्षित वार्ड
06	हरीदास वार्ड
07	घनुषधारी वार्ड
08	गांधी वार्ड
09	बाबू प्रेमनारायण वार्ड
10	ठाकुरदास वार्ड
11	बाल्मीकी वार्ड
12	अम्बेडकर वार्ड
13	कूरेमारे रामआसरे वार्ड
14	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
15	जवाहरलाल नेहरु वार्ड
16	भगवान महावीर स्वामी वार्ड
17	नेता जी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
18	राजीव गांधी वार्ड
19	भगत सिंह वार्ड
20	इन्दिरा गांधी वार्ड
21	जानकी बाग वार्ड
22	गुरु नानक वार्ड
23	नूरमुहम्मद वार्ड
24	मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड
25	संजय गांधी वार्ड
26	डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
27	चन्द्रशेखर वार्ड

### वार्ड क्रमांक 01—शहीद नारायणदास खरे वार्ड

पूर्व—बाग गऊशाला से तलैया के बंधान पर होते हुये कारसदेव के चबूतरा तक.

दक्षिण—कारस देव के चबूतरा से रोड की ओर टाबर लाइन, बुनकरयाना, हरदौल मंदिर एवं रोड दाहिनी ओर के मकान अंदर करते हुये महेश खरे के मकान तक.

पश्चिम—दक्षिण से उत्तर श्री महेश खरे के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुये गली के मुहाने पर श्री नेतराम शर्मा के मकान तक यहां से सड़क पार कर नाथूराम शर्मा के मकान को लेते हुये महेन्द्र कूप तक.

उत्तर—महेन्द्र कूप से कमल सेतू तक यहां से पूर्व की ओर बगर गऊशाला तक.

### वार्ड क्रमांक 02—पुरानी टेहरी वार्ड

पूर्व—दक्षिण से उत्तर ओ. पी. खरे के मकान से गली में बाई ओर के मकान लेते हुये गली के मुहाने श्री गोविन्ददास के मकान तक यहां से सड़क के किनारे-किनारे देवी जी के मंदिर को लेते हुये पावर हाउस अंदर करते हुये कमल सेतू तक.

उत्तर—कमल सेतू से हुड़ा पहाड़िया और किला अन्दर लेते हुए उत्तमचंद वकील के आवास तक.

पश्चिम—उत्तर से दक्षिण उत्तमचंद वकील के निवास से ललितपुर रोड के बाई ओर के मकान लेते हुये महेन्द्र सागर तालाब के किनारे-किनारे जवाहर लाल नेहरु कृषि विद्यालय तक.

दक्षिण—कृषि विद्यालय से खेतों में होकर जरिया का मजरा लेते हुये हुकुमचंद वकील के कुआं तक वहां से तालाब की नहर पूरा महेन्द्रसागर तालाब छोटा पुल तक यहां से रोड पार कर ओ. पी. खरे के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 03—सरदार सिंह वार्ड

पूर्व—राजेन्द्र पार्क छोटा पुल तकिया मस्जिद से ललितपुर रोड की ओर होटल फोर्ट व्यू लेते हुए सुन्दर लाल पटैरिया के मकान तक.

दक्षिण—सुन्दरलाल पटैरिया के मकान से कलू बरई के मकान तक.

पश्चिम—कलू बरई के मकान से उत्तर में पपौरा चौराहा होते हुये राकेश टड़ेया के मकान तक.

उत्तर—राकेश टड़ेया के मकान से पूर्व की ओर बैसा गली में होकर गुल्लू विलगैंया के मकान तक यहां से जड़िया मार्ग पार कर पीताम्बर मिश्रा के मकान लेते हुये प्रताप तिवारी के मकान से छोटी तकिया मस्जिद की ओर छोटा पुल तक.

### वार्ड क्रमांक 04—चतुर्भुज वार्ड

**पूर्व**—अमरसिंह का मकान पपौरा चौराहा से केंथ का मंदिर लेते हुए ताल दरवाजा बरगद के पेड़ तक दाहिनी ओर के मकान.

**दक्षिण**—बरगद के पेड़ से उत्तर की ओर गोपाल मंदिर बाहर करते हुये त्रिपुरारी मित्रा का मकान लेते हुये सुनील साहू के मकान तक यहां से गली पार कर सुरेश नामदेव का मकान लेते हुये पश्चिम में अध्वर्यु मंदिर चौपरा गली तक.

**पश्चिम**—अध्वर्यु मंदिर चौपरा गली में होकर नगर भवन अंदर करते हुये राजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक.

**उत्तर**—राजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से पपौरा चौराहा अमरसिंह के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 05—शंभूदयाल दीक्षित वार्ड

**उत्तर**—वानपुर दरवाजे से शहर की ओर वाले दाहिने कोने से पूर्व की ओर श्री रमेश यादव के मकान तक वहां से दोनों गली पार कर श्री रामस्वरूप जोशी के मकान को लेते हुये उत्तर की ओर दाहिनी हाथ के मकान लेते हुये जैन मंदिर को अंदर करते हुये सिल्लू जैन के मकान तक यहां से छक्की के बाड़े को अंदर करते हुये गली के मुहाने अध्वर्यु मंदिर के सामने कृष्णगोपाल के मकान तक.

**पूर्व**—कृष्णगोपाल के मकान से सिद्ध बाबा की हवेली की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये सीधे मुख्य सड़क पर कमानी दरवाजे को लेते हुये और दाहिनी ओर के मकान लेते हुये हरिशचंद जैन के मकान तक यहां से सड़क पार कर शिक्षा विभाग तथा चित्रगुप्त मंदिर को अंदर करते हुये तालाब रोड चुंगी के पास जरिया के हनुमान जी के मंदिर तक.

**दक्षिण**—जरिया के हनुमान जी मंदिर से खेतों में होकर सिंचाई कालोनी को अंदर करते हुये वानपुर रोड पार कर मुक्तिधाम व कब्रिस्तान को अंदर करते हुये कारसदेव के चबूतरा से महाराजपुरा के तालाब के किनारे बरई बाग तक.

**पश्चिम**—बरई बाग से खेतों में होकर दाहिनी ओर के किनारे-किनारे वानपुर दरवाजे पर रमेश यादव के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 06—हरीदास वार्ड

**दक्षिण**—शिक्षा विभाग के सामने बरगद के पेड़ से पश्चिम की ओर कमानी दरवाजा के सामने विनोद जैन के मकान तक.

**उत्तर**—विनोद जैन के मकान से दले सैयद का मजार लेते हुये श्री दुर्जन चौरसिया के मकान तक यहां से सड़क पार कर श्री शोभानायक के मकान से पश्चिम की ओर मुरलीधर

बजाज का मकान लेते हुये राजकुमार जैन के मकान तक यहां से गली पार कर वानपुर दरवाजा गायत्री मंदिर से खेतों में होकर कोट के किनारे मोतीलाल हरिजन के मकान तक.

**उत्तर**—बौरी दरवाजा मोती हरिजन के मकान से पूर्व की ओर दाहिनी ओर झण्डा बीड़ी कारखाना लेते हुये नगर भवन चौराहा तक यहां से अस्तौन एम्पोरियम के मकान लेते हुए पुरानी कोतवाली तक, यहां से सड़क पार कर द्रगपाल सिंह के मकान से शोभा नायक के मकान तक वहां से सड़क पार कर दुर्जन चौरसिया के मकान तक.

**पूर्व**—दुर्जन चौरसिया के मकान से चौपरा गली में पूर्व की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये श्री सुनील नामदेव एडवोकेट के मकान तक यहां से दक्षिण की ओर दाहिनी ओर के मकान गोपाल मंदिर को लेते हुए बरगद के पेड़ तक.

### वार्ड क्रमांक 07—धनुषधारी वार्ड

**दक्षिण**—बौरी दरवाजा स्लाटर हाउस से धनुषधारी मंदिर लेते हुये कटरा चौराहा श्री जे. पी. सोनी ऑफीटर के मकान तक.

**पूर्व**—श्री जे. पी. सोनी ऑफीटर के मकान से उत्तर की ओर पवन कुमार जैन मिठ्या की दुकान तक.

**उत्तर**—पवन मिठ्या की दुकान से पश्चिम में हिमांचल गली के बाई ओर के मकान लेते हुये श्री बृजपाल नामदेव के मकान तक.

**पश्चिम**—बृजपाल नामदेव के मकान से दक्षिण की ओर वार्यों ओर के मकान लेते रसीद खां की चक्की तक यहां से गली पार कर पश्चिम की ओर काशी नामदेव के मकान को लेते हुये अहिरवार गली में वार्यों ओर से मकान लेते हुये सुरेश वंशकार के मकान तक यहां से दक्षिण की ओर वार्यों ओर के मकान लेते हुये मीट मार्केट के पिछवाड़े से मंदे नाले तक यहां से नाला पार कर श्री नंदलाल के मकान को लेते हुये पश्चिम की ओर बाई ओर के मकान लेते हुये सड़क की पुलिया तक यहां से रोड पार कर स्लाटर हाउस तक.

### वार्ड क्रमांक 08—गांधी वार्ड

**पूर्व**—राजेन्द्र पार्क के सामने नायक मार्ग में गुरुद्वारा को अंदर करते हुये दाहिनी ओर के मकान लेते हुये सूरज सिंह ठाकुर के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर बैसा मार्ग में मुड़कर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये श्री यासीन मिस्त्री का मकान लेते हुये सीधे सुनहरी लाल जैन के मकान तक वहां से रोड पार कर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये मझार का मंदिर अंदर करते हुये पपौरा चौराहा सीताराम नायक के मकान तक.

**दक्षिण—सीताराम नायक के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुये छिद्रू रंगरेज के मकान तक.**

**पश्चिम—छिद्रू रंगरेज के मकान से उत्तर की ओर सुभाष बुक डिपो के सामने अरविन्द जैन के मकान तक.**

**उत्तर—अरविन्द जैन के मकान से पूर्व की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये गुरुद्वारा तक.**

### वार्ड क्रमांक 09—बाबू प्रेमनारायण वार्ड

**पूर्व—समय गेस्ट हाउस से दक्षिण में श्री चंद जैन के मकान तक.**

**दक्षिण—श्री चंद जैन के मकान से बाजार की ओर प्रताप नारायण (पत्नी) तिवारी के मकान तक यहां से सड़क पार कर सुभाष बुक डिपो लेते हुये नगर भवन चौराहा कल्लू खां रंगरेज की दुकानों को लेते हुए शंकर पान वाले की दुकान तक.**

**पश्चिम—शंकर पान वाले की दुकान से मुख्य बाजार में हिमांचल गली के सामने जैन मंदिर की दुकानों तक, यहां से सड़क पार कर भगत जैलर्स तक यहां से हिमांचल गली में दाहिनी ओर के मकान लेकर सीताराम सोनी के मकान तक.**

**उत्तर—सीताराम सोनी के मकान से लखेरों के मंदिर को लेकर नरेन्द्र उर्फ ममू जैन के मकान तक यहां से सड़क पार कर मोती मस्जिद को लेकर राजकुमार जैन की दुकान तक यहां से पूर्व की ओर समय गेस्ट हाउस तक.**

### वार्ड क्रमांक 10—ठाकुरदास वार्ड

**दक्षिण—कुंवरपुरा दरवाजा श्री इसराईल खां के मकान से पश्चिम की ओर पॉलीटेक्निक (बाहर करते हुये) तक.**

**पश्चिम—पॉलीटेक्निक से खेतों में होकर मंडी के सामने तक.**

**उत्तर—मंडी के सामने से शासकीय आवासीय क्वार्टर्स लेते हुये पुलिस लाईन कार्यालय बाहर रखते हुये इन्द्रा कालोनी शेख सत्तार उर्फ कैप्टन रिटायर पुलिस वाले के मकान तक.**

**पूर्व—इन्द्रा कालोनी कैप्टन के मकान से दक्षिण की ओर कुंवरपुरा दरवाजा (दायीं ओर के मकान) लेकर श्री इसराईल के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 11—बाल्मीकी वार्ड

**पूर्व—बौरी दरवाजा स्लाटर हाउस से श्री राकेश गिरि चैयरमेन के मकान तक.**

**उत्तर—श्री राकेश गिरि चैयरमेन के मकान से सड़क पार कर धर्मपाल सिंह का मकान लेते हुये कुंवरपुरा दरवाजा भरोसे हरिजन के मकान तक. यहां से पश्चिम की ओर इसराईल उर्फ राजू के मकान तक.**

**पश्चिम—इसराईल उर्फ राजू के मकान से कुंजबिहार/पौला बरखा कालोनी में मौजूदा एम.एल.बी. स्कूल को बाहर करते हुये ढोंगा रोड सड़क पार कर हरिजन बस्ती में टंकी के बगल में देवी मंदिर तक, यहां से दक्षिण में वार्यों ओर के मकान लेकर प्रेटीराजा के खेतों तक.**

**दक्षिण—प्रेटी राजा के खेतों में होकर खुशीपुरा को बाहर करते हुये रामबाग के पीछे के मकान लेते हुये बौरी दरवाजा स्लाटर हाउस तक.**

### वार्ड क्रमांक 12—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर—खाद्य निगम गोदाम से ढोंगा चक्र लेकर पॉलीटेक्निक कॉलेज को लेकर पानी की टंकी के पास कुआं तक.**

**पूर्व—कुआं से सड़क पार कर देवी मंदिर से रूपा उर्फ मुना हरिजन के मकान तक दायीं ओर के मकान, यहां से रामसेवक पाठक के खेत को बाहर करते हुये बौरी रोड खुशीपुरा सड़क के किनारे, से खुशीपुरा को अंदर करते हुये महाराजपुरा तालाब के बंधान तक.**

**दक्षिण—महाराजपुरा तालाब बंधान के किनारे से मंदिरों को अंदर करते हुये बौरी रोड से नूतन बिहार कालोनी के खंट शमशान भूमि तक.**

**पश्चिम—नूतन बिहार कालोनी को अंदर करते हुये गया प्रसाद सोनी के खेतों में बने मकानों को अंदर करते हुए खाद्य निगम गोदाम तक.**

### वार्ड क्रमांक 13—कूरेमाते रामआसरे वार्ड

**पश्चिम—सलीम के मकान से प्रभूदयाल अहिरवार का मकान लेते हुये राकेश गिरि चैयरमेन के सामने भगवानदास साहू के मकान तक.**

**उत्तर—भगवानदास साहू के मकान से पूर्व की ओर घुवारा आभूषण सदन तक.**

**पूर्व—घुवारा आभूषण सदन से दक्षिण की ओर श्री मुना साहू के मकान तक.**

**दक्षिण—मुना साहू के मकान से लक्ष्मण साहू के मकान के पास वाली गली के बायीं ओर के मकान लेते हुये लच्छू काढ़ी के मकान से बौरी दरवाजा की ओर कामता जायसवाल के मकान तक यहां से शेष नजीर का मकान लेते हुए सलीम के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 14—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

**पूर्व**—जवाहर चौक पपौरा क्षेत्र की दुकानों से शिवा इलैक्ट्रीकल दुकान तक बांयी ओर के मकान

**उत्तर**—शिवा इलैक्ट्रीकल से मदान चिल्ला में बांयी ओर के मकान रिसालदार के मकान को अंदर करते हुये श्रमदान मार्ग में कादिर खां के मकान तक.

**पश्चिम**—कादिर खां के मकान से गली पार कर करीम वकील के मकान को छोड़ते हुये पास बाली गली में होकर राजमहल के सामने पहुंचकर बार्यां तरफ के मकान लेते हुये हरिबल्लभ ताप्रकर के मकान तक.

**दक्षिण**—हरिबल्लभ के मकान से पूर्व की ओर श्री कपूर चन्द्र घुवारा के मकान तक यहां से सड़क पार कर श्री नाथूराम विश्वकर्मा के मकान से खंगरोला गली में बांयी ओर के मकान रहतुल्ला तथा लालजी नुना आदि सहित सभी मकान लेते हुए हिमाचल गली श्री सुखनंदन सोनी के मकान तक, यहां से सड़क पारकर श्री कैलाश सोनी के मकान से जवाहर चौक पपौरा क्षेत्र की दुकानों तक.

### वार्ड क्रमांक 15—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**पूर्व**—सैलसागर रोड भगवानदास दुबे के मकान से कोतवाली तक.

**दक्षिण**—पश्चिम की ओर कोतवाली से श्री नंदराम सेठ के मकान तक यहां से हाजी रसीद अली के मकान तक, यहां से सड़क पार कर शिवा इलैक्ट्रीकल से मदान चिल्ला की ओर श्री रिसालदार का मकान छोड़कर गली में होकर कल्लू शाह की गली से हैण्डपंप तक.

**पश्चिम**—हैण्डपंप से अब्दुल शकूर तथा मोहन ढाईर के मकान लेते हुये वीरेन्द्र राय के मकान तक यहां से सड़क पार कर मदरसा गरीब नवाज तक.

**उत्तर**—मदरसा गरीब नवाज से पूर्व की ओर निर्मल जैन के मकान तक यहां से सड़क पार कर पीली कोठी लेते हुये भगवानदास दुबे के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 16—भगवान महावीर स्वामी वार्ड

**दक्षिण**—रौरईया श्री मनोज मड़वैया के मकान से पूर्व की ओर राजमहल तक.

**पूर्व**—राजमहल से सड़क पारकर श्री सनत जैन का मकान लेते हुये तैलग गली में होकर करीम वकील का मकान लेते हुये श्रमदान मार्ग में होकर सड़क पार कर साहेनू खान बंगाली के घर को लेत हुये हैण्डपंप की ओर मदरसा के सामने श्री छिद्रू इलैक्ट्रिकल्स के मकान को लेकर सड़क

की ओर हरलाला साहू का मकान लेते हुये रेंज आफिस नंदीश्वर कालोनी गेट तक.

**उत्तर**—नंदीश्वर कालोनी में पश्चिम की ओर इन्द्र कालोनी मार्ग में श्री इकबाल खान के मकान तक.

**पश्चिम**—इन्द्र कालोनी श्री इकबाल खां के मकान से कुंवरपुरा दरवाजा की ओर श्री फूलचन्द साहू के मकान तक यहां से सड़क पार कर श्री कासिम खां के मकान से रौरईया की ओर सीनियर बेसिक स्कूल लेते हुये मनोज मड़वैया के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 17—नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

**दक्षिण**—इन्द्र कालोनी श्री जुम्मन खां के मकान से पूर्व की ओर नंदीश्वर कालोनी के दरवाजे तक.

**पूर्व**—नंदीश्वर कालोनी के दरवाजे से गोलव्हार्ट्स पुलिस लाईन कार्यालय लेते हुये पी.डब्ल्यू. डी. इंजीनियर के बंगला तक.

**उत्तर**—पी.डब्ल्यू.डी. इंजीनियर के बंगले से सुभाषपुरम कालोनी में श्री पूरनसिंह के मकान के सामने सरकारी क्वार्टरों को लेते हुये बार्यां ओर के मकान श्री मृत्युजय दीक्षित का मकान लेते हुये श्री रामगोपाल शुक्ला के मकान तक.

**पश्चिम**—श्री रामगोपाल शुक्ला के मकान से मौजूदा गल्ला मंडी को बाहर रखकर सामने के शेष मकान लेते हुये पुलिस लाईन आंगनबाड़ी केन्द्र तक, यहां से दक्षिण की ओर इन्द्र कालोनी के जुम्मन खां के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 18—राजीव गांधी वार्ड

**पश्चिम**—सुभाषपुरम कालोनी में श्रीमती उपासना दुबे के मकान से पूर्व की ओर पूरनसिंह का मकान लेते हुये जिला न्यायाधीश के बंगले तक के बार्यां ओर के मकान.

**पूर्व**—जिला न्यायाधीश बंगला से उत्तर की ओर नगर पालिका कार्यालय तक.

**उत्तर**—नगर पालिका से उत्सव भवन को अंदर करते हुये शिवनगर कालोनी लेते हुये हरिजन छात्रावास तक.

**दक्षिण**—हरिजन छात्रावास से बौद्ध बिहार कालोनी को अंदर लेते हुये पूर्व की ओर मौलाबख्श/कुंजबिहार कालोनी का शेष भाग जिसमें मौजूदा एमएलबी स्कूल भी है का शेष भाग बीच सड़क से क्रांति का खेत बाहर रखकर पुलिस लाईन के पीछे खेतों में होकर श्रीमती उपासना दुबे के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 19—भगतसिंह वार्ड

**पश्चिम**—श्री जिब्राईल के मकान से उत्तर की ओर अस्पताल के सामने सर्किट हाउस की पुलिया तक.

**उत्तर**—अस्पताल के सामने से सर्किट हाउस कलेक्टर बंगला लेते हुए स्टेडियम की चौपुलिया तक.

**पूर्व**—चौपुलिया से संतोषी माता मंदिर की ओर बिहारी दास के मंदिर तक.

**दक्षिण**—बिहारी दास के मंदिर से पश्चिम में श्रीमती किरण खरे के मकान तथा रामकुमार यादव के मकान को लेते हुये सैलसागर बंधान पर होकर श्री जिब्राईल के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 20—इन्दिरा गांधी वार्ड

**पश्चिम**—राजेन्द्र अस्पताल से उत्तर की ओर चक्रा तिराहे तक.

**उत्तर**—चक्रा तिराहे से विनोदकुंज की ओर सिद्धि विनायकपुरम लेकर नारगुड़ा तिगैला पर मोहनलाल यादव के मकान को लेते हुए विन्द्रावन तालाब पांखी की सड़क तक.

**पूर्व**—विन्द्रावन तालाब की पांखी, सड़क से विन्द्रावन तालाब के बंधान गुरुकुल कॉलेज लेते हुये चौपुलिया तक.

**दक्षिण**—चौपुलिया से पश्चिम की ओर फ्रेन्ड्स कालोनी इंद्रपुरी कालोनी लेते हुये राजेन्द्र अस्पताल तक.

### वार्ड क्रमांक 21—जानकी बाग वार्ड

**पश्चिम**—चक्रा तिराहा से रेलवे पुल तक.

**उत्तर**—रेलवे पुल से रेलवे पटरी बाहर रखते हुए तथा स्टेशन को अन्दर लेते हुए, डिस्ट्रिक कमाण्डेन्ट नगर सेना का ऑफिस लेते हुये छत्रसाल द्वार तक.

**पूर्व**—छत्रसाल द्वारा से दक्षिण की ओर बैकुण्ठी लेते हुये बड़ा मजार लेते हुये रज्जाक खां सदर के मकान तक.

**दक्षिण**—रज्जाक सदर के मकान से पश्चिम की ओर जुगल निवास लेते हुये जानकी बाग तक यहां से सड़क पार कर दाहिनी ओर भगवंत कलब छोड़कर विन्द्रावन तालाब लेते हुये पांखी के बाद नारगुड़ा तिगैला पर मोहन यादव के मकान के सामने बाले रास्ते से चक्रा तिराहा तक (बायीं ओर के सभी मकान).

### वार्ड क्रमांक 22—गुरुनानक वार्ड

**पश्चिम**—सैलसागर की पुलिया से मकानों के पीछे सैलसागर तालाब का केवल बंधान लेते हुये कांजी हाउस तक.

**पूर्व**—कांजी हाउस से जयस्तंभ की ओर भगतराम मक्कड़ के सामने राकेश तिवारी के मकान तक, यहां से गली पार कर

श्री जवाहर खरया का मकान छोड़कर दाई और के मकान लेते हुये फतेहसिंह के कार्यालय भवन तक.

**दक्षिण**—फतेहसिंह कार्यालय भवन से पश्चिम में पंतगी साहू के मकान के सामने हरीदास साहू ड्रायवर के मकान तक, यहां से शाराफत उल्ला व जब्बारखां पूर्व चेयरमेन के मकान लेते हुये भगतराम मक्कड़ के सामने श्री राकेश तिवारी एडवोकेट के मकान तक.

**उत्तर**—श्री राकेश तिवारी एडवोकेट के मकान से पश्चिम में सैलसागर पुलिया तक.

### वार्ड क्रमांक 23—नूरमुहम्मद वार्ड

**उत्तर**—श्री जबार खां कम्पाउण्डर के मकान से पूर्व की ओर सुलतानिया मस्जिद लेते हुये भगतराम मक्कड़ के मकान तक.

**पूर्व**—भगतराम मक्कड़ के मकान से जयस्तंभ की ओर श्री पंतगी साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—पंतगी साहू के मकान से यासीन बेग के मकान तक.

**पश्चिम**—यासीन बेग के मकान से डॉ. खान की गली में दाहिनी ओर के मकान लेते हुये जब्बार खां कम्पाउण्डर के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 24—मौलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड

**पश्चिम**—सैलसागर की पुलिया श्री बालचन्द्र जैन पहलवान के मकान से कोतवाली की ओर बायीं ओर के मकान लेते हुये कन्या स्कूल अंदर रखते हुए राजेन्द्र पार्क के पश्चिमी भाग में बनी दुकानों को लेते हुये स्टेट बैंक मुख्य शाखा भवन तक.

**दक्षिण**—स्टेट बैंक मुख्य शाखा भवन से पूर्व की ओर छोटे पुल नगरपालिका की दुकानों तक यहां से पुराने बस स्टैण्ड की ओर मोहम्मद याकूब की दुकान तक यहां से सड़क पार कर किला व हुड्डा पहाड़ी बाहर रखते हुए हुड्डा पहाड़ी के किनारे बायीं ओर की दुकानें व मकान लेते हुए पुराना स्टेण्ड अन्दर करते हुए बैलदार बस्ती में श्री मुन्ना खां के मकान तक.

**पूर्व**—मुन्ना खां के मकान से सकरी गली में बाई और के मकान लेते हुये मकुन्द सिंह के मकान तक.

**उत्तर**—मकुन्द सिंह के मकान से जयस्तंभ व मस्जिद अंदर करते हुये बाई और से मकान लेकर यासीन बेग के सामने डॉ. खान की गली में होकर उनका क्लीनिक लेते हुये सैलसागर पुलिया तक.

### वार्ड क्रमांक 25—संजय गांधी वार्ड

**दक्षिण**—फतेहसिंह के कार्यालय की गली में होकर दाहिने हाथ के मकान लेते हुये लकड़ खाना को धेरते हुये सफेदार के मकान तक।

**पश्चिम**—सफेदार के मकान से पूर्व की ओर बाबूलाल रावत के मकान तक वहाँ से सड़क पार कर बिहारी दास मंदिर के सामने गणेश कुम्हार के मकान को लेकर उत्तर की ओर भगवंत क्लब को धेरते हुये अम्बेडकर तिराहे से सड़क पार कर वन विभाग भवन को अंदर करते हुये बस स्टेण्ड की ओर नथू यादव के मकान तक।

**पूर्व**—नथू यादव के मकान से हड़ा की ओर सी.सी. रोड तक यहाँ से दाहिने ओर के मकान लेते हुये दयाल पार्क तक यहाँ से दक्षिण की ओर कमल सेतु तक।

**उत्तर**—कमल सेतू से पुराना स्टेण्ड की ओर दाहिनी ओर के मकानों को लेते हुये मुना खां के मकान के सामने श्री सुखई बैलदार के मकान तक यहाँ से दाहिनी ओर से मकान लेते हुये मुकुन्दसिंह के सामने श्री गोविन्दसिंह सिसौदिया के मकान तक, यहाँ से सड़क पार कर दाहिनी ओर के मकान लेते हुये फतेहसिंह कार्यालय भवन तक।

### वार्ड क्रमांक 26—डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

**दक्षिण**—कमल सेतू से हड़ा में होकर बगर गऊशाला के पीछे होते हुये आदिवासी बस्ती (सौरयाना) को अंदर करते हुये खांगे के हनुमान जी के मंदिर तक।

**पूर्व**—खांगे के हनुमान जी के मंदिर से हड़ा की ओर रास्ता में होकर मर्दन अहिरवार के मकान (छोड़ते हुए) के सामने खेतों में होकर पश्चिम की ओर रिलायंस पेट्रोल पंप तक।

**उत्तर**—रिलायंस पेट्रोल पंप से अम्बेडकर तिराहा की ओर बायों ओर के मकान लेते हुये प्रद्युम्न सिंह सोलंकी के खण्डहर तक।

**पश्चिम**—प्रद्युम्न सिंह सोलंकी के खण्डहर से हड़ा की ओर सी.सी. रोड तक सी.सी. रोड से बाई ओर के मकान महावीर मैरिज गार्डन की अंदर करते हुए कमल सेतु तक।

### वार्ड क्रमांक 27—चन्द्रशेखर वार्ड

**पश्चिम**—वर्मासेल पेट्रोल पंप से बस स्टेण्ड की ओर छत्रसाल द्वार तक।

**उत्तर**—छत्रसाल द्वार से शनि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पार कर स्टॉप डेम के बंधान होकर सिद्दकी खलीफा के प्लाट (सुधासागर रोड) तक।

**पूर्व**—सिद्दकी खलीफा के प्लाट से उत्तर की ओर खेतों में होकर मर्दन अहिरवार के मकान तक।

**दक्षिण**—मर्दन अहिरवार के मकान से पश्चिम की ओर खेतों में होकर वर्मासेल पेट्रोल पंप तक।

**सुदाम खाड़े, कलेक्टर,**

Tikamgarh, the 29 April 2014

No. 341-2014.—In exercise of the powers conferred by by the notification No. 520-XVIII-3-04, Dated 24 February 2004 of Urban Administration and development department of Government of Madhya Pradesh. 1. Dr. Sudam Khade Collector, Distt. Tikamgarh Madhya Pradesh under section 29(i) of Madhya Pradesh municipalities act 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of words of municipal council Tikamgarh distt. Tikamgarh as per schedule below:—

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Ward Name (2)
1.	Shaheed Narayan das Khare ward
2.	Purani tehri Ward
3.	Sardar Singh Ward
4.	Chaturbhuj Ward
5.	Shambhudayal Dikshit Ward
6.	Haridas Ward
7.	Dhanushdhari Ward
8.	Gandhi Ward
9.	Babu Premnarayan Ward
10.	Thakurdas Ward
11.	Balmiki Ward
12.	Ambedkar Ward
13.	Kuremate Ramasre Ward
14.	Lalbahadur Shastri Ward
15.	Jawaharlal Nehru Ward
16.	Bhagwan Mahaveer Swami Ward
17.	Neta ji Subhas Chandra bose Ward
18.	Rajiv Gandhi Ward
19.	Bhagat Singh Ward
20.	Indira Gandhi Ward
21.	Janki bag Ward
22.	Guru Nanak Ward
23.	Noor Muhammad Ward
24.	Maulana Abdul Kalam Ajad Ward
25.	Sanjay Gandhi Ward
26.	Dr. Rajendra Prasad Ward
27.	Chandra Shekhar Ward

**Ward No. 01—Shaheed Narayandas Khare Ward**

**East**—From Bagar Gaushala Bandhan upto Karasdev Chabutra.

**South**—From Pletform of Karasdev towards road Tover linem Bunkaryana, Hardol temple and taking the house of right side. Upto the house of Mahesh Khare.

**West**—From South to North the house of Mahesh Khare taking the house of right side on the street corner upto the house of Netram Sharma. from here crossing the foad taking the house of Nathu ram Sharma upto Mahendra Koop.

**North**—From Mahendra Koop upto Kamal setu from there towards East upto Bagar Gaushala.

**WARD No. 02—PURANI TEHRI WARD**

**East**—Starting South to North from the house of O.P. Khare in Street taking the house of left side and the street corner upto house of Govind Das From here brim of the road taking the temple of Devi ji inside power house upto Kamal setu.

**North**—From Kamal Setu to Hudda Pahadiya and the Fort inside upto the house of Advocate Uttam Chandra.

**West**—From North to South the residence of Uttam Chandra Advocate, Taking all house's of Lalitpur road, brim of Mahendra Sagar pond upto Agriculture Collage of Jawahar lal Nehru.

**South**—From Agriculture collage going to field's taking Jariya ka Majra upto well of the house's Advocate Hunkumchandra. There here canal of pond and all Mahendra Sagar pond upto Small Brige. There here Crossing the road upto the house of O. P. Khare.

**WARD No. 03—SARDAR SINGH WARD**

**East**—From Rajendra park, Small Brige, takiya Mashjid towards Lalitpur road taking the Hotal Fort view upto the house of Sunder lal pateriya.

**South**—From Sunder lal Pateriya's house upto the house of Kalu Barai.

**West**—From the house of Kalu Barai to North taking the Papora Chouraha upto the house of Daal Chandra jain Tadayia.

**North**—From the house of Rakesh Tadaiya towards East in Baisa street upto Gullu Bilgaiya's house. from here crossing the Jadiya Marg taking the house of Petamber Mishra and Pratap Tiwari's house towards Chhoti takiya Mashjid upto Choota Brige.

**WARD No. 04—CHATURBHUJ WARD**

**East**—From Papora Choraha Amar Singh's house taking the temple of kenth upto the tree of Banyan Taldarwaja the all house's of right side.

**South**—From Tree of Banyan towards North outside Gopal Temple taking the house of Tripurari Mishra upto the house's of Suneel Sahu. From here crossing the street taking the house of Suresh Namdev upto in west side the Adhvaryu temple Chopra street.

**West**—Starting the Adhvaryu temple Chopra street. Inside Nagar Bhavan upto the house of Rajendra Shriwastav.

**North**—From the house of Rajendra Shriwastav upto Papora Choraha Amar Singh's house.

**WARD No. 05—SHAMBHUDAYAL DIKSHIT WARD**

**North**—Starting the Banpur Darwaja towards the city Corner of right side upto the house of Shree Yadav. From there Crossing the Both Street taking the house of Ramsaroop Josi, towards North taking the house's of right side inside jain temple upto the house's of Sillu Jain, from here inside yard of Chhakki, infront of Street corner Adhvaryu Temple upto Krishan Gopal's house.

**East**—From the house of Krishan Gopal toward Sidh Baba ki Haveli taking the all house's of right side, main road, Kamani Darwaja and the all house's of right side upto Harish Chandra jain's house. From here crossing the road inside Education office and Chitrugupt temple, near of pond road Chungi upto temple of Jariya ke Hanuman ji.

**South**—From the Temple of Jariya ke Hanuman ji. Going to feld inside irrigation Colony. Crossing the road inside Mukti Dham and Kabristan. From Karasdev Chabutra upto Pond of Maharajpura brim of Brai Baag.

**West**—From Barai Bag to going to field's towards right side brim of Banpur Darwaja upto the house's of Ramesh Yadav.

## WARD No. 06—HARIDAS WARD

**South**—From infront of education office Banyan tree towards west upto Kamani Darwaja infront of the house Vinod Jain.

**West**—From the house of Vinod Jain taking the Mazar of Dale Syyad upto the house of Durjan Chourasia. From here crossing the road house's of Shree Shobha Nayak towards west taking the house's of Murlidhar Bajaj upto the house of Rajkumar Jain. From here crossing the Street Banpur Darwaja Gayatri Tempel upto used in felds brim of Coart. Motilal Harijan house's.

**North**—From Bori darwaja the house of Moti Harijan towards east taking the left side Jhanda Bidi Karkhana upto Nagar Bhavan Choraha. From here the house of Aston Emporiyom, upto old Kotwali and Crossing the road infrot of the house's Dragpal Singh upto Shobha Nayak house's from there Crossing the road upto the house of Durjan Chourasia.

**East**—From the house of Durjaan Choursia chopra Street towards East taking the house's of right sides upto the house's of Suneel Namdev Advocate. From here toward south taking the house's of right and Gopal Temple upto Trees of Banyan.

## WARD No. 07—DHANUSHDHARI WARD

**South**—From Bori Darwaja Slater house taking the Dhanushdhari Temple upto the house of Auditor J. P. Soni, Katara Choraha.

**East**—From house's of J. P. Soni Aouditor towards North upto Pavan Kumar Jain Mithya Shop's.

**North**—From Pavan Mithya shop's in west Himanchal Street towards taking the all house's upto Brijpal Namdev House's

**West**—From the house of Brijpal Namdev towards South taking the house's of left side upto flor mill of Raseed Khan. From here crossing the Street towards west taking the house of Kashi Namdev and in Ahirwar Street all house's of left side upto Suresh Vanshkar house's from here towards South taking the house's of left side and from Back side of Meet Market upto sewer (Gutter), from here crossing the sewer taking the house of Nand lal towards west taking the house of left side upto culvert of road. From here crossing the road upto Slater house.

## WARD No. 08—GANDHI WARD

**East**—Starting infront of Rajendra park inside of Guru Dowara in Nayak Marg towards taking the all house of right side upto the house of Surej Singh Thakur. From there towards west in turned Baisa Marg taking the house of right side and house of Yaseen Mishtri upto endlong the house of Sunahri lal Jain. From there crossing the road taking the house of right side, inside of Majhar temple upto the house of Seta Ram Nayak papora choraha.

**South**—From the house of Seta Ram Nayak taking the house of left side upto the house of Chhiddu rangrez.

**West**—from Chhiddu Rangraez's house towards North infront of Subhash book depo upto the house of Arvindra Jain.

**North**—Arvindra Jain's house towards East taking the House of right side upto Guru Dowara.

## WARD No. 09—BABU PREMNARAYAN WARD

**East**—From Samay Guest house towards South side upto Shri Chand Jain's house.

**South**—From the house of Shri Chandr Jain here towards market upto the house of Pratap Narayan Tiwari. From here crossing the road taking the Subhash book depo upto Nagar bhavan choraha and taking the shop of Kallu khan rangrez upto the shop's of Shankar pan wale.

**West**—From the shop of Shankar pan wale, towards west taking the shop of the Shankar pan wala, infront of Himanchal Street Main Market upto Shope of Jain temple. From here crossing the road upto Bhagat Jawelars from here Himanchal Street towards all house's of right side upto the house of Seeta Ram Soni.

**North**—From the house of Seeta Ram Soni taking the temple of Lakhera upto the house of the Narendra urfh Mammu Jain. From here crossing the road taking the Moti Mashjid upto Shop's of Rajkumar Jain. From here towards East upto Samay Guest House.

## WARD No. 10—THAKURDAS WARD

**South**—Starting the Kunwapura Darwaja house of Israieel Khan towards west side. Upto politecnic (doing outside).

**West**—from politecnic to fields upto infront of grain market.

**North**—From infront of mandi Including the Govt. residentail quarter's leaving the police line office upto the house of retaired police man Shekh Sattar alias Caipeten Indra Colony.

**East**—From the house of Caipeten Indra Colony towards South taking the Kunwar pura darwaja (house's of right side) upto the house of Shree Israeel.

#### WARD No. 11—BALMIKI WARD

**East**—From the Slater house Bori darwaja upto The house's of Chairmen Shree Rakesh Giri.

**North**—From the house of Rakesh Giri Crossing the road, taking the house of Dharm pal Singh, upto Kunwar pura darwaja The house of Bharose Harijan. From here towards west upto The house of Israeel alias Raju.

**West**—From the house of Israeel Khan to Kunjbihar/ Mola Bakhsh Colony leaving the current MIB School, Crossing the Dhonga road in Harijan basti upto Devi Mandir in beside water tanki. From here in South towards left side tanking tha All house upto Field of Peti raja.

**South**—From the Fields of Peti raja doing the outside of Khusipura.Taking the all house of Back side of Rambag upto Bori darwaja slater house.

#### WARD No. 12—AMBEDKAR WARD

**North**—Starting the Godown of Food coporation of India taking the Dhonga Chakra and politecnic Collage upto well of near water tanki.

**East**—From well crossing the road Devi Mandir upto The house of Roopa alias Munna Harijain, All house of right side. From here doning outside. The field of Ramsevak Pathak upto Bori road, brim of road Khusipura. From here inside of khushipura upto bandhan of pond Maharajpura.

**South**—From brim of pond Maharajpura bandhan Inside the temple's. From Broi Road upto Khoont Cremation Ground of Nootan Bihar Colony.

**West**—From Inside of Nootan Bihar Colony, Making the All house's of Fields Gaya Prasad Soni upto Godown of food Corporation of India.

#### WARD No. 13—KUREMATE RAMASRE WARD

**West**—Starting the house of Saleem taking the house of Prabhu dayal Ahirwar upto the house of Bhagvandas Sahu infront of Chairmen Rakesh Giri.

**North**—From the house of Bhagvandas Sahu towards East upto Ghuwara Abhushan Sadan.

**East**—From Ghuwara Abhushan Sadan towards South upto the house of Shree Munna Sahu.

**South**—From Munna Sahu house's taking the Gali near of the house's Laxman Sahu towards left side of All house's. From the house of Lachchhu Kachhi towards Bori darwaja upto Kamta Jaiswal house's. From here taking the house of Najeer upto Saleem house's.

#### WARD No. 14—LAL BAHADUR SHASTRI WARD

**East**—From The shope of owner's Jain temple Papora Jawahar Chouk upto The all house's of Left side shope of shiva electicals.

**North**—From Shiva electrical towards in left side house's of Madar Chilla, inside of house's of Risaldar, upto the house of Kadir Kha in Shramdan Marg.

**West**—From Kadir Khan house's Crossing the street leaving the house of advocate Karim Khan, Near street in front of reached Rajmahal taking the all house's of left side upto the house of Hariballabh Tamrakar.

**South**—From the house of hariballabh upto East the house of Kapoor Chandra Ghuwara From here crossing the road from the house of Nathuram Vishwakarma in street of khangrol towards left side's house of Rahmatulla and Lal Ji nuna or including the all house's of Himanchal street upto the house of Sukhnandan Soni. From here crossing the road house of Kailash Soni upto Shop's of Jawahar Chouk.

#### WARD No. 15—JAWAHAR LAL NEHRU WARD

**East**—From Sailsagar road the house of Bhagvandas dubey upto Kotwali.

**South**—From Kotwali towards west upto The house of Nandram Seth. From here house of Haji raseed ali crossing the road from Shiva electicals upto Madar Chilla. leaving the house of Resaldar. From here Gali of Kallu Shah upto hand pump.

**West**—From hand pump taking the house of Abdul Shakoor and Mohan Dheemar upto Veerendra Rai, From here crosssing the road upto Madarsha Garib Nawaj.

**North**—From Madrsha Garib Nawaj towards east upto the house of Nirmal Jain. From here crossing the road around the peeli Kothi upto the house of Bhagvandas Dubey.

#### WARD No. 16—BHAGWAN MAHAVEER SWAMI WARD

**South**—Starting roraiya the house of Manoj Madvaiya toword east upto Rajmahal.

**East**—From Rajmahal crossing the road taking the house of Sanat Kumar Jain going to tailing Gali. Taking the house of Kareem Advocate, Shramdan Mard, Acrossing road the house of Shahenoor Khan Bangali towords handpump. The house of Chhiddu electicals front of Madarsha, Crossing the road Taking the house of Harlal Sahu upto reng office Nandishwar Colony gate.

**North**—From Nandishwar colony towards west, Upto in Indra Colony, the house of Ikwal Khan.

**West**—From the house of Ikwal Khan Indria Colony towords Kunwarpura darwaja upto the house of Shri Phool Chandra Sahu, from here crossing the road of the house of Kasim Khan towords roraiya, taking the senior basic School upto the house of Manoj Madvaiya.

#### WARD NO. 17—NETA JI SUBHASH CHANDRA BOSE WARD

**South**—Starting From the house of Shree Jumman Khan towards East upto Nandishwar Colony Gate.

**East**—From the Gate of Nanddishwar Colony taking the Gopal quarters and police line Office upto Banglo PWD engineer.

**North**—From the Banglo of PWD Subhaspuram Colony infront of the house of Pooran Singh, includes of Govt, Qwarters and row of left side house Shree Mratunjay Dixit upto the house of Shree Ram Gopal Shukl.

**West**—From the house of Ram Gopal Shukla taking the house of infront of existing Grain Market (excluding the Grain Market) in to the Police line upto Anganbadi Center, From here towords south upto Indira Colony in House of Jumman Khan.

#### WARD No. 18—RAJIV GANDHI WARD

**West**—Starting in the Shubhash puram Colony the house of Smt. Upasna Dubey toworads east.Taking the house of Pooran Singh, upto All house of Banglo of District Judge resident.

**East**—From the Banglo of District Judge resident towards south upto Municipal Office.

**North**—From the Municipal Office including the Unsav Bhavan, Taking the Shive Uagar Colony upto Harijan Hostal.

**South**—From the Harijan Hostal insided the Bodh Vihar Colony which is the current MLB School. From The remaining portion of the road between placing out land of Kranti, In the fields behind the Police Line upto the house's of Smt. Upasna Dubey.

#### WARD No.. 19—BAGAT SINGH WARD

**West**—Starting the house of Jibrial towards North side infront of Hospital upto Poolia of Sarkit house.

**North**—From the Hospital infront of Sarkit house taking the Collector Banglo upto Poolia of Stadium.

**East**—From Chopulia towards Santoshi Mata Mandir upto Bihari Das Mandir.

**South**—From Biharidas Mandir upto in west house of Smt. Kiran Khare and taking the house of Ramkumar yadav and arise Bandhan Sailsagar upto house's of Jibrial.

## WARD No. 20—INDIRA GANDHI WARD

**West**—Starting the Rajendra Hospital towards the north upto Chakra Tirahe.

**North**—From Chakra Tirahe towards Vinod Kunj Sidhi Vinaikpurm Narguda Tigaila and taking the house Mohan Lal Yadav upto Vindravn pond Pankhi road.

**East**—From Panki of Brindavan pond badhan road. Taking the Gurukul College upto Chaupulia.

**South**—From Chaupulia, towards west, Friends Colony, taking the Indrapuri Colony upto the Rajendra Hospital.

## WARD No. 21—JANKI BAG WARD

**West**—From Chakra tiraha upto railway pulia.

**North**—From Railway bridge, taking the railway station and leaving the railway line including the District Commandent office of the Nagar Sena upto Chhatrasal gate.

**East**—From Chhatrasal gate towards south taking the Baikunthi, Bada Majhar upto the House of Rajjak Khan.

**South**—From the house of Rajjak Khan towards west taking the Jugal niwas, upto Janki Bag from here Crossing the road Right sides, leaving Bhagvant Cloub, taking Brindavan talab. After Pankhi front side road from the house of Narguga Tigaila Mohan Yadav upto Chakra Tirahe (All the houses of right side).

## WARD No. 22—GURU NANK WARD

**West**—Starting from Sailsagar pulia behing the house of pond sailsagar taking only Bandhan of Sailsagar upto Kanji house.

**East**—From Kanji house towards jai Stambh. Front side of Bhagat Ram Makkad upto house of Rakesh Tiwai. From here crossing the road, leaving the house of Shri Jawahar Kharya, taking the houses of right side upto the office of Fateh Singh.

**South**—From the office of Fateh Singh, towards west upto the house of Haridas Sahu driver in front of the house of Patangi Sahu. from here taking the houses of Sharafhat ulla and Jabbar Khan (ex-Chairman) upto the house of Rakesh Tiwari Advocate in front of Bhagatram Makkad.

**North**—From the house of Rakesh Tiwari Advocate upto Sail Sagar Pulia in west side.

## WARD No. 23—NOOR MUHAMMAD WARD

**North**—Starting the house of Jabbar Khan compounder, taking Saltaniya Mashjid upto the house of Bhagatram Makkad.

**East**—from the house of Bhagatram Makkad towards Jai Stambh upto the house of Patangi Sahu.

**South**—From the house of Patangi Sahu upto the house of Yaseen Bag.

**West**—From the house of Yaseen Bag, taking right side houses of the Gali of Dr. Khan upto the house of Jabbar Khan Compounder.

## WARD No. 24—MAULANA ABDUL KALAM AJAD WARD

**West**—Starting sailsagar Puliya from the house of Balchandra Pehalwan towards Kotwali, taking the houses of left sides, inside girls school upto building of main Branch State Bank of India including the shop's situated in the Rajendra Park western part.

**South**—from Building of main Branch State Bank of India towards the east Chhota Pul upto municipality shops from here towards old bus stand upto shop's of Muhammad Yakob from here crossing the road outside of Kilawa Hudda Pahadi taking the shop's and house left side and taking the old Bus stand upto the house of Munna khan in Beldar Basti.

**East**—from the house of Munna Khan, in the narrow street, upto the house of Makund Singh, taking left side houses.

**North**—from the house of Makund Singh, Jai stambh, inside the Masjid, taking left side houses infront of Yasin Beg going to Dr. Khan's street his clinic upto Sailsagar Puliya.

## WARD No. 25—SANJAY GANDHI WARD

**South**—Starting of office of Fateh Singh's street taking right side houses around Lakkadkhkhana upto Safedar's house.

**West**—from the house of Safedar towards East the house of Babulal Rawat, from here crossing the road, taking the house of Ganesh Kumhar in front of Biharidas temple from towards North around the Bhagwant clubu upto Ambedkar tiraha. from here crossing the road

and taking the Building of forest department towards New Bus stand upto Natthu Yadav's house.

**East**—From Natthu Yadav's house towards Hada upto CC road, from here taking the houses of right side upto dayal Park and then in south upto the Kamal Setu.

**North**—From Kamal setu taking the right side house's towards old bus stand upto the house of Mr. Sukhai Baildar infrom of the house of Munna Khan. from here taking right side houses upto Mr. Goving Sisodiya's house in front of Makund Singh. from here crossing the road and taking right side houses upto the office of Fateh Singh.

#### WARD No. 26—DR. RAJENDRA PRASAD WARD

**South**—Starting from Kamal setu going to Hada reaching behind Bagar Gaushala then taking Adiwasni Basti (Sauryana) upto the temple of Khange ke Hanuman ji.

**East**—from the temple of Khange ke Hanuman ji towards Hada in the way infront of the house Mardan Ahirwar (leaving his house) towards west upto Reliance Petrol Pump.

**North**—From Relince Petrol Pump towards Ambedkar tiraha and taking left side houses upto the ruins Pradhumn Singh Solanki.

**West**—From the ruins Pradhumn Singh Solanki towards Hada upto CC road. From CC road taking left side houses Mahaveer Marrige garden upto Kamal Setu.

#### WARD No. 27—CHANDRASHEKHAR WARD

**West**—Starting Varma sail Petrol pump towards new Bus stand upto Chatrashaal dawar.

**North**—From Chatrashaal dawar crossing the road towards going to Shani temple and reaching the Badhan of Stop dam upto Siddiqui Khaleefa's plot at Sudha Sagar road.

**East**—From the Siddiqui Khaleefa's plot towards North side crossing the fields upto Mardan Ahirwar's house.

**South**—from Mardan Ahirwar's house towards west side's field upto Varma sail Petrol pump.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 342-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डा. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् कारी, जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

#### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	नेहरू वार्ड
2	सुभाष वार्ड
3	भगतसिंह वार्ड
4	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
5	महावीर वार्ड
6	महात्मा गांधी वार्ड
7	डॉ. अंबेडकर वार्ड
8	बाल्मीकी वार्ड
9	मंडल वार्ड
10	अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
11	रामराजा वार्ड
12	नारायणदास खरे वार्ड
13	वियोगी वार्ड
14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
15	इंदिरा गांधी वार्ड

#### वार्ड क्रमांक 01—नेहरू वार्ड

**उत्तर**—गुरार खिरक की पुलिया से होते हुये गंगा सागर धर्मशाला होते हुए खिन्नी मंदिर तक.

**पूर्व**—मुरार का खिरक सम्पूर्ण.

**दक्षिण**—बसंता ढीमर से सुखदीन ढीमर के घर के पीछे होकर मर्दन ढीमर के मकान तक.

**पश्चिम**—आशा यादव के मकान से रामचरण यादव के मकान होते हुये मुरार की पुलिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—खूब अली बैना के मकान से प्रानी जोशी के मकान तक.

**पूर्व**—रत्न यादव के मकान से स्वामी यादव, कोमल यादव की मकान की लाईन से लेकर रनू अहिरवार के मकान तक (झोंगा में).

**दक्षिण**—छव्की ढीमर के मकान से गनेश ढीमर सम्पूर्ण मझपुरा शामिल करते हुये ग्वालबाबा होते हुये झांसी रोड तक.

**पश्चिम**—रघुवर आदिवासी के मकान से होते हुये बेटीबाई ढीमर गुलाब यादव, भगवानदास, हरदास ढीमर के मकान लेते हुये ढोंगा हरिजनबस्ती में चत्तू अहिरवार के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 3—भगतसिंह वार्ड

**उत्तर**—ढोंगा हरिजनबस्ती में दोमा अहिरवार से वंशी अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—चिन्तू चमार के मकान से बहादुर कुम्हार के मकान से ऊपर की लाईन लेते हुये एवं रनमत सिंह ठाकुर की गणना करते हुये राधव जोशी के मकान से नथु खंगार के मकान तक.

**दक्षिण**—नथु खंगार के मकान से नगरपालिका ऑफिस को लेते हुये हनुमत सिंह के मकान तक.

**पश्चिम**—हनुमत सिंह के मकान से मुख्य सड़क लेते हुये बगर से जरा नाला नारायणदास यादव, पर्वत यादव कड़ेरे यादव का घर होते हुये ढोंगा में डौमा चमार के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 04—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर**—सम्पूर्ण मगरऊ से लेकर मंगल भवन होकर लछुआ अहिरवार के मकान से प्रभू वंशकार बाबू जोशी के मकान तक.

**पूर्व**—देवेन्द्र जोशी के घर से लेकर मस्जिद वाली ऊपर की गली लेते हुये शेख लतीफों के मकान तक.

**दक्षिण**—जब्बार खां के मकान से असगर से दयाली प्रजापति का मकान लेते हुये गफकार खां होते हुए पहलवान जोशी, रमेश साहू के मकान तक.

**पश्चिम**—कुंजी जोशी के मकान से लेकर वीरेन्द्र जैन का मकान लेते हुये गोपाल तिवारी से श्रीराम के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 05—महावीर वार्ड

**उत्तर**—जैन धर्मशाला के पीछे के कुन्दन वैद्य की लाईन लेकर वंशी साहू, मुनू पाल, महेश जोशी, इरफान के मकान से लेकर इदरीश का मकान लेते हुये राजाराम पटैरिया के मकान तक.

**पूर्व**—शिवराम दीक्षित के ऊपर नथु के चौक मकान लेकर बालाराम नाथूराम पटैरिया के मकान लेते हुये फूलचन्द्र

जैन के मकान से होते हुये ऊपर की लाईन नंदलाल साहू तक, साहू की सामने की लाईन से नीचे हुये बड़े मंदिर तक.

**दक्षिण**—दिनेश घोष के मकान के होते हुये हरीराम यादव बन्दू बाढ़ई के मकान तक.

**पश्चिम**—मुन्ना बाढ़ई से बगल में गौँडबाबा के पास के मकान लेते हुये मुकेश विश्वकर्मा का मकान लेते हुये दसरथ प्रजापति से होते हुये गुलाबचन्द्र जैन से सीताराम तिवारी तक.

### वार्ड क्रमांक 06—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—भगवानदास जैन के मकान से लेकर रामप्रसाद घोषी, गुरैराय मुहल्ला, हरि बाढ़ई, सुमन माली, अमान यादव को लेते हुये नाथूराम लिटौरिया के मकान तक.

**पूर्व**—नाथूराम लिटौरिया के मकान से शिवदीन घोष शिवचरण श्रीवास्तव घन्सू यादव के मकान से कपूरे टड़ैया के मकान तक.

**दक्षिण**—टड़ैया के मकान से जैन मंदिर को लेते हुये जैन धर्मशाला तक.

**पश्चिम**—रविनारायण तिवारी से कल्लू रंगरेज तक.

### वार्ड क्रमांक 07—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—खंदिया आश्रम वंशी वंशकार परमू सौर का मकान होते हुये चतुर्भुज आदिवासी के मकान तक.

**पूर्व**—बालक अहिरवार के मकान से भगवानदास अहिरवार मोहन वंशकार उत्तम वंशकार, मुन्ना वंशकार, श्याम वंशकार के मकान तक.

**दक्षिण**—शिवलाल वंशकार के मकान से दलू हिरऊआ वंशकार तक.

**पश्चिम**—निष्ठु वंशकार से लेकर ऊपर की लाईन के सम्पूर्ण वंशकार लेते हुये गनू अहिरवार के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 08—बाल्मीक वार्ड

**उत्तर**—नन्हे आदिवासी के मकान से गुलाब पन्ना लेते हुये फूला आदिवासी के मकान तक.

**पूर्व**—धनुआ बुनकर के मकान से लेकर पाण्डेय जी का मकान लेते हुये मुन्नी काछी का मकान तक.

**दक्षिण**—रमसू अहिरवार के मकान से सुखलाल बाल्मीक लेते हुये सरजू मौजी आदिवासी तक.

**पश्चिम**—रामदयाल आदिवासी से लेकर ऊपर नीचे सम्पूर्ण आदिवासी मुहल्ला लेकर फूला आदिवासी के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 09—मण्डल वार्ड

**उत्तर**—मुना रावत के मकान से लेकर पुतीलाल तिवारी के मकान तक.

**पूर्व**—पुतीलाल तिवारी से रगू काढ़ी, बाबूलाल नामदेव, तालाब पर लक्ष्मण जी के मंदिर के पास तक.

**दक्षिण**—कंचनपुरा में मुना नापित के मकान से चैनू कोटर रैकवार का मकान लेते हुये कल्ला, गौरईया, सूरा रैकवार लल्लू गोरइया खचौरी रैकवार से होते हुये पूरन के मकान तक तथा मुलुआ रैकवार से बबू की दुकान तक.

**पश्चिम**—शास्त्री हाईस्कूल से नीचे, राजकुमार तिवारी से कैलाश जैन पीछे के अहिरवारों के मकान शामिल कर हर्ष कुमार जैन के मकान तथा शिखर जैन के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 10—अब्दुल कलाम वार्ड

**उत्तर**—गुन्दलयाना का खिलक एवं कुशवाहों के खिरक तक.

**पूर्व**—गिलौंजी तिवारी के मकान से रामप्रसाद तिवारी पूरन काढ़ी के मकान से पूरी कछयाना बस्ती तक.

**दक्षिण**—दुर्गा खंगार का मकान एवं लुहरयाना बस्ती शामिल करते हुये.

**पश्चिम**—दुर्गा खंगार के मकान ऊपर मैन रोड के मकान लेते हुये गिलौंजी तिवारी के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 11—रामराजा वार्ड

**उत्तर**—बाबू ढीमर से जनू तक.

**पूर्व**—हनुमान मंदिर से मैन रोड तक.

**दक्षिण**—र्या ढीमर से पुराने स्कूल दक्षिण दिशा के सम्पूर्ण मकान लेते हुये रतीराम एवं देवी ढीमर के मकान तक.

**पश्चिम**—देवी ढीमर, रतीराम जनू से होते हुये बाबू ढीमर का मकान लेते हुये हनुमान जी मंदिर तक.

### वार्ड क्रमांक 12—नारायणदास खेर वार्ड

**उत्तर**—भगवानदास धोबी के मकान से लेकर लक्ष्मना रैकवार होते हुये जगना गौरईया के मकान तक.

**पूर्व**—भैयालाल कुशवाहा के मकान से कुटुआ कुशवाहा जसरथ कमलू रैकवार के मकान होते हुये बाबूलाल डगरूआ वाले के मकान तक.

**दक्षिण**—रघुवीर नापित के मकान से कालीचरन रैकवार खुल्ला हरबू कुशवाहा, मोकम, हल्के रैकवार, छिद्दू रैकवार, कैलाश साहू, रानी कुशवाह के मकान तक.

**पश्चिम**—हल्लू रैकवार के मकान से स्कूल होते हुये फक्कड़ बाला गोरेलाल, भाँगा से होते हुये मुनी, रामदास, जगना रैकवार के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 13—वियोगी वार्ड

**उत्तर**—छक्की कुशवाहा के घर से रज्जू पठार वाले का परिवार सुकू कुशवाह एवं फायर बिग्रेड गैरिज तक.

**पूर्व**—नया आयुर्वेदिक भवन से लेकर पम्प हाउस होते हुये नारायणदास विश्वकर्मा का बेड़ा से डामर रोड की ऊपर की पट्टी, गोरेलाल कुशवाहा पांखी पर, लक्ष्मन एवं आशा कुशवाहा के घर तक.

**दक्षिण**—किशोरी कुशवाहा से गोरेलाल कुशवाहा के बेड़ा तक एवं गुलाब कुशवाहा, हनू कुशवाहा की दुकान, रामदयाल घोष के मकान से सम्पूर्ण राउन कुशवाहा मुहल्ला लेते हुये बसंता कुशवाहा के घर तक.

**पश्चिम**—मोहन कुशवाहा एवं उत्तम घोष का घर लेते हुये ननू दौले, मोललाल, जगदीश रजक, खुन्कू रजक से होते हुये चैने कुशवाहा के घर तक.

### वार्ड क्रमांक 14—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—भागीरथ कुशवाहा के घर, नहर की पुलिया, बरखेरा हनुमान मंदिर एवं देवपुर माता मंदिर, केशर यादव का घर लेते हुये रामबगस यादव का घर होते हुये मुलायम यादव के घर तक.

**पूर्व**—मुनीघोष, हुकुम, किशोरी, पुन्डू भुमानीदास पूरा परिवार लेते हुये हल्काई घोष, रामदीन घोष महीप घोष का घर लेते हुये आशा घोष, रघुवीर, विन्द्रावन, कोमल, केहर, जगदीश एवं दामोदर वनरक्षक के घर तक.

**दक्षिण**—सरकारी कूप शंकर जी के मंदिर से सम्पूर्ण हरिजन बस्ती लेते हुये देशपत यादव के घर जानी पाल का घर लेते हुये छनू अहिरवार के घर तक.

**पश्चिम**—बालू कुशवाह खाड़े कुशवाहा के घर से बछोड़ा वाले अहिरवार के घर होते हुये रमेश घोष बृजलाल घोष के घर तक.

### वार्ड क्रमांक 15—इन्द्रा गांधी वार्ड

**उत्तर**—नशू कुशवाहा, ननू लाऊ, हज्जू नन्नी, रामदयाल, गुमान, हल्लू गनेश, पूरा गढ़ाधाट परिवार से बीरेन्द्र साहू, कारस देव का मंदिर लेते हुये भल्लू यादव, चनू कुशवाहा का, रज्जू कुशवाहा, भैयन नापित, दुली घोष, भवानी विश्वकर्मा, माते घोष चिमदे, पूरन कुशवाह के घर तक.

**पूर्व—**हरीराम सोनी के घर से खूबचन्द्र नापित लुहरगुवां वाले, बालचन्द्र घोष का घर लेते हुये हाईस्कूल एवं पिलन कुशवाहा, परमू कुशवाहा, जुद्दा कुशवाहा के घर तक प्राथमिक शाला अमरसिंह ठाकुर का घर, कुसुम का घर लेते हुये रामदास, छिंदुआ अहिरवार, रामपाल अहिरवार के घर तक.

**दक्षिण—**दशरथ यादव के घर से जयराम रामदास, गनपत घोष, सुदूर सिया विन्दा कुशवाहा का घर लेते हुये पूरा पाल मुहल्ला लेते हुये राजू नापित, बरेलाल कुशवाहा बानपुर वले का परिवार, छनू पाल, पहलवान यादव का घर लेते हुये फूले यादव, हल्के यादव होते हुये श्रीराम, पप्पू हरी कलार के घर तक.

**पश्चिम—**मुना कुशवाहा, गोपी कुशवाह, राजू, बल्लू, उत्तम घोष का घर लेते हुये स्वामी घोष धनू कुशवाहा, ननू कुशवाहा, रामदीन, लक्ष्मन मोहन घोष के घर तक.

### सुदाम खाडे, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 342- 2014.—In exercise to the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of wards of Nagar Parisad Kari distt. Tikamgarh as per Schedule:—

### SCHEDULE

#### Number and Name of the Ward

Ward No.	Name of Ward (1)	Name of Ward (2)
1	Nehru Ward	
2	Subhash Ward	
3	Bhagat Singh Ward	
4	Chandra Shekar Ward	
5	Mahaveer Ward	
6	Mahattma Ward	
7	Dr. Ambedkar Ward	
8	Balmiky Ward	
9	Mandal Ward	
10	Abdul Kalam Ward	
11	Ramraja Ward	

(1)	(2)
12	Narayan Das Khare Ward
13	Viyogi Ward
14	Lal Bahadur Shashtri Ward
15	Indra Gandhi Ward

### WARD No. 01—NAHRU WARD

**North—**From puliya Gurar Khirak upto Dharamshala Gangasagar in temple Khinni.

**East—**All Gurar Khirak.

**South—**From house of Basanta Dhimar upto house back Sukhdeen Dhimar in the house of Madan Dimar.

**West—**From house Asha Yadav upto house of Ramcharan Yadav in the Jara Nala.

### WARD No. 02—SHUBHASH WARD

**North—**Starting from the house of Khoob Ali upto Prani Joshi's house.

**East—**From the house of Rattu Yadav upto the house of Sowami Yadav taking the line of komal's house upto the house of Rannu Ahirwar (Dhonga).

**South—**From the house of Chhakki Dhimar upto the house's Ganesh Dhemar. Including the all majhpura going to Gowalwaba upto Jhansi road.

**West—**From the house of Raghuvir Adiwasi towards the house of betibai Dhemar, Gulab Yadav, Bhagvandas, Hardas Dhemar up to in dhonga harijan basti Chattu ahirwar house's.

### WARD No. 03—BHAGAT WARD

**North—**Starting from the Harijan basti Damodar's house upto the house of Banshi Ahirwar.

**East—**From the house of Chintu Chamar taking the house of Bahadur Kumhar Top of line and count the house of Ranmat singh thakur, Raghav Joshi's house upto the house of Natthu Khangar.

**South—**From the house of Natthu Khangar taking the office of Nagar Palika upto the house of Hanumat Singh.

**West—**from the house of Hanumat Singh taking the main road bagar to Jara Nala, Narayan Das, Parvat Yadav, Kadore Yadav house's upto in Dhonga Douma Chamar's house.

**WARD No. 04—CHANDRA SHEKHAR  
AZAD WARD**

**North**—From the Starting All Magrau going to Mangal Bhavan Lachhua Ahirwar's house upto the house of Prabhu Banskar, Babu Joshi.

**East**—From the house of Devendra Joshi taking the top of line upto the house of shekh latiph's house.

**South**—From the house of Jabbar Khan taking the house of Asgar to Dayali Prajapati going to the house of Gaffhar Khan, Jhoshi Pahalwan upto the house of Ramesh Sahu.

**West**—From the house of Kunji Joshi taking the house of Verendra Jain, Gopal Tiwari upto the house of Shriram.

**WARD No. 5—MAHAVEER WARD**

**North**—Starting from the behind of Jain Dharmashala taking the line of Kundan Baidh, Vanshi Sahu, Munu Pal, Mahesh Joshi, irphan's house and Idresh house upto the house of rajaram Pateriya.

**East**—From the house of Shivram dixhit taking the house of the top choke nathu, Balaram Paterya, from phool Chandra jain house's upto the top of line Nandlal house. From the front line of Sahu's house upto the bade temple.

**South**—From the house of Dinesh Ghosh upto the house of bandu Badhai's house.

**West**—From the house of Munna Badhai beside taking the all house's of near Gond Babba and Mukesh. Vishwkarma's house towards Dashrath Prajapati, Gulab Chandra Jain upto the house of Setaram Tiwari.

**WARD No. 06—MAHATMA GANDHI WARD**

**North**—Starting the house of Bhagvandas Jain taking the house of Ramprasad Ghoshi, Guraiya Mohalla, Hari badhai, Summan Mali, Aman Yadav upto the house of Nathuram Litoriya.

**East**—From Nathuram Litoriya's house taking the house of Shivdeen Ghosh, Shivcharan Shiriwastav, Ghanshu Yadav upto the house of Kapoore Tadaiya.

**South**—From the house of Tadaiya taking the temple of Jain upto Jain Dharmashala.

**West**—From Ravi Narayan Tiwari upto Kallu Rangrez.

**WARD No. 07—DR. AMBEDKAR WARD**

**North**—Starting the Khandya Ashram taking the house of Vanshi Vanshkar, Parmu sor upto the house of Chaturbhuj Adiwas.

**East**—From the house of Balak Ahirwar upto Bhagvandas Ahirwar, Mohan Vanshkar, uttam Banskar, Munna Banskar, Shyam Banskar's house.

**South**—From the house of Shiv lal Banskar upto dalu, hiroua Banskar's house.

**West**—From the house of Shibbu Banskar taking the top of line all Banskar upto the house of Ganu Ahirwar.

**WARD No. 08—BALMIKI WARD**

**North**—Starting the house of Nanhe Adiwas taking the house of Gulab Panna upto the house of Phoola Adiwas.

**East**—From the house of Dhanua bunkar taking the house of Pandey upto the house of Munni Kachhi.

**South**—From the house of Ramsu Ahirwar taking the house of Sukhlal Balmik upto the house of Moji Adiwas.

**West**—From the house of Ramdayal Adiwas taking the all Adiwas Mohalla top and bottom upto the house of Phoola Adiwas.

**WARD No. 09—MANDAL WARD**

**North**—Starting from the house of Munna Ravat upto Putti Tiwari's house.

**East**—From Putti Tiwari's house upto Ragguk Kachhi, Babu lal Namdev, on the pond and near of the temple laxman ji.

**South**—From in Kancanpura the house of Munna Napit taking the house of Kotar Raikwar. Going to Kalla, Goraiya, Sura Raikwar, Lallu Goraiya Khachori Raikwar upto Pooran's house. From the house of Mulu Raikwar upto the shope of Babbu.

**West**—From down to Shashtri high School, Rajkumar Tiwari's house upto Kailash Jain including the all house of Ahirwar and the house of Harsh Kumar Jain upto Shikhar Chandra Jain's house.

## WARD No. 10—ABDUL KALAM WARD

**North**—Starting from the Gundalyana Khirak upto Khirak of Kushwaha's.

**East**—From the house of Gilonzi Tiwari taking the house of Ramprasad Tiwari, Pooran Kachhi upto the all Kachyana Basti.

**South**—From the house of Durga Khangar upto include luharyana basti.

**West**—From the house of Durga Khangar taking the house of main road upto the house of gilinzi Tiwari.

## WARD No. 11—RAMRAJA WARD

**North**—Starting the house of Babu Dhemar upto Jannu.

**East**—From the temple of Hanuman upto rain road.

**South**—From the house of Gaya Dhemar taking the old school, and all house of west side. upto the house of Ratiram and devi Dhemar.

**West**—From the house of devi Dhemar and Ratiram Jannu taking the house of Babu Dhemar upto the temple of Hanuman ji.

## WARD No. 12—NARAYAN DAS KHARE WARD

**North**—Starting from the house of Bhagban das Dhovi towards Laxman Raikwar upto the house of Jagna Goraiya.

**East**—From the house of Bhaiya lal Kushwaha taking the house of Kutua Kushwaha, Jasrath, Kamlu Raikwar upto the house of Babu lal Dagarua.

**South**—From the house of Raghuveer Napit upto the house of Kalicharan Raikwar, Khulla Harbu Kushwaha, Mokam, Halke Raikwar, Chhiddu Raikwar, Kailash Sahu, Rani Kushwaha.

**West**—From Hallu Raikwar's house going to school, Phakkad baba, Gore lal, Bhagone, Munni, Ramdas Jagna Raikwar's house.

## WARD No. 13—VIYOGI WARD

**North**—Starting from the house of Chhakki Kushwaha upto family of Rajju Pathar Sukku Kushwaha and Gayriz of fire bigred.

**East**—From new building of Ayurvedik taking the Pump house from field's of Narayandas

Vishwakarma, top line of road, Gore lal Kushwaha Pakhai upto Laxman and Asha Kushwaha's house.

**South**—From the house of Kishori Kushwaha upto Gore lal Kushwaha's field. From Gulab Kushwaha, Hannu Kushwaha's shop and the house of Ramdayal Ghosh, taking the all Mohalla of Raun Kushwaha upto the house of Basanta Kushwaha.

**West**—From the house of Mohan Kushwaha taking the house of Uttam Ghosh's house, from Nanu Dole, Mollal, Jagdesh Rajak, Khunku Rajak upto the house of Chene Kushwaha.

## WARD No. 14—LAL BAHADUR SHASHTRI WARD

**North**—Starting the house of Bhagirath Kushwaha, Culvert of Canal, taking the temple of Hanuman & devpur Mata and the house of Kesar Yadav from Rambgas Yadav's house upto the house of Mulayam Yadav.

**East**—From the house Munni Ghosh, Hukum, Kishori, Puntu, taking the all family of Bhumani das, from the house of halkai Ghosh, Ramdeen Ghosh, Maheem Ghosh upto Asha Ghosh, Raghuveer, Bindravan, Komal, Kehar, Jagdesh and the house of forest solder Damoder.

**South**—From govt. well and temple of Shanker ji taking the all Harijan Basti the house of Deshpat Yadav, Gayani Pal upto the house of Chhannu Ahirwar.

**West**—From Babu Kushwaha, Khade Kushwaha's house taking the house of Bachhoda bale Ahirwar upto Ramesh Ghosh, Brijlal Ghosh's house.

## WARD No. 15—INDRA GANDHI WARD

**North**—Starting from the house of Natthu Kushwaha, Nanu, Lau, Hajju, Nnni, Ram dayal, Guman, hallu, Ganesh, and all family of Gadha Ghat, from Verendra Sahu taking the temple of Karasdev upto Bhallu Yadav, Channu Kushwaha, Rajju Kushwaha, Bhaiyan Napit, Duli Ghosh, Bhavani Vishwakarma, Mate Ghosh Chimde, Pooran Kushwaha's house.

**East**—from the house of Hariram Soni taking the house of Khoob Napit Luharguwa bale, Balchandra Ghosh, high school and pillan Kushwaha, Parmu Kushwaha upto Judda

Kushwaha's house. From Primary School and the house of Amar Singh Thakur taking the house of Kusum upto Ramdas, Chhidua Ahirwar, Rampal Ahirwar's house.

**South**—From the house of Dashrath Yadav taking the house of Jairam, Ramdas, Ganpat Ghosh, Sudhu Siya Binda Kushwaha's house and all mohalla of Pal, from Raju Napit, Bare lal Kushwaha, family of Banpur bale. after the taking the house of Chhannu Pal, Pahalwan Yadav upto Phoole Yadav Halke Yadav Goto Shri ram, Pappu, Hari Kalar's house.

**West**—From the house of Munna Kushwaha, Gopi Kushwaha, Raju, Bablu taking the house of Uttam Ghosh, from Sowami Ghosh, Dhanu Kushwaha, Nanu Kushwaha, Ramdeen, Laxman upto Mohan Ghosh's house.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 343-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् बडागांव (धसान), जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	अमृतलाल फणीन्द्र वार्ड
2	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
3	सरदार सिंह वार्ड
4	विवेकानंद वार्ड
5	अम्बेडकर वार्ड
6	वाल्मीकी वार्ड
7	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
8	नारायण दास खरे वार्ड
9	महात्मा गांधी वार्ड
10	इंदिरा गांधी वार्ड
11	लक्ष्मी बाई वार्ड

(1)	(2)
12	भगत सिंह वार्ड
13	संजय गांधी वार्ड
14	चन्द्रशेखर वार्ड
15	रानी दुर्गावती वार्ड

### परिसीमन एवं वार्ड विभाजन

#### वार्ड क्रमांक 01— अमृतलाल फणीन्द्र वार्ड

**पूर्व**—मठ से तालाब बंधान के नीचे से अयोध्या पाठक के मकान तक.

**दक्षिण**—पुष्टा सिंह के मकान से स्कूल होते हुए मोहन आदिवासी के मकान गढ़ा घाट तक.

**पश्चिम**—उद्दू कुशबाहा के मकान से गिल्ला ढीमर, पंचा, प्यारे अहिरवार, मुल्ली लोधी, पुष्टा सिंह के मकान छुंडा रोड दोनों तरफ.

**उत्तर**—हाकम सिंह के मकान से मड के पास होते हुए कूरा ढीमर के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**पूर्व**—बबू ढीमर के मकान से होते हुए नीचे की ओर कन्या प्रा. शाला खरे मुहल्ला तक.

**दक्षिण**—कन्या प्राथमिक शाला से होते हुए बिहारी लाल विश्वकर्मा के मकान से होते हुए अजुददी लोधी के मकान तक.

**पश्चिम**—सुखानंद जैन के मकान से मस्जिद होते हुए गिदू ढीमर का मकान, रगन ढीमर का मकान से रगवर ढीमर के मकान तक.

**उत्तर**—प्राथमिक कन्या शाला से नरेश खरे के मकान, शिवदयाल नापित के मकान, किले की रास्ता के दोनों ओर सीताराम पटेरया के मकान होते हुए सुखानंद जैन के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—सरदार सिंह वार्ड

**पूर्व**—जनता बाई ढीमर के मकान से हीरा ढीमर के मकान तक.

**दक्षिण**—आलम खान के मकान से सीताराम मिश्रा के घर होते हुए स्वामी पांडे के मकान तक.

**पश्चिम**—बलुआ ढीमर के मकान धर्मशाला होते हुए अल्लादीन के मकान तक.

**उत्तर—रामेश्वर ढीमर** के मकान से किले की रास्ता तालाब घाट तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—विवेकानन्द वार्ड

**पूर्व—टीकमगढ़** जाने वाली सड़क रामगोपाल विश्वकर्मा की आरामशीन तक.

**दक्षिण—राजेन्द्र पांडे** के मकान होते हुए हरिराम विश्वकर्मा के मकान डिगर्गा कुआं मंडी तक.

**पश्चिम—मंडी** से ककरैया कुशवाहा के मकान से जमुनिया खेरा कन्हैया ढीमर के मकान तक.

**उत्तर—बहोरी ढीमर** के मकान से टीकमगढ़ रोड अंतौरा तिगड़ा खरगा चढार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—अम्बेडकर वार्ड

**पूर्व—लल्लू नामदेव** के मकान से भगत सिंह के मकान तक.

**दक्षिण—भगत सिंह** के मकान से होते हुए विहारी लाल विश्वकर्मा मगन आदिवासी के मकान होते हुए देशराज के मकान तक एवं नगरपालिका पार्क से बालकिशन तिवारी को लेते हुए, रामकुमार कटारे, घनश्याम चौबे से आगे रामकुमार नामदेव के मकान तक.

**पश्चिम—अंतौरा तिगड़ा** प्रकाश यादव के मकान से वांगी और टीकमगढ़ मार्ग जमुनिया खेरा शिक्षा गारंटी शाला होते हुए छात्रावास.

**उत्तर—छात्रावास** से हीरा आदिवासी के मकान होते हुए लग्जन आदिवासी का मकान कल्लू आदिवासी दलुवा आदिवासी रामचरण आदिवासी के मकान घटिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—वाल्मीकी वार्ड

**पूर्व—के. पी. सोनी** के मकान से बरे बुनकर के मकान तक.

**दक्षिण—हल्कू कुशवाहा** के मकान से मिथला विश्वकर्मा के मकान होते हुए भगवानदास रजक के मकान तक.

**पश्चिम—भगवानदास रजक** के मकान से होते हुए जगदीश खंगर के मकान से के. पी. सोनी के मकान तक.

**उत्तर—वाल्मीकि मुहल्ला,** अस्पताल, थाना, बस स्टैण्ड तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—सुभाषचंद्र बोस वार्ड

**पूर्व—अशोक जैन** के मकान से वाला असाटी के मकान होते हुए गोरेलाल नापित के मकान तक.

**दक्षिण—पुलिया** से घनश्याम कुशवाहा, मानक लाल कुम्हार के मकान होते हुए हबीब खान बस स्टैण्ड, हाकम सिंह के मकान तक.

**पश्चिम—रमेश वाल्मीकि** के मकान से पानी की टंकी तक.

**उत्तर—छंदी अहिरवार** के मकान से हाकम सिंह के मकान होते हुए निर्भय खंगर हुसैन शाह के मकान से गनयाई वाले के मकान होते हुए पुलिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—नारायण दास खेरे वार्ड

**पूर्व—किशोरी गुप्ता** की गोदाम से सागर रोड धसान नदी तक.

**दक्षिण—तुखरयाऊ खेरा** पेट्रोल पम्प होते हुए बस स्टैण्ड वापिस लल्लू अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम—बस स्टैण्ड अरविंद जैन** की दुकान वरिया के पास से पारस अली के मकान तक.

**उत्तर—मोखरा रोड** दोनों ओर पावर हाऊस मंजू बुनकर के मकान से किशोरी गुप्ता की गोदाम तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—महात्मा गांधी वार्ड

**पूर्व—पूरन अहिरवार** के मकान से मातादीन अहिरवार के मकान होते हुए नंदी अहिरवार के मकान के पास के हैण्डपम्प तक.

**दक्षिण—जयकुमार** के मकान से ननू अहिरवार, छंदी अहिरवार के मकान होते हुए सटोला अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम—सुल्तान खां** के मकान दीन मुहम्मद जयकुमार जैन के मकान तक.

**उत्तर—बस स्टैण्ड संदीप जैन** के मकान से सुल्तान खां के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—इंदिरा गांधी वार्ड

**पूर्व—रधुआ अहिरवार** के मकान से कस्सी अहिरवार काशीराम अहिरवार के मकान तक.

**दक्षिण—पुरानी हरिजन धर्मशाला** प्यारेलाल के मकान तक.

**पश्चिम—उददेता मनू मनका** हिमतू सुना नथआ अहिरवार के मकान होते हुए मकुंदा काढी के मकान तक.

**उत्तर—नई धर्मशाला** के बीच का हिस्सा माया अहिरवार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—लक्ष्मी बाई वार्ड

**पूर्व—धनीराम देवलिया** के मकान से खालेपुरा रवि जैन के मकान तक.

**दक्षिण—नगर परिषद्** की दुकानें एवं पुरानी चौकी से दोनों तरफ मेन रोड में मंदिर चौराहे मानस भवन एवं पप्पू नकीव के मकान तक.

**पश्चिम**—कमल जैन की दुकान से जैन मंदिर की ओर कैलाश चंद्र जैन के मकान तक.

**उत्तर**—पूरन जैन एवं हुकुमचंद जैन के मकान रोड के दोनों तरफ रामकिशन गुप्ता व भगवानदास नायक के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 12—भगत सिंह वार्ड

**पूर्व**—गुलाब मुहम्मद एवं रामचरण कसगर वाली रास्ता के दोनों तरफ जग्गा खंगार एवं फुंदी बुनकर के मकान तक.

**दक्षिण**—फणीन्द्र मूर्ति से मस्जिद होते हुए मुन्नी इटौरया, रमेश पाण्डे, उमेदी खां पठान से रावर साहू के मकान तक.

**पश्चिम**—कडेरे के मकान से प्राणी बुनकर के मकान से अंदर दोनों तरफ की रास्ता कल्लू बुनकर के मकान तक.

**उत्तर**—तिल्लू खंगार के मकान से जूजा खंगार के मकान इमाम अली के मकान होते हुए फणीन्द्र मूर्ति तक.

### वार्ड क्रमांक 13—संजय गांधी वार्ड

**पूर्व**—शिवालय मंदिर प्रकाश गुप्ता के मकान से राजेश जैन के मकान तक.

**दक्षिण**—बाबूलाल विश्वकर्मा के मकान से मनुआ ढीमर को लेते हुए नाटा मुहल्ला हरचरण विश्वकर्मा नगर परिषद् होते हुए पूर्ण माली से अंदर कुलिया में राजाराम के मकान से महेन्द्र असाटी को लेते हुए स्वामी असाटी के मकान तक.

**पश्चिम**—भूरे खंगार के मकान से द्वारका खंगार के मकान होते हुए अजीज खां रामअवतार तिवारी के मकान से रमेश जैन रतिराम विश्वकर्मा के मकान तक.

**उत्तर**—राजेश जैन के मकान से कमलापत माली के मकान होते हुए राजाराम जैन के मकान तक फिर नरेन्द्र जैन के मकान से पंपू नामदेव के मकान दयाल साहू कुंदन साहू के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 14—चन्द्रशेखर वार्ड

**पूर्व**—खोली बुनकर के मकान दोनों तरफ की कुलिया सरस्वार मुहल्ला चौरयाल मुहल्ला दोनों तरफ रामेश्वर खरे के मकान तक.

**दक्षिण**—रामेश्वर खरे के मकान से राजेन्द्र खरे के मकान होते हुए गिलाई कुंआ हनुमान मंदिर गेट तक.

**पश्चिम**—कुंदन साहू के मकान से हीरा लाल चौरयाल, अशोक जैन सुखानंद जैन के मकान तक.

**उत्तर**—नन्नी धोबी के मकान से दोनों तरफ मानस भवन तक एवं ग्यासी खंगार के मकान होते हुए धनुषधारी मंदिर तक.

### वार्ड क्रमांक 15—रानी दुर्गाविती वार्ड

**पूर्व**—हनुमान मंदिर सीताराम चौरयाल के मकान से दोनों तरफ हनुमान मंदिर परिसर के गेट तक.

**दक्षिण**—लक्ष्मन ढीमर के मकान से होते हुए गेलकर खेगा, कायस्देव बाबा होते हुए नाथ मुहल्ला गढ़ा घाट तक.

**पश्चिम**—हनुमान गेट से जानकी साहू, गुबंदी विश्वकर्मा के मकान तक.

**उत्तर**—सीताराम चौरयाल, शेर सिंह के मकान होते हुए नन्नी भैया लोधी के मकान से मेन रोड हनुमान गेट तक.

**सुदाम खाडे**, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 343- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parisad Badagaon (Dhasan), distt. Tikamgarh as per Schedule:—

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Amritlal Phadindra Ward
2	Jawahar Lal Nehru Ward
3	Sardar Singh Ward
4	Vivekanand Ward
5	Ambedkar Ward
6	Valmeek Ward
7	Subhash Chand Bose Ward
8	Narayan Das Khare Ward
9	Mahatma Gandhi Ward
10	Indira Gandhi Ward

(1)	(2)
11	Laxmi Bai Ward
12	Bhagat Singh Ward
13	Sanjay Gandhi Ward
14	Chandrashekhar Ward
15	Rani Durgavati Ward

## DELIMITED AREA AND WARD DIVISION

## WARD NO. 01—AMRITLAL PHADINDRA WARD

**East**—From Monastery under the Pond Badhan to the house of Ayodhya Pathak.

**South**—From the house of Puspa Singh including the School to the house of Mohan Adivasi Gadaghat.

**West**—From the house of Uddu Kuswaha to the house of Gilla Dheemar, Pancha, Pyare Ahirwar, Mulli Lodhi, Puspa Singh both side of Dunda Road.

**North**—From the house of Hakam Singh including the Monastery to the house of Kura Dheemar.

## WARD NO. 02—JAWAHAR LAL NEHRU WARD

**East**—From the house of Baddu Dheemar towards the down of the Girls Primary School Khare Mohalla.

**South**—From the Girls Primary School including the house of Biharilal Viswakarma to the house of Ajjudi Lodhi.

**West**—From the house of Sukhanand Jain including to the Mosque, the house of Giddu Dheemar, Ragan Dheemar and the house of Ragvar Dheemar.

**North**—From Primary Girls School to the house of Naresh Khare the house of Shividyal Napit including the both side path of the fort, the house of Seetaram Pateriya and the house of Sukhanand Jain.

## WARD NO. 03—SARDAR SINGH WARD

**East**—From the house of Janta Bai dheemar to the house of Heera Dheemar.

**South**—From thee house of Aalam Khan including the house of Seetaram Mishra to the house of Swami Pandey.

**West**—From the house of Balua Dheemar including the Dharmshala to the house of Alladeen.

**North**—From the house of Rameswar Dheemar to the path of fort and Pond Ghat.

## WARD NO. 04—VIVEKANAND WARD

**East**—From the Tikamgarh Road to the Saw mill of Ramgopal Viswakarma.

**South**—From the house of Rajendra Pandey including the house of Hariram Viswakarma to the Digarra well, Mandi also.

**West**—From the Mandi and the house of Kakriya Kuswaha to the Jamuniya Khera and the house of Kanaiya Dheemar.

**North**—From the house of Bahori Dheemar to Tikamgarh Road, Antora Tigadda and house of Kharga Chadar.

## WARD NO. 05—AMBEDKAR WARD

**East**—From the house of Lallu Namdev to the house of Bhagat Singh.

**South**—Including the house of Bhagat Singh and the house of Biharilal Viswakarma the house of Magan Adivasi to the house of Desraj and from the Municipal Park including the house of Balkisan Tiwari, Ramkumar Katare and Ahead of the house of Ghanshyam Choube to the house of Ramkumar Namdev.

**West**—From the Antora Tigadda the left side of the house of Prakash Yadav, Tikamgarh Road, including Jamuniya Khera Shiksha Garanti School to the Hostal.

**North**—From the hostal including to the house of Heera Adivasi the house of Lakhan Adivasi, Kallu Adivasi, Dalua Adivasi and the house of Ramcharan Adivasi towards the above.

## WARD NO. 06—VALMEEK WARD

**East**—From the house of K. P. Soni to the house of Bare Bunkar.

**South**—From the house of Halku Kuswaha including the house of Mithla Viswakarma to the house of Bhagvan Das Rajak.

**West**—From the house of Bhagvan Das Rajak including the house of Jagdees Khangar to the house of K. P. Soni.

**North**—From the Valmeek Mohalla to the Thana, Bus stand.

#### WARD NO. 07—SUBHASH CHAND BOSE WARD

**East**—From the house of Ashok Jain including the house of Bala Asati to the house of Gorelal Napit.

**South**—From puliya including the house of Ghanshyam Kuswhaha, Manak Lal Kumhar, the house of Habbib Khan to the Bus Stand the house of Hakam Singh.

**West**—From the house of Ramesh Balmeek to the Tank of the water.

**North**—From the house of Chhandi Ahirwar including the house of Hakam Singh the house of Nirbhay Khangar the house of Husain Sah and including the house of Ganyai Bale Asati to the Puliya.

#### WARD NO. 08—NARAYAN DAS KHARE WARD

**East**—From the Godown of Kishori Gupta to Dhasan River, Sagar Road.

**South**—From Lukharyau Khera including the Petrol Pump return to Bus Stand to the house of Lallu Ahirwar.

**West**—From the Bus Stand the Shop of Arvind Jain near of Banyan Tree to the house of Paras Ali.

**North**—From the house of Manju Bunkar Mokhra Road both side of power house to the godown of Kishori Gupta.

#### WARD NO. 09—MAHATMA GANDHI WARD

**East**—From the house of Puran Ahirwar including the house of Matadeen Ahirwar to the Handpump near of the house of Nandi Ahirwar.

**South**—From the house of Jaykumar including the house of Nannu Ahirwar, Chhandi Ahirwar to the house of Satola Ahirwar.

**West**—From the house of Sultan Khan and Deen Mohammad to the house of Jaykumar Jain.

**North**—From the house of Sandeep Jain Bus Stand to the house of Sultan Khan.

#### WARD NO. 10—INDIRA GANDHI WARD

**East**—From the house of Radhua Ahirwar to the house of Kasi Ahirwar and Kasiram Ahirwar.

**South**—From the old Harijan Dharmasala to the house of Pyarelal.

**West**—Including the house of Uddeta, Munnu, Manka, Himtu, Sunna, Nathua Ahirwar to the house of Makunda Kachhi.

**North**—From the Middle part of new Dharmshala to the house of Maya Ahirwar.

#### WARD NO. 11—LAXMI BAI WARD

**East**—From the house of Dhaniram Devaliya to the house of Ravi Jain Khalepura.

**South**—From the shops of Municipal Council and both side of old Chowki to the Manas Bhavan Temple Chouraha main road and to the house of Pappu Nakkeeb.

**West**—From the shop of Komal Jain to the house of Kailash Chand Jain towards Jain Mandir.

**North**—From the house of Puran Jain and Hukamchand Jain both side of the road to the house of Ramkishan Gupta and Bhagwan Das Nayak.

#### WARD NO. 12—BHAGAT SINGH WARD

**East**—From the both side of the street of Gulab Muhammad and Ramcharan Kasgar to the house of Jaggu Khangar and funndi bunkar.

**South**—From the statue of Fadindra including the Mosque and the house of Munni Itoriya, Ramesh Pande, Ummedi Khan Pathan to the house of Ragvar Sahu.

**West**—From the house of Kachere to the house of Pragi Bunkar from the Inner both side of the street to the house of Kallu Bunkar.

**North**—From the house of Tillu Khangar to the house of Juja Khangar including the house of Imam Ali and the statue of Fadindra.

#### WARD NO. 13— SANJAY GANDHI WARD

**East**—From the Shivalay Temple the house of Prakash Gupta to the house of Rajesh Jain.

**South**—From the house of Babulal Viswakarma including the house of Manua Dheemar, Nata Mohalla, Harcharan Viswakarma, Municipal Council and the inner street from the house of Pooran Mali including the house of Rajaram Nakkeeb, Mahendra Asati to the house of Swami Asati.

**West**—From the house of Bhure Khangar including the house of Duwarka Khangar the house of Ajeej Khan and Ramavtar Tiwari to the house of Ramesh Jain and Ratiram Viswkarma.

**North**—From the house of Rajesh Jain including the house of Kamlapat Mali to the house of Rajaram Jain and From the house of Narendra Jain to the house of Pappu Namdev and the house of Dayal Sahu and Kundan Sahu.

#### WARD NO. 14—CHANDRASHEKHAR WARD

**East**—From the house of Kholi Bunkar both side of Sarswar Mohalla, Choryal Mohalla to the both side of the house of Rameshwar Khare.

**South**—From the house of Rameshwar Khare including the house of Rajendra Khare to the Gilai Well Hanuman get.

**West**—From the house of Kundan Sahu to the house of Heeralal Choryal, Ashok Jain and Sukhanand Jain.

**North**—From the both side of the house of Nanni Dhobi to the Manas Bhavan and from the house of Gyasi Khangar to Dhanusdhari Temple.

#### WARD NO. 15—RANI DURGAVATI WARD

**East**—From the both side of the house of Seetaram Chouryal and Hanuman Temple to the Campus of Hanuman Temple gate.

**South**—From the house of Laxman Dheemar including Gelkar Khera, Kayasdev Baba to the Nath Mohalla Gada Ghat.

**West**—From the Hanuman gate to the house of Janki Sahu and Gubandi Viswkarma.

**North**—From the house of Seetaram Chouryal including the house of Sher Singh and the house of Nanne Bhiya Lodhi to the main Road Hanuman gate.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 344-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़

के बार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

#### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	विंध्यवासिनी वार्ड
2	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	गांधी वार्ड
4	सुभाष वार्ड
5	मौलाना आजाद वार्ड
6	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
7	सरदार सिंह वार्ड
8	प्रेमनगर वार्ड
9	सरदार पटेल वार्ड
10	हनुमान वार्ड
11	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
12	इंदिरा गांधी वार्ड
13	चन्द्रशेखर वार्ड
14	संजय वार्ड
15	सुदर्शन वार्ड

#### वार्ड विभाजन की सीमाएं

##### वार्ड क्रमांक 01—विंध्यवासिनी वार्ड

**उत्तर**—प्राथमिक शाला कछयात से प्रेमलाल बुनकर के मकान होते हुए परमलाल बुनकर के मकान तक.

**पूर्व**—परमलाल बुनकर के मकान से खेतों में होते हुए तालाब की नहर से होते हुए परमानंद साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—परमानंद साहू के मकान से हफीज का मकान दशरथ का मकान शंकर जी मंदिर होते हुए विंध्यवासिनी नाला तक.

**पश्चिम**—विंध्यवासिनी नाला से गौरीशंकर यादव के मकान आते हुए खेतों में होते हुए प्राथमिक शाला तक.

##### वार्ड क्रमांक 02—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**उत्तर**—प्यारेलाल के मकान से प्रेमनारायण हिंगलाज मंदिर धर्मसागर तालाब के सामने पम्प हाउस तक.

**पूर्व—**धर्मसागर तालाब के सामने से पम्प हाउस गुल्लन यादव, देवीदीन शर्मा, कोमल चंद्र जैन, महेश नायक, संतोष नायक से होते हुए, शंकर जी मंदिर से रामगोपाल नायक हरीराम यादव, प्रेमी बाढ़ी के मकान तक.

**दक्षिण—**प्रेमी बाढ़ी के मकान से रामदयाल नायक, कोमल चंद्र जैन (बजाज) यूनिस बकील से बगिया तक.

**पश्चिम—**बगिया से हनुमान जी मंदिर होते हुए जैन मंदिर होते हुए रिक्खा खंगर के मकान से प्यारे लाल के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 03—गांधी वार्ड

**उत्तर—**गौर वाले के मकान से आंगनवाड़ी केन्द्र 03 से यदुकुलनन्दन खरे के मकान होते हुए गोपाल जी मंदिर तक.

**पूर्व—**गोपाल जी मंदिर से द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के मकान से होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के गेट तक.

**दक्षिण—**उत्कृष्ट विद्यालय के गेट से जल संसाधन कार्यालय होते हुए, माध्यमिक शाला पुरानी बस्ती तक.

**पश्चिम—**माध्यमिक शाला पुरानी बस्ती से प्रभुदयाल सोनी के मकान से संतोष नायक, सुकमाल जैन का मकान होते हुए बड़ी राजा के मकान से गौर वालों के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 04—सुभाष वार्ड

**उत्तर—**पम्प हाउस से पार्क जुगल सागर तालाब तक.

**पूर्व—**जुगल सागर तालाब से चौधरी के बैठका तक.

**दक्षिण—**चौधरी के बैठका से रमाशंकर मिश्रा का मकान मस्जिद होते हुए, गद्दू सेठ के मकान तक.

**पश्चिम—**गद्दू सेठ के मकान से स्टेट बैंक पीपल का पेड़ मिश्रा गढ़ी एवं मिश्रा गढ़ी के सामने लल्लू तिवारी, विनोद दुबे के मकान से रामदास ढीमर के मकान से प्रमोद तिवारी का मकान होते हुए बरजोरा का मकान दाउ की गढ़ी होते हुए पम्प हाउस तक.

### वार्ड क्रमांक 05—मौलाना आजाद वार्ड

**उत्तर—**जल्लू खान के मकान से मदरसा होते हुए, सहादत खान मौलानाल रजक का मकान होते हुए, दरड़ रजक का मकान होते हुए, रमजान बैंना के मकान तक.

**पूर्व—**रमजान बैंना के मकान से रहमान मुल्ला होते हुए दुबे का मकान मुस्तफा का मकान होते हुए, पीपल के पेड़ तक.

**दक्षिण—**पीपल के पेड़ से जगदीश सोनी मुस्तफा खान के मकान तक.

**पश्चिम—**मुस्तफा खान के मकान के सामने से सकूरन चाची रसीद खान का मकान होते हुए नजर मुहम्मद के मकान के सामने से जल्लू खान के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 06—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर—**भीम रैकवार का मकान खटकयाना होते हुए छोटेलाल असाटी के मकान तक.

**पूर्व—**छोटेलाल असाटी के मकान से गायत्री मंदिर होते हुए किशोरी लाल असाटी के मकान तक.

**दक्षिण—**किशोरी लाल असाटी के मकान से छिदामी विश्वकर्मा का मकान होते हुए, दयाराम लक्ष्यकार के मकान तक.

**पश्चिम—**छिदामी लक्ष्यकार के मकान से होते हुए, रहमत खान का मकान होते हुए भीम रैकवार के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 07—सरदार सिंह वार्ड

**उत्तर—**आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 7 से पहाड़ी पर होते हुए वेयर हाउस तक.

**पूर्व—**वेयर हाउस होते हुए नसीर मास्टर के मकान से कन्या प्राथमिक शाला तक.

**दक्षिण—**प्राथमिक शाला के सामने से जुबेदा बानों का मकान परम रैकवार के मकान तक.

**पश्चिम—**परम रैकवार के मकान से होते हुए रति वंशकार के मकान से आंगनवाड़ी केन्द्र 07 तक.

### वार्ड क्रमांक 08—प्रेमनगर वार्ड

**उत्तर—**मुक्तिधाम से नवीन पशु चिकित्सालय पहाड़ी पर होते हुए, गल्ला मंडी एवं रघुवीर सौर के मकान तक.

**पूर्व—**रघुवीर सौर के मकान से इंडेन गैस एजेंसी कन्या हायर सेकेन्डरी से दयाराम मुंशी के मकान तक.

**दक्षिण—**दयाराम मुंशी के मकान से तेज खान की दुकान से होते हुए पेट्रोल पम्प, जिला सहकारी बैंक नगरपालिका दुकान कन्या माध्यमिक शाला तक.

**पश्चिम—**कन्या शाला से वेयर हाउस होते हुए मुक्तिधाम तक.

### वार्ड क्रमांक 09—सरदार पटेल वार्ड

**उत्तर—**प्राथमिक शाला जमुनिया से खेतों में होते हुए, ग्यासी कुशवाहा के मकान तक.

**पूर्व—**ग्यासी कुशवाहा के मकान से बंदियावाले का मकान से होते हुए प्राइमरी शाला, प्रेमनगर तक.

**दक्षिण—प्राथमिक शाला प्रेमनगर से कलुवा काढी के मकान तक.**

**पश्चिम—कलुवा काढी के मकान से खेतों से होते हुए मुन्नीलाल यादव के मकान से होते हुए प्राथमिक शाला जमुनिया तक.**

### वार्ड क्रमांक 10—हनुमान वार्ड

**उत्तर—गुसा ढीमर के मकान से गदरयाना होते हुए खेतों से होते हुए, चतरा साहू के खेत तक.**

**पूर्व—चतरा साहू के खेत से अहिरया के खेत से होते हुए पुरानी पशु चिकित्सालय (दयाराम मुंशी) के मकान तक.**

**दक्षिण—पुरानी पशु चिकित्सालय से अमृतलाल मिश्रा, नबाब खान से गोविन्द सिंह के मकान तक.**

**पश्चिम—गोविन्द सिंह के मकान से सुरेन्द्र सिंह नंदी पाल का मकान होते हुए एम.पी.ई.बी. कार्यालय, तहसील होते हुए गुसा ढीमर के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 11—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर—गंज का कुआं से पुलिस कालोनी होते हुए विहारी असाटी का मकान लक्ष्मन सिंह का मकान होते हुए जीवन लाल असाटी के मकान तक.**

**पूर्व—जीवन लाल असाटी के मकान से खेतों में होते हुए स्वरूप सिंह के खंडहर मकान होते हुए ग्वाल सागर तालाब तक.**

**दक्षिण—ग्वाल सागर तालाब से ग्यासी कुशवाहा का मकान होते हुए मुन्नालाल चौरसिया के पुराने मकान तक.**

**पश्चिम—मुन्नालाल चौरसिया के पुराने मकान से चौरसिया मंदिर धनुषधारी मंदिर होते हुए गंज का कुआं तक.**

### वार्ड क्रमांक 12—इंदिरा गांधी वार्ड

**उत्तर—कर्नई साहू के मकान से तिजू साहू एवं रघुनाथ भदौरिया के मकान तक.**

**पूर्व—रघुनाथ भदौरिया के मकान से मंगू आदिवासी के मकान तक.**

**दक्षिण—मंगू आदिवासी के मकान से मातादीन चौरसिया के मकान से कल्लन सौंर, गंगाराम गुसा के मकान तक.**

**पश्चिम—गंगाराम गुसा के मकान से कर्नई साहू के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 13—चन्द्रशेखर वार्ड

**उत्तर—मुना सोनी के मकान से किसन नामदेव का मकान से होते हुए धर्मदास असाटी का मकान प्रेमनारायण खेरे का मकान किस्सू एवं पंचू चौरसिया के मकान तक.**

**पूर्व—पंचू चौरसिया के मकान से बाबू चौरसिया के मकान से होते हुए अच्छेलाल के मकान से मालती चौरसिया के मकान तक.**

**दक्षिण—मालती चौरसिया के मकान से गोटीराम चौरसिया का मकान होते हुए, अशोक सक्सेना के मकान तक.**

**पश्चिम—अशोक सक्सेना के मकान से काशी साहू का मकान होते हुए, मुना सोनी के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 14—संजय वार्ड

**उत्तर—चतरा साहू के मकान से मोहन साहू के मकान होते हुए मुना चौरसिया का मकान गलिया बाई, धर्मदास चौरसिया, छिदमी चौरसिया के मकान के सामने से हरिशचन्द्र चौरसिया के मकान तक.**

**पूर्व—हरिशचन्द्र चौरसिया के मकान से चिनोंटी का मकान होते हुए, दरोगा चौरसिया का मकान ग्वालसागर तालाब तक.**

**दक्षिण—ग्वालसागर तालाब से परमलाल रैकवार के मकान से कल्लू ढीमर गन्शा ढीमर का मकान होते हुए मथुरा रैकवार के मकान तक.**

**पश्चिम—मथुरा रैकवार के मकान से काशमुल्ताफ मछली गोदाम होते हुए, गोपाल रैकवार के मकान से होते हुए चतरा साहू के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 15—सुदर्शन वार्ड

**उत्तर—प्राण सिंह की आरामशीन होते हुए रतिराम नापित, कोमल ढीमर, दयाचंद्र जैन के मकान से राममिलन सोनी खेत में होते हुए, हनुमान मंदिर मत्प्य प्रजनन केन्द्र नगरपालिका दुकान बन विभाग से निसार साँई पंकज पुल होते हुए रामचरन नापित के मकान तक.**

**पूर्व—रामचरन के मकान से कन्छेदी खान का मकान होते हुए कमल रजक के मकान से रामदास ढीमर के मकान से चन्दन रैकवार का मकान होते हुए हनुमान जी मंदिर तक.**

**दक्षिण—हनुमान जी मंदिर होते हुए ग्वालसागर तालाब होते हुए किले के अंदर रेस्ट हाउस होते हुए अजमेरी के मकान तक.**

**पश्चिम—अजमेरी के मकान से मेहबूब खान का मकान होते हुए खेतों से होते हुए प्राण सिंह की आरामशीन तक.**

**सुदाम खाडे, कलेक्टर.**

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 344- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of wards of Nagar Parisad Baldevgarh, distt. Tikamgarh as per Schedule:—

**SCHEDULE  
NUMBER AND NAME OF THE WARDS**

Ward No.	Name of Ward
(1)	(2)
1	Vindhwasini Ward
2	Jawahar Lal Nehru Ward
3	Gandhi Ward
4	Subhash Ward
5	Molana Azad Ward
6	Dr. Ambedkar Ward
7	Sardar Singh Ward
8	Premnagar Ward
9	Sardar Patel Ward
10	Hanuman Ward
11	Lal Bahadur Shastri Ward
12	Indira Gandhi Ward
13	Chandrashekhar Ward
14	Sanjay Ward
15	Sudarshan Ward

**Limited of ward division**

**WARD NO. 01—VINDHWASINI WARD**

**North**—From Primary School Kachhyat Inclouding the house of Premal Bunker to the house or Paramlal Bunker.

**East**—From the house of Paramlal Bunker inclouding the farms and canal of ponad to the house of Paramand Sahu.

**South**—From the house of Paramanand Sahu taking the house of hafeez the house of Dasrath and the temple of Shiv ji to Vindhwasini Nala, hote huye vindhwasini Nala tak.

**West**—From the Vindhwasini Nala taking the house of Goroshankar Yadav and the farms to Praimari School Kachhyat.

**WARD NO. 02—JAWAHAR WARD**

**North**—From the house of Pyarelal to the house of Premnarayan Hinglaz Mandir and infront of Dharamsagar pond to the pump house.

**East**—Infront of Dharma Sagar pond to pumphouse, gullan Yadav, Devideen Sharma Komal Chandra Jain, Mahesh Nayak, Santosh Nayak taking the Shiv ji temple to the house of Ramgopal Nayak and the house of Premi Badhai.

**South**—From the house of Premi Badhai to the house of Ramdayal Nayak, Komal Chandra Jain (Bajaj) unis bakeel and to bagia.

**West**—From Bagiya taking Jain temple and the house of Rikkha Khangar to the house of Pyarelal.

**WARD NO. 03—GANDHI WARD**

**North**—From the house the Gour wale taking aganbadi Kendra-03 and the house of Yadukulnandan Khare to Gopal ji temple.

**East**—From the Gopal Ji temple taking the house of Dwarika Prashad Mishra to the gate of excellence school.

**South**—From the gate of excellance School taking Jalsansadhan office to the Middle School old vasti.

**West**—From the Middle school taking the house of Prabhu Dayal Soni, and the house of Santosh Nayak, Sukhmal Jain and taking the house of Goewale.

**WARD NO. 04—SUBHASH WARD**

**North**—From the Pump house to the park and Jugal Sagar pond.

**East**—Jugal Sagar pound to Baithka of Choudhari.

**South**—From Bethika of Choudhri taking the house of Ramashankar Mishra and house the Gaddu seth.

**West**—From the house of Gaddu Seth to the State bank the banyan tree Mishra Gadhi and infront of Mishra Gadi Lallu Tiwari Vinod Dube taking the house of Ramdas Dheemar and the house of Pramod Tiwari the house of Barjora taking the Gadi of dau to the Pump house.

## WARD NO. 05—MOULANA AZAD WARD

**North**—From the house of Jallu Khan taking the Madarsha taking the house of Sahadat Khan Monlal Rajak and the house Ramjan Bain.

**East**—From the house of Ramjan Bain taking the house of Rahman Mulla the house of Dube taking the house of Mustafa to the Banyan tree.

**South**—From the Banyan tree to the house of Jagdeesh Soni and the house of Mustfa Khan.

**West**—In front of the house of Mustfa Khan taking the house of Raseed Khan infront of the house of Najar Muhammmad to the house of Jalil Khan.

## WARD NO. 06—DR. AMBEDKAR WARD

**North**—From the house of Bheem Raikwar taking Khatakyana to the house of Chhotelal Asati.

**East**—From the house of Chhotelal Asati taking the Gayatri Temple to the house of Kishorilal Asati.

**South**—From the house of Kishorilal Asati taking the house of Chhidami Vishwakarma to the house of Dayaram Lakchhyakar.

**West**—From the house of Dayaram Lakchhyakar taking the house of Bheeem Raikwar.

## WARD NO. 07—SARDAR SINGH WARD

**North**—From the agan Warhi Kendra-07 taking the hill to the ware house.

**East**—Taking the ware house and the house of Naseer Master to the Girls Praimari School.

**South**—From infront of the Primari School to the house of Jubeda bano and the house of Param Raikwar.

**West**—From the house of Param Raikwar taking the house of Rati Vanskars to the Agannvani Kendra-7.

## WARD NO. 08—PREM NAGAR WARD

**North**—From the Muktidham taking the new Veterinary Hospital taking the hill to Galla Mandi and the house of Raghuveer sour.

**East**—From the house of Raghuveer sour Indian Gas Agency, and Girls Higher Secondary to the house of Dyaram Munsi.

**South**—From the house of Dayaram Munsi taking the shope of Tez Khan to the Petrol pump Jila Sahkari Bank, Shope of Municipal council and Middle School.

**West**—From the Girl School taking ware house to the mukti Dham.

## WARD NO. 09—SARDAR PATEL WARD

**North**—From the Praimari School Jamuniya taking the from of the house of Gyashi Kushwaha.

**East**—From the house of Gyashi Kushwaha taking the house of Bandi Yadav to the Praimari School Premnagar.

**South**—From the Praimari School Premnagar to the house of Kalua Kachhi.

**West**—From the house of Kalua Kachhi taking the from and the house of Munilal Yadav to the praimary School Jamuniya.

## WARD NO. 10—HANUMAN WARD

**North**—From the house of Gupta Dheemar including Gadaryana and the farms to the farms of Chatra Sahu.

**East**—From the farm the Chatra Sahu taking the farms of Ahriya to the old Veterinary Hospital (to the house of Dyaram Munsi)

**South**—From the old veterinary hospital and the house of amritlal Mishra, Nawab Khan, to the house of Govind Singh.

**West**—From the house of Govind singh taking the house of Surendra singh and Nandi Pal, taking MPEB office and tahseel to the house of Gupta Dheemar.

## WARD NO. 11—LALBAHADUR SHASTRI WARD

**North**—From the well of Ganj taking the police colony and the house of Bihari Asati taking the house of Laxman singh to the house of Jeevanlal Asati.

**East**—From the house of Jeevanlal Asati taking the Farm and the Khandar house of Swaroop Singh to the Gwal Sagar pond.

**South**—From the Gwalsagar pond taking the house of Gyasi Kushwaha to the old house of Munnalal Chaurasiya.

**West**—From the old house of Munnalal Chaurasiya taking the Chaurasiya Temple Dhanusdhari temple to the well of Ganj.

## WARD NO. 12—INDRA GANDHI WARD

**North**—From the house of Kanai Sahu to the house of Tijju Sahu and the house of Raghunath Bhadauriya.

**East**—From the house of Raghunath Bhadauriya to the house of Mangu Adiwashi.

**South**—From the house of Mangu Adiwashi and the house of Matadeen Chaurasiya to the house of Kallan sour and to the house of Ganga Gupta.

**West**—From the house of Ganga Gupta to the house of Kanai sahu.

## WARD NO. 13—CHANDRA SEKHAR AZAD WARD

**North**—From the house of Munna Soni taking the house of Kishan Namdev and the house of Dharamdas Asati to the house of Premnarayan Khare Kissu and the house of Panchu Chaurasiya.

**East**—From the house of Panchu Chaurasiya taking the house of Babu Chaurasiya to the house of Achhelal and the house of Malti Chaurasiya.

**South**—From the house of mali Chaurasiya taking the house of Gotiram Chaurasiya to the house of Ashok Saxena.

**West**—From the house of Ashok saxena taking the house of Kasha Sahu to the house of Munna Soni..

## WARD NO. 14—SANJAY WARD

**North**—From the house of Chatre Sahu taking the house Mohan Sahu the house of Munnalal Chaurasiya, galiya bai, Dharamdas Chaurasiya infront of the house of Chhidami Chaurasiya to the house of Harischandra Chaurasiya.

**East**—From the house of Harischandra Chaurasiya taking the house of Chinoti Chaurasiya to the house of daroga Chaurasiya Gwalsagar pond.

**South**—From the Gwalsagar pond the house of Paramlal Raikwar, Kallu Dhimar, taking the house of Gansha Dheemar to the house of Mathura Raikwar.

**West**—From the house of Mathura Raikwar taking Kashmultaf, fish godown and the house of Gopal Raikwar to the house of Chatre Sahu.

## WARD NO. 15—SUDARSHAN WARD

**North**—Taking the Swamilal the house of Ratiram Napit, Komal Dheemar, Dayachandra Jain, Rammilan Soni Taking the from Manuman Temple fish reproduction center the shope of Municipal council and forest Department taking Nishar sai pankaj Bridge to the house of Ramcharan Napit.

**East**—From the house of Ramcharan Napit taking the house of Kanchhedi Khan the house of Kamal Rajak and Ramdas Dhimar taking the house of Chandan Raikwar to the hanumanji temple.

**South**—Taking hanuman ji temple taking Gwalsagar pond inner side of the fort including the rest house to the house of Ajmeri.

**West**—From the house of Ajmeri taking the house of Mehboob Khan and the farms the swamill of Pran singh.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 345-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् खरगापुर जिला टीकमगढ़ के बार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

## अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	गांधी वार्ड
2	राजीव वार्ड
3	फिरोज वार्ड
4	मुहम्मद वार्ड
5	सुभाष वार्ड
6	जवाहर वार्ड
7	कबीर वार्ड
8	इंदिरा गांधी वार्ड
9	राजेन्द्र वार्ड
10	महावीर वार्ड
11	शिवाजी वार्ड

(1)	(2)
12	अम्बेडकर वार्ड
13	देसाई वार्ड
14	प्रताप वार्ड
15	हरदौल वार्ड

## परिसीमन हेतु वार्डों की चतुर सीमा का विवरण

### वार्ड क्रमांक 01—गांधी वार्ड

**उत्तर**—खरया बुनकर के मकान से चौपरा मंदिर को अंदर करते हुये मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अंदर करते हुये परम पटेले के मकान तक परम पटेले के मकान से धुन्दे यादव के मकान से हरगोविन्द दीक्षित के मकान तक.

**पूर्व**—हरगोविन्द दीक्षित के मकान से बाबू यादव के अंदर करते हुये मुख्य सड़क के सामने सत्तीमाता मंदिर तक.

**दक्षिण**—सत्तीमाता को अंदर करते हुये बसुरयाना लेते हुये, कुन्दन दादा के बाड़े मगन काछी के मकान तक, मगन के मकान से नरेन्द्र सिंह के मकान के अंदर करते हुये घनश्याम सेन के मकान तक.

**पश्चिम**—घनश्याम सेन के मकान से पठा के मकान अंदर करते हुये खरया बुनकर के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 02—राजीव वार्ड

**उत्तर**—डरु काछी के मकान से मुन्ना शुक्ला तक एवं मुन्ना शुक्ला से सत्तीमाता होते हुये डरु काछी के मकान तक.

**पूर्व**—लल्ला कबाड़ी के मकान से कमलेश जैन को लेते हुये, बसुरयाना तिराहे से होते हुये लल्ला कबाड़ी के घर तक.

**दक्षिण**—प्यारेमोहन काछी के मकान से अहमद मास्टर को अंदर करते हुये लोहिया के मकान को अंदर करते हुये मुन्ना शुक्ला के मकान से प्यारे मोहन काछी के मकान तक.

**पश्चिम**—मुन्ना शुक्ला के मकान से मोहन ताप्रकार को अंदर करते हुये चिन्तामन विश्वकर्मा के मकान को अंदर करते हुये प्यारेलाल सेन का मकान लेते हुये डरु काछी के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 03—फिरोज वार्ड

**उत्तर**—अनवर हसन के मकान से छोटी मस्जिद के अंदर करते हुये सुटी चौधरी को अंदर करते हुये मगन खान के मकान तक.

**पूर्व**—मगन खान के मकान से इमामउद्दीन मस्जिद को अंदर करते हुये हब्बी पठान के मकान तक हब्बी पठान के मकान से गुलाब साईं को अंदर करते हुये दिलावर खान के मकान तक.

**दक्षिण**—दिलावर खान के मकान से मनिहारन की खोर से रोशन चौधरी को अंदर करते हुये मुन्ना खरया के मकान तक.

**पश्चिम**—मुन्नालाल खरया के मकान से मिश्रजू की सामने वाली लाईन हेतु हुये भगू के मकान लेते हुये, यासीन नाम खोदने वाला बच्चा को अंदर करते हुये उस्मान के मकान लेते हुये अनवर हसन के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 04—मुहम्मद वार्ड

**उत्तर**—यासीन खान के मकान से बशीर मास्टर को अंदर करते हुये मिश्रजू के मकान मिश्रजू के मकान से कुंजी सोनी के मकान को अंदर करते हुये, मनिहारन की गली से खरगापुर देरी मार्ग तक.

**पूर्व**—खरगापुर देरी रोड से ईदगाह मस्जिद वाले रास्ते से दमका मुहल्ला अंदर करते हुये खरगापुर-पलेरा मार्ग को पार करते हुये इमामवाड़ा को अंदर करते हुये छनू पल्लेदार के मकान तक.

**दक्षिण**—छनू पल्लेदार के मकान से घोड़ी वाली गली के खटकयाना अंदर करते हुये ग्यादीन साहू के मकान तक.

**पश्चिम**—ग्यादीन साहू के मकान से बड़ी मस्जिद वाले रास्ते से रसूद खान के मकान को लेते हुये मस्जिद को अंदर करते हुये फुटैरियन की गली से बिन्द्रावन फुटैरिया, कुंजबिहारी मंदिर के सामने वाली लाईन लेते हुये रामसेवक सिंधई की दुकान को लेते हुए बाजार से यासीन के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 05—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—गुडलक मास्टर की दुकान से कुंजबिहारी मंदिर को अंदर करते हुये बड़ी मस्जिद को लेते हुये फुल्लु बैना को अंदर करते हुये बरसैया के गोदाम को अंदर करते हुये घोड़ों की गली से रसूल के मकान को अंदर करते हुये पुराना देरी मार्ग खरगापुर-पलेरा रोड तक.

**पूर्व**—पलेरा रोड से जगदीश शांडिल्य के कुआं को अंदर करते हुए खरउआ कालोनी को अंदर सुरेन्द्र जोशी को अंदर करते हुये, जवाहर सक्सेना की सामने वाली लाईन को लेते हुये पुरानी पुलिस चौकी तक.

**दक्षिण**—पुरानी पुलिस चौकी के सामने बस स्टैण्ड को अंदर करते हुये प्राथमिक पाठशाला को अंदर करते हुये कमल जोशी को अंदर करते हुये जगदीश शांडिल्य के मकान तक.

**पश्चिम**—जगदीश शांडिल्य के मकान से बाजार वाली रास्ता माधौ गुप्ता की दुकान अंदर करते हुये गुडलक मास्टर की दुकान तक.

### वार्ड क्रमांक 06—जवाहर वार्ड

**उत्तर**—पण्डा के मकान से बस स्टैण्ड वाले रास्ते से बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल को अंदर करते पुरानी पुलिस चौकी के सामने से मोती कर्ण की दुकानों को अंदर करते हुये जवाहर सक्सेना को लेते हुये श्यामाचरण पटवारी के मकान तक.

**पूर्व**—श्यामाचरण पटवारी के मकान से हरिजन छात्रावास को अंदर करते हुये कुड़ीला रोड पार करते बस स्टैण्ड तक.

**दक्षिण**—नये बस स्टैण्ड की फील्ड से होते हुये रामदूत कालोनी को अंदर करते हुये जतारा रोड की दोनों लाईंने लेते हुये बंशीतला तक.

**पश्चिम**—बंशीतला से बसुरयाना कुआं को रास्ता से बसुरयाना को अंदर करते हुये पण्डज के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 07—कबीर वार्ड

**उत्तर**—कुरयात की कुईया से मानसिंह दाऊ के सामने वाली लाईन लेते हुये घसीटे ढीमर को अंदर करते हुये गौरीशंकर पटवारी के मकान तक.

**पूर्व**—गौरीशंकर पटवारी के मकान से रामचरण कोरी के सामने वाली रास्ता लेते हुये प्यारेलाल कोरी के मकान को लेते हुये बसुरयाना वाले रास्ते से बसुरयाना को अंदर करते हुये, लक्ष्मन बरार के मकान तक.

**दक्षिण**—लक्ष्मन बरार के मकान से मण्डी वाले रास्ते से काशीपिपरा के मकान तक.

**पश्चिम**—रमसिंगा बुनकर के मकान से महुआपुरा को अंदर करते हुये रामकुमार प्रजापति के मकान को लेते हुये खुरयात को अंदर करते हुये मोठी कुईया तक.

### वार्ड क्रमांक 08—इंदिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—राजेश जैन के मकान से बाजार होते हुये मोटर स्टैण्ड की रास्ता से रामसेवक सिंघई को अंदर करते हुये राजनारायण पण्डा, पवन जैन को अंदर करते हुये सोसायटी गोदाम अंदर करते हुये राजनारायण पण्डा तक, कन्हैयालाल शुक्ला के मकान तक.

**पूर्व**—कन्हैयालाल शुक्ला का मकान लेते हुये कुम्हरों की धर्मशाला अंदर करते हुये उमराव मत्था कुम्हर के मकान तक.

**दक्षिण**—मत्था कुम्हर के मकान से कालका पटवारी रामदयाल सोनी को अंदर करते हुये भानसिंह दाऊ का मकान अंदर करते हुये मोठी कुईया तक.

**पश्चिम**—मोठी कुईया से खेती की जमीन से डॉ. अमरसिंह, डॉ. ज्वारिया आशाराम वैद्य को अंदर करते हुये विदिशा वाले सोनी के मकान तक, कामतानाथ मंदिर को अंदर लेते हुये डॉ. हीरालाल जैन का मकान लेते हुये राजेश जैन के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 9—राजेन्द्र वार्ड

**उत्तर**—यथावत मोती मिश्रा के बाड़े से नरेन्द्र सिंह के मकान के सामने गनपत साहू को अंदर करते हुये कुशवाहा के मकान तक.

**पूर्व**—दलू काठी के मकान से डा प्रदीप साहू का मकान लेते हुये घनश्याम एवं बिहारी सोनी के मकान से बाबाजी मंदिर तक.

**दक्षिण**—बाबाजी मंदिर से तारा जैन की गली को अंदर करते हुये कपूरचंद्र सैठ मलगुवा वाले के मकान को लेते हुये तिवरयाना अंदर करते हुये कपूरचंद्र जैन के मकान से हल्काई बाझाई, रतीराम लुहार को अंदर करते हुये भूरेमाते के सामने वाली लाईन को लेते हुये बल्देव के मकान तक.

**पश्चिम**—बल्देव के मकान से माते की कुईया अंदर करते हुये पाण्डेय, बंशी लोधी को अंदर करते हुये मोती मिश्रा के बाड़ा तक.

### वार्ड क्रमांक 10—महावीर वार्ड

**उत्तर**—हरपाल सिंह के बाड़ा से चंदन वाले मास्टर लेते हुये मुरलीधार सक्सेना से कपूरसिंह के मकान तक.

**पूर्व**—शंकरजी मंदिर से रादयाल तिवारी का मकान लेते हुये गोकल पटवारी वाले रास्ता से लखन जैन के अंदर करते हुये जैन मंदिर तक.

**दक्षिण**—जैन मंदिर से हेमन्त जैन को अंदर करते हुये जगदीश खंगार को अंदर करते हुये दिनेश बाल्मीकी को लेते हुये कपूर सिंह दाऊ तक.

**पश्चिम**—लाल्ले कारीगर के मकान से बुनकरयाना की रास्ता को अंदर करते हुये प्रताप सिंह के पीछे हरपाल सिंह के बाड़ा तक.

### वार्ड क्रमांक 11—शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—रामदयाल काठी के मकान से बड़ी कछ्यात को अंदर करते हुये मनीराम सिंह दूबदेई माता मंदिर को लेकर मुहल्ला को अंदर करते हुये परम रजक तक.

**पूर्व**—नरेन्द्र सिंह के मकान से सफीक खान का मकान लेते हुये काशीराम सेन, मजीद टेलर एवं मुस्ताक तक.

**दक्षिण**—नये ताल से यासीन खान के मकान को लेते हुये, राजू यादव को अंदर करते हुये, रामदयाल काढ़ी के मकान तक.

**पश्चिम**—परमानंद काढ़ी की दुकान लेते हुये भनीराम सिंह का मकान लेते हुये दलू कुशवाहा का मकान लेते हुये, धोवन काढ़ी का मकान लेते हुये, आंगनबाड़ी वार्ड 11 तक.

### वार्ड क्रमांक 12—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—धर्मदास साहू के मकान से बाजार रोड से मोहन चढ़ार का मकान होते हुये पुरी हरिजन बस्ती अंदर करते हुये अहिरवार धर्मशाला तक.

**पूर्व**—अहिरवार धर्मशाला से हरिजन बस्ती को अंदर करते हुये काशी के खेत तक.

**दक्षिण**—खड़िया काढ़ी के खेत से खड़िरु काढ़ी के मकान तक.

**पश्चिम**—खड़िया काढ़ी के मकान से नंदकिशोर बाझई को लेते हुये तिजू बाझई को अंदर करते हुये धर्मदास साहू के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 13—देसाई वार्ड

**उत्तर**—पारीक्षत यादव के मकान से किसन नापित को अंदर करते हुये मण्डी रोड होते हुये रामकिसन यादव को अंदर करते हुये चंदेरी वाले पंडित के मकान तक.

**पूर्व**—रामनाथ सेन के मकान से छुट्टी नाटा को अंदर करते हुये ऐयालाल गुन्देले के मकान वाली रास्ता.

**दक्षिण**—हरि यादव के मकान से पठेले मुहल्ला को अंदर करते हुये मगन ढीमर के मकान तक.

**पश्चिम**—मगन ढीमर के मकान से ढिमरौला को अंदर करते हुये नथू पाठक के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 14—प्रताप वार्ड

**उत्तर**—बाबू दमोईया के मकान से हरिराम यादव को अंदर करते हुये राहूल नामदेव से ग्या यादव की चक्की अंदर करते हुये रामलाल सेन से पुरानी छात्रावास होकर कामता यादव राजेश यादव से बाबूलाल के मकान तक.

**पूर्व**—शंकरजी मंदिर से बाबू कोरी का मकान लेते हुये नउआ नाले तक.

**दक्षिण**—रमेश दमोईया के मकान से चंद्रभान दमोईया के सामने वाली लाइन लेते हुये बृजलाल नामदेव को अंदर करते हुये जमना पाठक के मकान जतारा रोड तक.

**पश्चिम**—नउआ नाले का ढीमर मोहल्ला लेते हुये देवीजी मंदिर किला तक.

### वार्ड क्रमांक 15—हरदौल वार्ड

**उत्तर**—डरुआ अहिरवार के मकान से मैदानी मोहल्ला पड़यारपुरा को अंदर करते हुये हरदौल मंदिर तक.

**पूर्व**—हरदौल मंदिर से किला को बाहर करते हुये तालाब वाली लाईन की अगौर तक.

**दक्षिण**—ताल की अगोर पठापुरा मुहल्ला, जिनागड़ियन मुहल्ला को अंदर करते हुये तालाब की पिछोर तक.

**पश्चिम**—तालाब की पिछोर से मैदानी मुहल्ला को अंदर करते हुए, डरुआ अहिरवार के मकान तक.

**सुदाम खाड़े**, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 345-2014.—In exercise to the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extend of wards of Nagar Parisad Khargapur, distt. Tikamgarh as per Schedule:—

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Ghandhi Ward
2	Rajeev Ward
3	Firoz Ward
4	Mohammad Ward
5	Shubhash Ward
6	Jawahar Ward
7	Kabir Ward
8	Indira Gandhi Ward
9	Rajendra Ward
10	Mahaveer Ward
11	Shivaji Ward
12	Ambedkar Ward
13	Deshai Ward
14	Pratap Ward
15	Hardoul Ward

**PARISEEMAN HETU WARD KI CHATUR  
SEEMA VIVRAN**

**WARD NO. 01—GANDHI WARD**

**North**—Kharya Bunkar ke makan se Chopra Mandir ko andar karte huye M. P. Power house ke andar karte huye Param Patele ke Makan tak Param Patele ke Makan se Dhundhe Yadav ke makan se Hargovind dixit ke makan tak.

**East**—Hargoving Dixit ke makan se Babu Yadav ko andar karte huye main road ke samne Sattimata Mandir tak.

**South**—Satti Mata ko andar karte huye Basuryana lete hute Kundar Dada ke Bade Magan kachi ke makan tak, makan ke Narendra ke makan ko andar karte huye Ghanshyam Sen ke makan tak.

**West**—Ghanshyam Sen ke makan se patha ke makan andar karte huye Khrya Bunkar ke makan tak.

**WARD NO. 02—RAJEEV WARD**

**North**—Daru kachhi ke makan se Munna Shukla tak and Munna Shukla se Sattimata hote huye Daru Kachhi ke makan tak.

**East**—Lalla Kabadi ke makan se Kamlesh Jain ko lete huye Basuriyana tirahe se hote huye Lalla Kabadi ke Ghar tak.

**South**—Pyare Mohan Kachhi ke makan se Ahmad Master ko andar karte huye Lohiya ke makan ko andar karte huye Munna Shukla ke makan se Pyare Mohan Kachhi ke makan tak.

**West**—Munna shukla ke makan se Mohan Tamrakar ko andar karte huye Chintaman Vishkarma ke makan ko andar karte huye Pyare lal sen ke makan lete huye Daru kachhi ke makan tak.

**WARD NO. 03—FIROZ WARD**

**North**—Anwar Hasan ke makan se Chhoti Masjid ko andar karte huye Suti Chodhri ko bhi andar karte huye Magan Khan ke makan tak.

**East**—Magan Khan ke makan se Imam Uddin Masjid ko andar karte huye Habbi Pathan ke makan tak, Habbi Pathan ke makan se Gulab Sai ko andar karte huye Dilawar Khan ke makan tak.

**South**—Dilawar Khan ke makan se Maniharan ke khor se Roshan Chodhri ko andar karte huye Munna Kharya ke makan tak.

**West**—Munna Kharya ke makan se Mishra Ju ki samne wali line lete huye Bhaggu ke makan lete huye Yaseen Nam Khodne wala Bachcha ko andar karte huye Usman ke makan lete huye Anwar Hasan ke makan tak.

**WARD NO. 04—MOHAMMAD WARD**

**North**—Yasin Khan ke Nakan se Waseer Master ko andar karte huye Mishra Ju ke makan Mishra Ju ke makan se Kunji Soni ke makan ko andar karte huye Maniharan ki Gali se Khargapur Deri marg tak.

**East**—Khargapur Deri road se Edgah Masjid wale raste se Damka muhalla andar karte huye Khargapur Palera marg ko par karte huye Imam Bada ko andar karte huye, Chhannu Palledar ke makan tak.

**South**—Chhannu Palledar ke makan se Ghodo wali gali se Khatakyana andar karte huye Gyadeen Sahu ke makan tak.

**West**—Gyadeen Sahu ke makan se Badi Masjid wale raste se Rasool Kahan ke Makan ko lete huye Masjid ko andar karte huye Phuteriyan ki Gali se Vindrawan Phuteriya, Kunjvihari Mandir se samne wali line late huye Ramsevak Singhai ki Dukan ko lete huye Bazar se Yasin ke makan tak.

**WARD NO. 05—SHUBHASH WARD**

**North**—Gudlak Master ki Dukan se Kunj Vihari Mandir ko andar karte huye Badi Masjid ko lete huye Fullu Bena ko Andar karte huye Barsaiya ko Godown ko andar karte huye Ghodo ki Gali se Rasool ke makan ko andar karte huye Purana Deri marg Khargapur Palera road tak.

**East**—Palera road se Jagdeesh Shandilaya ke Kua ko andar karte huye Khharauga Colony ko andar Surendra Joshi ko andar karte huye Jawahar Saxena ke samne wali line ko lete huye old police choki tak.

**South**—Purani police choki ke samne bus stand ko andar karte huye Prathmik Pathshala ko andar karte huye Kamlu Joshi ko Bhi andar karte huye Jagdees Shandilya ke makan tak.

**West**—Jagdeesh Shandilya ke makan se Bazar wali rasta Madhav Gupta ki Dukan ander karte huye Gudlak Master ki Dukan tak.

#### WARD NO. 06—JAWAHAR WARD

**North**—Panda ke makan se Bus stand wale raste se Balak Higher Secondary School ko Andar karte huye purani police choki ke samne se Moti Kran ki Dukano ko andar karte huye Jawahar Saxena ko lete huye Shyama Charan Patwari ke makan tak.

**East**—Shyamacharan Patwari ke makan se Harijan Chhatrabas ko andar kare huye Kudiya road par karte bus stand tak.

**South**—Naye bus stand ki field se hote huye Ramdoot Colony ko andar karte huye Jatara road ke dono line lete huye Bansi Tala tak.

**West**—Bansi tala se basuriyana kua ke rasta se Basuriyana ko andar karte huye panda ke makan tak.

#### WARD NO. 07—KABEER WARD

**North**—Kuriyat ki kuiya se Bhansingh Dau ke samne wali line lete huye Ghaseete Dheemar ko andar karte huye Gori Shankar Patwari ke makan tak.

**East**—Gori Shankar Patwari ke makan se Ramcharan Kori ke samne wala raste lete huye Pyarelal Kori ke makan ko lete huye Basuriyana wale raste se Basuriyana ko andar karte huye Laxman Barar ke makan tak.

**South**—Laxman Barar ke makan se mandi wale raste se Kashi Pipra ke makan tak.

**West**—Ramsingh Bunkar ke makan se Mahua pura ko andar karte huye Ramkumar Prajapati ke makan ko lete huye kuriyat ko andar karte huye mithi kuiya tak.

#### WARD NO. 08—INDRA GANDHI WARD

**North**—Rajesh Jain ke makan se Bazar hote huye motor stand ki rasta se Ramsevak Singhai ko andar karte huye Rajnarayan Panda, Pawan Jain ko Andar karte huye socity godown andar karte huye Rajnarayan Panda Tak, Kanhaiya Lal Shukla re makan tak.

**East**—Kanhaiyalal Shukla ka makan lete huye Kumaro ki Dharmashala ko andar karte huye Umrao malth Kumhar ka makan tak.

**South**—Maltha Kumar ke makan se Kalka Patwari Ramdayal Soni ko andar karte huye Bhansingh dau ka makan andar karte huye Mithi Kuiya tak.

**West**—Mithi Kuiya se Kheti ki Zameen se Dr. Amarsingh Dr. Jwariya Asharam Baidhya ko andar karte huye Vidisha wale soni ke makan tak. Kamtanath Mandir ko andar lete huye Dr. Heeralal Jain ka makan lete huye Rajesh Jain ke makan tak.

#### WARD NO. 09—RAJENDRA WARD

**North**—Yathavat (Moti) Mishra ke Bade se Narendra Singh ke makan ke samne Ganpat Sahu ko andar karte huye Kushwaha ke makan tak.

**East**—Dalu Kachhi ke makan se Dr. Praseep Sahu ka makan lete huye Ghanshyam and Vihari Soni ke makan se Baba ji Mandir Tak.

**South**—Baba ji Mandir se Tara Jain ki Gali ko andar karte huye Kapoor Chandra seth malguwa wale ke makan ko lete huye tiwariyana andar karte huye Kapoor Jain ke makan se Halkai Badai Ratiram Luhar ko andar karte huye Bhure mate ke samne wali line ko lete huye Baldev ke Makan tak.

**West**—Baldev ke makan se mate ki Kuiya andar karte huye Pandey, Bansi Lodhi ko andar karte huye Moti Mishra ke Bada tak.

#### WARD NO. 10—MAHAVEER WARD

**North**—Harpal Singh ke Bada se Chandan wale Master ko lete huye murli Dhar Saxena se Kapoor Singh ke makan tak.

**East**—Shankar Ji Mandir se Ram Dayal Tiwari ka makan lete huye Gokal Patwari wali Raste se Lakhan Jain ko andar karte huye Jain Mandir tak.

**South**—Jain Mandir se Heman Jain ko andar karte huye Jagdish Khangar ko andar karte huye Dinesh Balmeek ko lete huye Kapoor Singh Dau Tak.

**West**—Lalle Karigar ke makan se Bunkaryana ki Rasta ko andar karte huye Pratap Singh ke pichhe Harpal Singh ke Bada tak.

#### WARD NO. 11—SHIVAJI WARD

**North**—Ramdayal Kachhi ke Makan se Badi Kachhiyat ko andar karte huye Maniram Singh, Dubderi Mata Mandir ko lekar Muhalla ko andar karte huye Param Rajak tak.

**East**—Narendra Singh ke makan se Safiq Khan ka makan lete huye Kashi Ram Sen, Majeed Tailor and Mustaq tak.

**South**—Naye Tal se Yaseem Khan ke makan lete huye Raju Yadav ko andar karte huye Ramdayal Kachhi ke Makan tak.

**West**—Parmanand Kachhi ki Dukan ko lete huye Maniram Singh ke makan lete huye Dalu Kushwaha ka makan lete huye Thowan Kachhi ka Makan lekar Aaganwari ward 11 tak.

#### WARD NO. 12—AMBEDKAR WARD

**North**—Dharamdas Sahu ke Makan se Bazar wale road se mohan Chadar ke makan lete huye Poori Harijan Basti andar karte huye Ahirwar Dharmashala tak.

**East**—Ahirwar Dharamshala se Harijan Basti ko andar karte huye Kashi ke khet tak.

**South**—Khadiya Kachhi ke Khet se Khadiya Kachhi ke makan tak.

**West**—Khadiya Kachhi ke makan se Nand Kishore badai ko lete huye Tiju Badai ko andar karte huye Dharam Das Sahu ke makan tak.

#### WARD NO. 13—DESHAI WARD

**North**—Parichhat Yadav ke Makan se Kishan Napit ko andar karte huye mandi road hote huye Ramkishan Yadav ko andar karte huye chanderi wale Pandit ke makan tak.

**East**—Ramnath Sen ke makan se Chhutti nata ko andar karte huye Bhaiyalal Bundele ke makan wali rasta.

**South**—Hari Yadav ke makan se Patheli Muhalla ko andar karte huye Magan Dheemar ke makan tak.

**West**—Magan Theemar ke makan se Thimrola andar karte huye Nathu Pathak ke makan tak.

#### WARD NO. 14—PRATAP WARD

**North**—Babu Damoila ke makan se Hariram Yadav ko andar karte huye Rahul Namdev se Gya Yadav ki Chakki andar Karte huye Ramlal Sen se Purani Chhatrabas hokar Kamta Yadav Rajesh Yadav se Babulal ke makan tak.

**East**—Shankar Ji Mandir se Babu Kori ka makan lete huye Nauga nale tak.

**South**—Ramesh Damoila ke makan se Chandrabhan Damoila ke samne wali line lete huye Brajlal Namdev ko andar karte huye Jamna Pathak ke makan Jatara road tak.

**West**—Nauga Nale ke Theemar muhalla lete huye devi ji Mandir Kila tak.

#### WARD NO. 15—HARDOUL WARD

**North**—Darua Ahirwar ke makan se Maidani Muhalla Padiyarpura ko andar karte huye Hardol Mandir tak.

**East**—Hardol Mandir se Kila ko Bahar karte huye Talab bali line ki Agor tak.

**South**—Tak ke Agor Pathapura Muhalla Jinagadiyan Muhalla ko andar karte huye talab ke pichhor tak.

**West**—Talab ki Pichhor se Maidani Muhalla ko andar karte huye darua Ahirwar ke makan tak.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 232-जि.श.वि.अ.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 04-150-अट्ठारह-3-04, दिनांक 24 जनवरी, 2004 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगरपालिका परिषद्, रायसेन के वार्डों के पूर्व निर्धारित की गई सीमाओं को यथावत् अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1.	श्रीराम वार्ड
2.	अमीर भाई वार्ड
3.	महावीर वार्ड
4.	नेहरू वार्ड
5.	इंद्रा वार्ड
6.	महात्मा गांधी वार्ड
7.	सुभाष वार्ड
8.	लक्ष्मीबाई वार्ड
9.	चन्द्रशेखर वार्ड
10.	स्वामी विवेकानंद वार्ड
11.	मुकर्जी नगर वार्ड
12.	राजीव नगर वार्ड
13.	शास्त्री वार्ड
14.	राहुल नगर वार्ड
15.	अर्जुन नगर वार्ड
16.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद वार्ड
17.	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
18.	संजय वार्ड

### वार्डों की चतुर्थ सीमाओं का विवरण

#### वार्ड क्र. 1—श्रीराम वार्ड

उत्तर—उत्तर में सीतातलाई की पहाड़ी व सुलेमान की सराय से श्री चुनीलाल लुहार के कच्चे मकान तक।

दक्षिण—दक्षिण में किले को शामिल करते हुए श्मशान घाट पीपलखेड़ा से स्व. सागर वाले हकीम साहब के मकान तक।

पूर्व—पूर्व में वार्ड नं. 2 की सीमा एवं नरापुरा रोड क्रास कर चुनीलाल के मकान तक।

पश्चिम—पश्चिम में सीतातलाई की पहाड़ी व पीपलखेड़ा को लेते हुये किले की सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 2—अमीर भाई वार्ड

उत्तर—उत्तर में पुलिस लाईन एवं श्री दयानंत खाँ (हाथी दरवाजा) के मकान से श्री भैयालाल अहीर के मकान तक।

दक्षिण—दक्षिण में किला सीमा एवं अब्दुल गफूर खाँ चूड़ी वाले के मकान से श्री अजीमुल्ला के मकान तक।

पूर्व—पूर्व में मढ़ईपुरा रोड व तिपट्टा रोड क्रास कर अब्दुल गफूर खाँ चूड़ी वाले के मकान से एक साईट से होते हुए किले की सीमा मेब ने कच्चे मकान।

पश्चिम—पश्चिम में किले की सफीलों से अलीमुल्ला खाँ के मकान से नरापुरा रोड क्रास कर दयानंत खाँ के मकान तक।

नोट—इस वार्ड में गली कच्ची मस्जिद, बावड़ी पुरा, जोशी मोहल्ला आदि शामिल हैं।

#### वार्ड क्र. 3—महावीर वार्ड

उत्तर—उत्तर में जिला चिकित्सालय एवं नवीन सी. एस. बंगले से श्री देवीप्रसाद कुशवाह के मकान से होता हुआ बारेलाल काढ़ी के मकान तक।

दक्षिण—दक्षिण में गणेशराम यादव के मकान से बोधराज जी की पुरानी दुकान कपड़े की व भेरोलाल जी के मकान के समीप फौजदार मोहल्ले की गली से ज्ञानचंद जैन व मेडीकल क्वार्टर सम्मिलित कर तिपट्टा रोड क्रास कर पुराने सी. एस. बंगले तक।

पूर्व—पूर्व में विदिशा रोड एवं पुराने सी. एस. बंगले से नवीन सी. एस. बंगले तक।

पश्चिम—पश्चिम में वार्ड नं. 2 की सीमा एवं गणेशराम यादव के मकान से मढ़ईपुरा रोड क्रास कर शौकत ड्राइवर के खण्डहर एवं बारेलाल काढ़ी के मकान तक।

नोट—इस वार्ड में मढ़ईपुरा अर्थाई मोहल्ला, फौजदार मोहल्ला की गली व ज्ञानचंद जैन के मकान वाली गली शामिल हैं।

### वार्ड क्र. 4—नेहरू वार्ड

**उत्तर**—गोपालपुर हनुमान मंदिर से विदिशा रोड क्रास कर सीतातलाई की पहाड़ी तक.

**दक्षिण**—दक्षिण में वार्ड नं. 3 की सीमा एवं विदिशा रोड क्रास कर निर्माणाधीन न्यायालय भवन तक.

**पूर्व**—पूर्व में न्यायालय भवन से नबाबपुर सम्मिलित करते हुये गोपालपुर मंदिर तक.

**पश्चिम**—डी. एफ. ओ. नरसरी से पुलिस लाईन ईदगाह से सीतातलाई की पहाड़ी तक.

**नोट**—इस वार्ड में कलेक्टर कालोनी, पुलिस लाईन एवं ग्राम गोपालपुर भी सम्मिलित हैं।

### वार्ड क्र. 5—इंद्रा वार्ड

**उत्तर**—उत्तर में वार्ड नं. 3 सीमा एवं स्व. श्री मिश्रीलाल तमोली के मकान से प्रारंभ होकर (इसी साइट के) स्व. श्री सीताराम जी चतुर्वेदी के मकान तथा भैयालाल रञ्जूलाल साहू का मकान शामिल कर पुराने बस स्टेण्ड पर स्व. श्री मंजूर रसूल के मकान तक.

**दक्षिण**—दक्षिण में वार्ड नं. 6 व 7 की सीमा टॉके पर श्री वशीर खाँ एवं रफीक खाँ के मकान से (इसी साइट में) बड़ा मंदिर का मकान एवं थाना रोड क्रास कर श्री शकूर खाँ मन्हार के मकान तक.

**पूर्व**—पूर्व में वार्ड नं. 6 व 7 की सीमा एवं स्व. श्री वशीर खाँ के मकान से तिपट्टा रोड क्रास कर अहमद अली साहब के मकान व जैन मंदिर साइट को शामिल कर शकूर खाँ मन्हार के मकान तक.

**पश्चिम**—किले की बाउन्ड्री एवं रफीक खाँ व स्व. श्री जम्मू खाँ के मकान से इसी लाईन में काली टोल व श्री रामनारायण चतुर्वेदी के मकान को शामिल करते हुए स्व. श्री छुट्टनलाल सकरेना से मिश्रीलाल तमोली के मकान तक.

**नोट**—इस वार्ड में बड़ा मंदिर, नबाबमियां व टॉका वाली गली के एक साइट के मकान व जैन मंदिर तिपट्टा रोड पर स्व. श्री रामकृष्ण दास क्लाथ मर्चेन्ट की पुरानी दुकान की लाईन वाले समस्त मकान शामिल हैं।

### वार्ड क्र. 6—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—उत्तर में किले की बाउन्ड्री से तिपट्टा रोड तक श्री करीम उल्ला हम्माल के मकान के मोतीलाल यादव के मकान तक.

**दक्षिण**—दक्षिण में एस. पी. आफिस एवं जामा मस्जिद के पास की गली से किले की सीमा तक.

**पूर्व**—पूर्व में थाना रोड एवं वार्ड नं. 7 एवं 8 की सीमा जामा मस्जिद से मोतीलाल यादव के मकान तक लाईन.

**पश्चिम**—पश्चिम में किले की सीमा.

**नोट**—इस वार्ड में टॉका मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, शीशगढ़ गली एवं काजी जब्बार खाँ की गली के साइट वाले मकान शामिल हैं।

### वार्ड क्र. 7—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—उत्तर में वार्ड नं. 5 व 3 की सीमा एवं श्री रूपचंद श्रीवास्तव के मकान से जैन मंदिर की गली एवं स्व. श्री पीर मोहम्मद उस्मान व यूनानी चिकित्सालय की साइट के मकान शामिल कर जिला उद्योग कार्यालय तक.

**दक्षिण**—दक्षिण में वार्ड नं. 8 की सीमा एवं स्व. श्री नसरुल्ला खाँ के मकान से ठाकुर मोहल्ला एवं गंज बाजार रोड क्रास कर स्व. श्री शेख जमाल के मकान तक.

**पूर्व**—पूर्व में स्व. श्री शेख जमाल खाँ के मकान से शीवा जनरल स्टोर भवन लेते हुए नगरपालिका कार्यालय भवन से पुराना सी. एस. ब्वार्ट तक.

**पश्चिम**—पश्चिम में वार्ड नं. 6 की सीमा एवं श्री रूपचंद श्रीवास्तव के मकान से श्री नसरुल्ला खाँ के मकान तक.

**नोट**—इस वार्ड में कसाई मोहल्ला, अहीर मोहल्ला तथा मिश्रीलाल सोनी के मकान से स्व. श्री शेख जमाल खाँ और बस स्टेण्ड का एरिया सम्मिलित है।

### वार्ड क्र. 8—लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—उत्तर में वार्ड नं. 7 की सीमा एवं जहूर जमेदार के मकान से स्व. श्री छुट्टुसिंह ठाकुर मकान तथा लुहार मोहल्ला की गली क्रास कर बाल उद्यान तक.

**दक्षिण**—दक्षिण में वार्ड नं. 15 की सीमा एवं सईद खाँ के मकान से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भोपाल रोड तक.

**पूर्व**—पूर्व में भोपाल रोड दुर्गा आईस फैक्ट्री गफूर खाँ ड्रायवर एवं फील्ड में धनालाल कुम्हार से हनुमान मंदिर की साइट में सिन्धी समाज की प्याऊ तक.

**पश्चिम**—पश्चिम में वार्ड नं. 6 की सीमा में रविशंकर उद्यान से श्री सईद खाँ के मकान तक.

**नोट**—इस वार्ड में ठाकुर मोहल्ला, कोलीपुरा, थाना एवं पुराना शिक्षा विभाग कार्यालय का एरिया शामिल है।

**वार्ड क्र. 9—चन्द्रशेखर वार्ड**

**उत्तर**—उत्तर में राज्य वस्तु, व्यापार भण्डार गोदाम से विदिशा रोड क्रास कर जिला चिकित्सालय वन विभाग नरसरी तक.

**दक्षिण**—जिला चिकित्सालय, माताजी चबूतरा यानि कुआँ से एक लाईन के क्वार्टर सम्मिलित कर विदिशा रोड क्रास करते हुए मुमताज मियाँ की दुकानों एवं रामलीला मैदान तक.

**पूर्व**—पूर्व में रामलीला मैदान तालाब पर हनुमान मंदिर सम्मिलित करते हुए भण्डार गृह के गोदाम तक.

**पश्चिम**—जिला चिकित्सालय के क्वार्टरों से नाले एवं नरसरी तक.

**वार्ड क्र. 10—स्वामी विवेकानंद वार्ड**

**उत्तर**—उत्तर में श्री रामनारायण चतुर्वेदी मार्केट से रामलीला मैदान होते हुए कन्या हायर सेकेण्ड्री भवन तक.

**दक्षिण**—दक्षिण में एस. पी. ऑफिस रोड पर पन्नालाल राठौर के मकान से भोपाल रोड क्रास कर कृषि फार्म माता मंदिर के पुराने तालाब तक.

**पूर्व**—पूर्व में कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भवन से सागर रोड क्रास कर जीवन बीमा निगम को लेते हुए पुराने तालाब तक.

**पश्चिम**—पश्चिम में पन्नालाल राठौर के मकान से लीला सोनी के मकान को सम्मिलित करते हुए शकूर साईकिल वाले की दुकान से रोड क्रास कर चतुर्वेदी मार्केट तक.

**वार्ड क्र. 11—मुकर्जी नगर वार्ड**

**उत्तर**—बाबूलाल बैरागी की झुग्गी से प्रहलाद कुमार चावला की झुग्गी लेते हुए शौचालय तक.

**दक्षिण**—टी. आर. वर्मा के मकान से रोड क्रास कर यशवंत कालोनी विश्वनाथ सिंह कुशवाह के मकान को शामिल कर पुराने तालाब से कृषि फार्म माता मंदिर तक.

**पूर्व**—बाबूलाल बैरागी की झुग्गी से संतोष शर्मा के मकान लेते हुए टी. आर. वर्मा के मकान से रोड क्रास कर यशवंत कालोनी विश्वनाथ सिंह कुशवाह के मकान से पुराने तालाब तक.

**पश्चिम**—कृषि फार्म माता मंदिर से कृषि विभाग कार्यालय से रोड क्रास कर कन्या शाला को शामिल करते हुए मिश्र तालाब के सुलभ शौचालय तक.

**वार्ड क्र. 12—राजीव नगर वार्ड**

**उत्तर**—बृजलाल सराठे की झुग्गी से गोहे की अंतिम झुग्गी पीरबेगम की टेकरी तक.

**दक्षिण**—राधा प्रिंटिंग प्रेस से हरिनारायण सक्सेना के मकान से रोड क्रास कर विजय के मकान से पुराने तालाब तक.

**पूर्व**—ताजपुर महल गोहे की आखिरी झुग्गी से श्यामलाल की झुग्गी को लेते हुए राधा प्रिंटिंग प्रेस हरिनारायण सक्सेना का मकान लेते हुए रोड क्रास कर विजय रेडियो के मकान से पुराने तालाब तक.

**पश्चिम**—बृजलाल सराठे की झुग्गी से मेडम के मकान लेते हुए हरिनारायण सक्सेना के मकान से रोड क्रास कर ठाकुर विश्वनाथ सिंह कुशवाह के मकान से पुराने तालाब तक.

**वार्ड क्र. 13—शास्त्री वार्ड**

**उत्तर**—जीमल खाँ लाईनमेन के मकान से पीर बेगम की टेकरी तथा ताजपुर महल की उत्तरी सीमा तक.

**दक्षिण**—मद भण्डार गृह से पाटनदेव मंदिर से खरगावली की पुलिया तक.

**पूर्व**—ताजपुर महल से खरगावली की पुलिया तक.

**पश्चिम**—जीमल खाँ लाईन मेन के मकान से एम. पी. बी. कालोनी होते हुए सत ट्रेडर्स के मकान से मद भण्डार तक.

**वार्ड क्र. 14—राहुल नगर वार्ड**

**उत्तर**—उत्तर में सागर रोड खरगावली की पुलिया से नाका लेते हुए प्रभुलाल कुशवाह शिक्षक के मकान की साइट को लेते हुये महाविद्यालय के प्रथम गेट तक.

**दक्षिण**—वन विभाग उत्पादन कार्यालय एम. पी. ई. की बाउन्ड्री से माइक्रोग्राफ टावर लेते हुए मय झुग्गी झोपड़ी का एरिया.

**पूर्व**—खरगावली पुलिया से पाटनदेव पहाड़ी का क्षेत्र.

**पश्चिम**—महाविद्यालय प्रथम गेट से राहुल नगर झुग्गी झोपड़ी लेते हुए माइक्रोग्राफ झोपड़ी तक का क्षेत्र.

**वार्ड क्र. 15—अर्जुन नगर वार्ड**

**उत्तर**—उत्तर में महाविद्यालय प्रथम गेट से भी बाबूलाल साहू इडवोकेट की साइट के मकान लेते हुए श्री एस. एस. विश्वकर्मा के मकान के पास के रस्ते तक.

**दक्षिण**—श्री सूरज भान शर्मा होमगार्ड का मकान की साइट के मकान लेते हुए पुराने तालाब तक.

**पूर्व—**महाविद्यालय प्रथम गेट से पी. एच. ई. 16 क्वार्टर लेते हुए श्री शर्मा के मकान के साइट वाले मकान लेते हुए वार्ड नं. 14 की सीमा तक.

**पश्चिम—**सागर रोड से वार्ड क्र. 10 की सीमा से पुराने तालाब तक.

#### वार्ड क्र. 16—डॉ. फखरुलदीन अली अहमद वार्ड

**उत्तर—**उत्तर में वार्ड नं. 6 की सीमा एस. पी. आफिस के अधर सईद खाँ एवं चौपड़ा रोड क्रास कर श्री मजहर सईद खाँ मास्टर के मकान को सम्मिलित कर पुराना शिक्षा विभाग रोड से अब्दुल रहमान खाँ के मकान से होते हुए कृषि फार्म तक.

**दक्षिण—**दक्षिण में कृषि उपज मंडी की बाउन्ड्री से भोपाल रोड क्रास कर डॉ. अम्बेडकर भवन की साइट के मकान लेते हुए श्री शम्भू खाँ के मकान तक तथा चौपड़ा रोड क्रास कर राधाकृष्णन के मकान से किले की बाउन्ड्री तक.

**पूर्व—**पूर्व में कृषि फार्म एवं प्रस्तावित बस स्टेण्ड से डॉ. अम्बेडकर भवन तक.

**पश्चिम—**एस. पी. आफिस के पीछे चाँद खाँ के मकान को लेते हुए किले की पहाड़ी से रकीब खाँ एवं कदीर चाचा के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 17—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर—**उत्तर में कृषि उपज मंडी बाउन्ड्री से रोड क्रास कर वार्ड नं. 16 की सीमा तक एवं आसिफ मियां के वर्कशाप की साइट वाले मकान शामिल करते हुए राजाराम विश्वकर्मा के मकान से रोड क्रास कर किले की बाउन्ड्री तक.

**दक्षिण—**दक्षिण में फेजबाग भोपाल रोड क्रास कर सरजू चौबे के मकान से चौपड़ा रोड क्रास कर श्री शैतान सिंह पवार के मकान से श्री बाबूलाल पवार के मकान से पहाड़ी तक.

**पूर्व—**पूर्व में फेजबाग से खुर्रई वाले बाग को शामिल करते हुए कृषि उपज मंडी सहित.

**पश्चिम—**स्व. श्री पं. रामकृष्ण शुक्ला के मकान से पहाड़ी क्षेत्र लेते हुए श्री बाबूलाल पवार के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 18—संजय वार्ड

**उत्तर—**उत्तर में वार्ड नं. 17 की सीमा श्री मथुरा प्रसाद शुक्ला के मकान से भोपाल रोड क्रास कर मंदिर एवं मस्जिद लेते हुए चौपड़ा रोड क्रास कर श्री बिहारी लाल झाईवर के मकान की साइट वाले मकान को लेते हुए मोतीलाल पोस्टमेन के मकान से श्री लक्ष्मण सिंह पवार के मकान को लेते हुए किले की पहाड़ी तक.

**दक्षिण—**दक्षिण में राम सज्जा का क्षेत्र व दरगाह शरीफ सम्मिलित करते हुए फेजबाग तक.

**पूर्व—**पूर्व में श्री मथुरा प्रसाद के मकान से जाहिद मियां के मकान से होते हुये पी. साहिब के मकान तक.

**पश्चिम—**किला पहाड़ी श्री लक्ष्मण सिंह पवार के मकान से पहाड़ी क्षेत्र को लेते हुए संजय नगर सम्मिलित कर राम सज्जा के दरगाह शरीफ तक.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

Raisen, the 30th April 2014

No. 232-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 04-150-XVIII-3-04, Dated 24th Jan. 2004 of Urban Administration & Department of Government of Madhya Pradesh. I, J. K. Jain, Collector, Distt. Raisen, Madhya Pradesh Under section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Municipal Council Raisen, Distt. Raisen as per Schedule below :—

#### SCHEDULE

Ward No.	Name of the Ward
(1)	(2)
1.	SHRI RAM WARD
2.	AMEER BHAI WARD
3.	MAHAVEER WARD
4.	NEHRU WARD
5.	INDRA WARD
6.	MAHATMA GANDHI WARD
7.	SUBHASH WARD
8.	LAXMIBAI WARD
9.	CHANDRA SHEKHAR WARD
10.	SWAMI VIVEKANAND WARD
11.	MUKARJI NAGAR WARD
12.	RAJEEV NAGAR WARD
13.	SHASTRI WARD
14.	RAHUL WARD
15.	ARJUN NAGAR WARD
16.	DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED WARD
17.	DR. AMBEDKAR WARD
18.	SANJAY WARD

#### WARD NO.1—SHRI RAM WARD

**North—**In North side Seta Talai pahari and from Suleman Sarai to Shri Chunni Lal Karigars (Kaccha Makan) house.

**South**—In South side from Shamshan Ghat Papal Khera with the addition of Kila area to the house of late Sagar wale Hakim Sahib.

**East**—In East side the boundary of Ward No. 2 and Narapura Road and from the Kaccha house of Shri Chunni lal Kariger (Hathi Darwaza) to the house of Shri late Sagar Wale Hakim Sahib with Road crossing.

**West**—In west side, Seta Talai Pathri and from Papal Khera to the boundary of Killa.

**Note**—In this Ward the total houses of Killa Narapura Road Khattek Mohilla, Koli Mohalla and Chamar Mohalla are included.

#### WARD NO. 2—AMEER BHAI WARD

**North**—In north side Police line and commencing from the house of Shri Dayanat Khan (near Hathi Darwaza) up to the house of Shri Bhaiyalal Aheer.

**South**—In south side Killa boundary and commencing from the house of Shri Abdul Gafoor Khan upto the house of Shri Alimullah.

**East**—In east side Madhaipura Road and commencing from Tipatta Road crossing and from the line near Sukhlal Ahher's house attached with house of Shri Abdul Gafoor upto the Kabhcha houses situated on the killa boundary.

**West**—In west side boundary walls of killa and commencing from the house of Shri Alimullah upto the shoude of Shri Dayant Khan with Narapura road crossing.

**Note**—Joshi Mohalla, Dawdipura and kachchi Masjid area are included in this Ward.

#### WARD NO.3—MAHAVEER WARD

**North**—In north side Government District Hospital and from the new civil Surgeon's Bungalow including house of Shri Devi Prasad Kushwaha up to the house of Shri Barelal Cachchi.

**South**—In south side commencing from the house Shri Ganesh Desh Ram Yadav including the cloth shop of Shri Bodhraj Khanna and Beronalal' a house near the lane (Gali) of the Phojdar Mohalla and including the house of Gyanchand Jain and Medical Quarters with Tipatta road crossing to the old civil Surgeons Bunglow.

**West**—In the west side boundary of Ward No. 2 and from the house of Ganesh Ram Yadav crossing of Madhaipura road and the collepased house

of Shaukat Driver upto the house of Barelala Kachhi.

**East**—In the east side Vidisha road and from the old Bungalow of Civil Surgeon to new Bungalow of Civil Surgeon.

**Note**—Madhaipura Maohalla, Athai Mohalla lane of Phojdar Mohalla and the lane (Galli) of near the house of Shri Gyan Chand Jain are included in this ward.

#### WARD NO. 4—NEHRU WARD

**North**—From Gopalpur Hanuman Temple to Vidisha Road by crossing Soda Talli Hill.

**South**—In south of boundary of Ward No. 3 and to the Court building by crossing Vidisha Road.

**East**—In east from court building Gopalpur Temple by including Nawapur.

**West**—From DFO Nursery to Police line from Idgah to Sitatalai hill.

**Note**—This ward collected colony police line and Bhopal is included.

#### WARD NO. 5—INDRA WARD

**North**—In north side boundary of Ward No. 3 and commencing from the houses of Shri Misrilal Tamoli including Shri Hari Prasad Tailor and Bhaiyalal Rajjuala Sahu's house on the same side upto the house late Mannzoor Rasool at old bus stand.

**South**—In wouth side the boundaries of Ward No. 6 and 7 and the house of Shri Basheer Khan and Rafeeqe Khan at Tanka on same side Bada Mandir and house of Shri Shakoor Khan Manher with Thana road crossing.

**East**—In east side boundaries of Ward No. 6 and 7 Shri Basheer Khan's (Phojdar Mohalla) house including the tippata road crossing and Ahemed Ali's house and the side of Jain Mandir including upto house of Shakoor Khan Manher.

**West**—In west side the boundary of Killa and the house of Rafeek Khan and Jumaan Khan and of the same side Kali tole and including the houses of Shri Ramnarayan Chaturvedi and Chuttan Lal Saxena upto the house of Shri Misri Lal Tamolia.

**Note**—Bada Mandir's Galli, Nabab Miyan and Galli to Tanka (House of one side) and the houses of Jian Mandir Tipatta road shop of Ramkrishan cloth merchant, are included in this ward.

**WARD NO. 6—MAHATMA GANDHI WARD**

**North**—In north side from boundary of killa to tipatta road and from the house of Shri Karimullah Hammal to the house of Shri Motilal Yadav.

**South**—In south side from SP office and galli near Jama Masjid upto the boundary of killa.

**East**—In east side from Thana road including the boundaries of Ward No. 7 and 8 and Jama Mazid upto the house of Shri Motilal Yadav.

**West**—In west side the boundaries of Killa.

**Note**—Takka Mohalla, Harijan Mohlla, Sheeshgaran wali and the houses beside the Gali of Kaze Abdul Zabbar are included in this ward.

**WARD NO. 7—SUBHASH WARD**

**North**—In north side from the boundaries of Ward No. 5 and 3 including the area of Shri Lakub Beg Arabariya and the house of Late in Jain Mandir gali and the housed beside the Unani Hospital up to the office of District Industries.

**South**—In south side from the boundary of Ward No. 8 including Late Nasullah Khan's house and Thakur Mohalla and Ganj bazar Road Crossing to the house of Shri Sheikh Jamal Khan.

**East**—In east side from the house of Sheikh Jamal Ganj bazar Including the shop of Hazi-Sarif Saheb up to the district industries office at Vidisha Road.

**West**—In west side the boundary of Ward No. 6 and from the house of Shri Yakub Beg Arabariya to the house of Late Nasrulla Khan.

**Note**—Kasai Mohalla, Ahir Mohalla connected row of house from house of Pyarelal Soni to the house Shri Sheikh Jamal in Bus Stand Area and included in this Ward.

**WARD NO.8—LAXMI BAI WARD**

**North**—In north boundary Ward No. 7 and from house of Jafur Jamadar to the house of Lata Chotu Singh Thakur and by crossing Lohar Mohalla Galli to beg Udyan.

**South**—In south boundries of Ward 15 and from house and Sayed Khan to office and District Education Office of Bhopal Road.

**East**—In east Bhopal Raod Durga Ice factory to Gafoor Khan driver and in field Dhanalal Kumhar to side of Hanuman Temple to Pyau of Sindhi Samaj.

**West**—In west boundary of Ward No. 6 to Ravishankar Udyan to the house of Sayed Khan.

**Note**—In this Ward Thakur Mohalla, Colipura Thana and old Educational Department office is also included.

**WARD NO. 9—CHANDRA SHEKHAR WARD**

**North**—In north from Rajya vastu vyapar Bhandar Godam by crossing Vidisha Road to Distt. Hospital and to Forest Departmental Nursery.

**South**—Distt. Hospital Chhabutara of Mataji meaning form well including quarter of one side by crossing Vidisha Road shops of Mumtaj Miya and Ramleela Ground.

**East**—In east at pond of Ramleela Ground by including Hanuman Temple to Godown of Bhandar Grah.

**West**—From quarters of Distt. Hospital to Nala & Nursery.

**WARD NO.10—SWAMI VIVEKANAND WARD**

**North**—In north from Shri Ram Narayan Chaturvedy Market to Girls H. S. building via Ramleela Ground.

**South**—In South from house of Pannalala Rathore on S. P. Office Road to Krisi from by crossing Bhopal Road from Mata Mandir to old Talab.

**East**—In east from Girls H. S. building to old Talab by crossing Sagar Road including Jeewan Bima Nigam and Yashwant Colony Road.

**West**—In west from house of Pannalal Rathore to Chaturvedi Market by including Leela Soni's house by crossing Shokoor Cycle wala Shop road.

**WARD NO. 11—MUKARJI NAGAR WARD**

**East**—From hut of Babulal Bairaggi to Yashwant colony by including house of Santosh Sharma and crossing Road from T. R. Verma house from house of Vishwanath Singh Kushwah to old Talab.

**West**—From Krishi from Mata Mandir to sulabh Sauchalay of Mishra Talab by crossing agriculture Department office Road and including Girls School.

**North**—From hut of Babulal Bairagi to Sauchalay including house of Prahlad Chawala.

**South**—By crossing Road from T. R. Verma's house to Yashwant colony by including Vishwanath Singh Kushwah old Talab to Krishi form Mata Mandir.

**WARD NO. 12—RAJEEV NAGAR WARD**

**East.**—From last hut of Tajpur Mahal Goya by including hut of Shyamal to Radha Printing Press by including house of H. N. Saxena by crossing road from house of Vijay Radio to Old Talab.

**West.**—From hut of Brijlal Sarathe to Madam's house by including house of H. N. Saxena by Crossing road from V. N. Kushwah's House to Old Talab.

**North.**—From hut of Brijlal Sarathe to last hut of Gohe to Takeri of pari Begum.

**South.**—From Radha Printing Press by crossing from house of H. N. Saxena from Vijay's house to old Talab.

**WARD NO. 13—SHASTRI WARD**

**North.**—From house of lineman Jamil Kha to Takri of Pari Begum north boundary of Tajpur Mahal.

**South.**—From Madh Bhandar Ghra to Pathendev Temple to Pulliya of Kharaghwali

**East.**—From Tajpur Mahal to Pulia of Kharaghwali.

**West.**—From line man Jameel Khan house to MPEB colony including SAT Traders House of Madh Bhandar Grah.

**WARD NO. 14—RAHUL WARD**

**North.**—North from Sagar Road to Khargawalis pulia including Naka, Prabhulal Kushwah's house's side and first gate of college.

**South.**—From forest department product office and MPEB boundary to micro graph tower including area of Jhugge Jhopdi.

**East.**—From Khargawali Pulia to Patan Dev hill area.

**West.**—From college first gate to Rahul Nagar Jhugge Jhopdi including Micro-graph jhopdi area.

**WARD NO. 15—ARJUN NAGAR WARD**

**North.**—In north college first gate to Babulal Sahu Advocate including house of S. S. Vishwakrama's house nearer to the road.

**South.**—From Surajbhan Sharma home-guard's house including side housed to old Talab.

**East.**—From college first gate Phs including sixteen quarter and Shri Sharma's house including side houses to boundary of ward number forteen.

**West.**—From Sagar road to ward No. 10 border to old Talab.

**WARD NO.16—DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED WARD**

**North.**—In north from Ward No. 6 border of S. P. Office to Kumar Salyad Dhan house including Old Education Department to Abdul Rehman Khan's house to Krishi form.

**South.**—In South Krishi Upag Mandi's boundary to Bhopal Road and crossing Dr. Ambedkar Bhawan side house including Shambu Khan house and crossing Chopra road and Radha Krishna house to boundary of Fort.

**East.**—In east Krishi form and proposed bus stand to Dr. Ambedkar Bhawan.

**West.**—By including Chand Khan's house behind the S. P. Office including hill of kila to Raviv Khan and Kadir Chacha's house.

**WARD NO. 17—DR. AMBEDKAR WARD**

**North.**—Krishi Upaj Mandi's boundary to Ward No. 16's border and Asiqui Miya's including side house and Raja Ram Vishkarma's house to cross the road and to boundary of killa.

**South.**—In south crossing the fezbag Bhopal Road Sarju Chaube's house to Chopra Road including Shetan Singh Pawar's house to Babulal Pawar's house to hill.

**East.**—In east Fezbag to Khurai wala bag including krishi upaj Mandi.

**West.**—From Pandit Ram Krishna Shukla's house hill area including Babulal Pawar's house.

**WARD NO. 18—SANJAY WARD**

**North.**—In north border of Ward No. 17 and Mathura Prasad Shukla's house to Bhopal Road by crossing the Road including Mandir and Masjid and Chopra Road including Biharilal Driver's side houses to motilal postman's house to Laxman Singh Pawar including hill of kila

**South.**—In south Ram Sajja's area including Dargah Sharif to fexbeg.

**East.**—In east from Mathura Prasad's house to Jehid Miya including the house of Peer Sahab.

**West.**—From Kila hill and Laxman Singh Pawar's house including Pahadi area and Sanjay Nagar and Ram Sajja to Dargah Sharif.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 233-जि.श.वि.अ.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठुरह-3-04, दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एटद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद्, उदयपुरा, जिला रायसेन के बार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
(1)	(2)
1.	संतोषी माता वार्ड
2.	भगत सिंह वार्ड
3.	संजय गांधी वार्ड
4.	लोधी वार्ड
5.	विवेकानन्द वार्ड
6.	नेहरू वार्ड
7.	संत रहदास वार्ड
8.	शिवाजी वार्ड
9.	महात्मा गांधी वार्ड
10.	सुभाष वार्ड
11.	अम्बेडकर वार्ड
12.	महाराणा प्रताप वार्ड
13.	गूरू गोविन्द सिंह वार्ड
14.	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
15.	महात्मा तुलसीदास वार्ड

### बार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्र. 1—संतोषी माता वार्ड

उत्तर—विद्युत् मण्डल कार्यालय से कृषि फार्म लेते हुए शिक्षक कालोनी पचामा रोड़ तक.

पूर्व—पचामा रोड से प्रेमसिंह रघु के मकान से प्राथमिक शाला स्कूल तक प्राथमिक शाला स्कूल से एम.डी.बी.एम. स्कूल तक.

दक्षिण—एम.डी.बी.एस. स्कूल से ब्लॉक की शटरों को लेते हुए एन. एच. रोड पार करते हुए माखन नगर कालोनी तक.

पश्चिम—माखन नगर कालोनी से विद्युत् मण्डल कार्यालय तक.

### वार्ड क्र. 2—भगत सिंह वार्ड

उत्तर—ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सड़क रामदास रघु के मकान को लेते हुए शंकर लोधी के मकान तक.

पूर्व—शंकर लोधी के मकान से महेन्द्र लखेरा के मकान को लेते हुए तालाब हनुमान मन्दिर को बांए छोड़ते हुए रसिक पटेल के मकान को लेते हुए धाना रोड़ गोदानी के खेत तक.

दक्षिण—गोदानी के खेते से राजमार्ग होते हुए रामगोपाल लोया के मकान तक.

पश्चिम—रामगोपाल लोया के मकान से सड़क चलते हुए गंगाराम रघु के मकान एवं अस्पताल को दायं रखते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक.

### वार्ड क्र. 3—संजय गांधी वार्ड

उत्तर—राम कली बाई नोरिया के मकान से एन. एच. 12 चलते हुए सुजीकी शोरूम से नर्बदा धर्मशाला तक.

पूर्व—नर्बदा धर्मशाला से गोपाल सोनी के मकान को लेते हुए नर्बदा विहार कालोनी से कृषि उपज मण्डी तक.

दक्षिण—कृषि उपज मण्डी से भगवत् सिंह गंगोलिया के गार्डन को लेते हुए ईश्वर सिंह राजपूत के मकान तक.

पश्चिम—ईश्वर सिंह राजपूत के मकान से कान्हा सिटी से भुआंगा रोड़ तक.

### वार्ड क्र. 4—लोधी वार्ड

उत्तर—धासीराम कुशवाहा के मकान से नगर पालिका के ट्यूबवेल को लेते हुए प्रिंसटन कालेज तक.

पूर्व—हनुमत सिंह लोधी से रमेश लोधी के मकान को लेते हुए कुम्मा बाई काढ़ी के मकान से हनुमान मन्दिर लोधीपुरा तक.

दक्षिण—लोधीपुरा हनुमान मन्दिर से लखनलाल भटेले के मकान को लेते हुए सकुर मोहम्मद के मकान तक.

पश्चिम—सकुर मोहम्मद के मकान से भगवानदास कडसरिया के मकान को लेते हुए शंकरलाल कुशवाहा से धासीराम कुशवाहा के मकान तक.

### वार्ड क्र. 5—विवेकानंद वार्ड

उत्तर—छोटेलाल स्थापक के मकान से ब्रजभानसिंह राजपूत के मकान तक ब्रजभानसिंह राजपूत के मकान से अर्जुनसिंह के मकान को लेते हुए भट्टा मोहल्ला छोटा मरघट से बैनी पण्डा के मकान तक.

**पूर्व—**बैनी पण्डा के मकान से सरोज बाई सराठे के मकान को लेते हुए गंगाराम रघु के मकान तक, गंगाराम रघु के मकान से कांति बाई के मकान तक, कांतिबाई के मकान से लखनलाल शर्मा के खेत तक.

**दक्षिण—**लखनलाल शर्मा के खेत से भारके गार्डन एकता नगर को लेते हुए सरोजबाई आदिवासी के मकान से महेन्द्र शर्मा से वीरेन्द्र शर्मा के प्लाट तक.

**पश्चिम—**वीरेन्द्र शर्मा के प्लाट से बौरास रोड लेते हुए राजेश सिंह सिसौधिया, गोविन्द सिंह राजपूत मकान से छोटे लाल स्थापक के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 6—नेहरू वार्ड**

**उत्तर—**महेश विंडैया के मकान से लोधी पुरा पुलिया तक लोधीपुरा पुलिया से नाले को पूर्व में छोड़ते हुए बस स्टेण्ड तक.

**पूर्व—**बस स्टेण्ड से सलीम शाह देवेन्द्र कुमार राय के मकान से एग्रो तक.

**दक्षिण—**एग्रो से राजमार्ग चलते हुए गोविन्द कोटवार के मकान तक.

**पश्चिम—**गोविन्द कोटवार के मकान से बौरास रोड चलते हुए हसीना बी के मकान तक हसीना बी के मकान से विनोद राय के मकान को लेते हुए एयरटेल टावर से नई उद्धीन के मकान तक नई उद्धीन के मकान से बहादुर खां के मकान को लेते हुए कोलीपुरा स्कूल तक बाजार में हरिनारायण के मकान को लेते हुए नगर पालिका सटरें लेते हुए महेश विंडैया तक.

#### **वार्ड क्र. 7—संत रहदास वार्ड**

**उत्तर—**सीता राम साहू के मकान से नसीर बेना के मकान को लेते हुए जगदीश प्रसाद राय के मकान तक.

**पूर्व—**जगदीश प्रसाद राय के मकान से बौरास रोड चलते हुए नारायण सिंह चौहान के मकान को लेते हुए बाल गोविन्द राय के मकान तक.

**दक्षिण—**बाल गोविन्द राय के मकान से एन. एच. 12 पर चलते हुए राजेश स्थापक के मकान तक.

**पश्चिम—**राजेश स्थापक के मकान से बम्हौरी रोड चलते हुए सीताराम साहू के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 8—शिवाजी वार्ड**

**उत्तर—**प्रहलाद सिंह रघु के मकान से चलते हुए किशन पन्डा के मकान तक, किशन पन्डा के मकान से अम्बेडकर भवन तक.

**पूर्व—**अम्बेडकर भवन से श्रवण विश्वकर्मा के मकान को लेते हुए बम्हौरी रोड पर नवनीत भार्गव के मकान तक.

**दक्षिण—**नवनीत भार्गव के मकान से प्रहलाद जैन के मकान तक.

**पश्चिम—**प्रहलाद जैन के मकान से डॉ. पटेल के मकान को लेते हुए प्रहलाद सिंह रघु के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 9—महात्मा गांधी वार्ड**

**उत्तर—**प्रताप सिंह रघु के बगीचा से बी. एस. एन. एल. टावर को लेते हुए हनुमान मन्दिर तलापुरा तक हनुमान मन्दिर तलापुरा से भुजवल साहू के मकान तक.

**पूर्व—**भुजवल साहू के मकान से श्रवण दुबे के मकान तक, श्रवण दुबे के मकान से काशीराम धाकड़ के मकान को लेते हुए कालिका मन्दिर तक, कालिका मन्दिर से धनालाल अहिरवार के मकान तक.

**दक्षिण—**धनालाल अहिरवार के मकान से राज कुमार अहिरवार को लेते हुए छोटे लाल मेहरा के मकान तक छोटेलाल मेहरा के मकान से गणेश विश्वकर्मा के मकान को लेते हुए सुरेश सिंह राजपूत के मकान तक.

**पश्चिम—**सुरेश सिंह राजपूत के मकान से रामेश्वर रघुवंशी के मकान को लेते हुए प्रतापसिंह रघु के बगीचे तक.

#### **वार्ड क्र. 10—सुभाष वार्ड**

**उत्तर—**मोहन प्रजापति की टापरी से चलकर श्रीराम वर्मा के मकान को लेते हुए काली किराना तक काली किराना से कंछेदी साहू की दुकान तक.

**पूर्व—**कंछेदी साहू की दुकान से रफीक खाँ के मकान को लेते हुए प्रेम साहू के मकान से चलते हुए अनवर अहमद के मकान तक.

**दक्षिण—**अनवर अहमद के मकान से चलते हुए हाजरा बी के मकान को लेते हुए ओमप्रकाश साहू के मकान तक.

**पश्चिम—**ओमप्रकाश साहू के मकान से गोपाल मेहतर के मकान तक गोपाल मेहतर के मकान से बाबूलाल अहिरवार के मकान तक बाबूलाल अहिरवार के मकान से उदलपाल के मकान को लेते हुए मोहन प्रजापति की टापरी तक.

#### **वार्ड क्र. 11—अम्बेडकर वार्ड**

**उत्तर—**सीताबाई विश्वकर्मा के मकान से कल्याण सिंह रघु के मकान को लेते हुए प्रकाश सोनी के मकान तक, प्रकाश सोनी के मकान से रामगोपाल नायक के मकान को लेते हुए मंजू जैन के मकान तक मंजू जैन के मकान से पुराने पोस्ट ऑफिस तक.

**पूर्व—**पुराने पोस्ट आफिस मकान से चलते हुए शिवनारायण राय, अशोक कुमार विश्नोई के मकान को लेते हुए मुलायम बी के मकान तक.

**दक्षिण—**मुलायम बी के मकान से डॉ. एम. एल. बड़कुल के मकान तक डॉ. एम. एल. बड़कुल के मकान से फूलसिंह धाकड़ के मकान को लेते हुए मदन सिंह धाकड़ के मकान तक.

**पश्चिम—**मदन सिंह धाकड़ के मकान से जमना प्रसाद राय के मकान तक जमना प्रसाद राय के मकान से प्रेमशंकर बड़कुर सीताबाई विश्वकर्मा के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 12—महाराणा प्रताप वार्ड**

**उत्तर—**श्याम कुमार चांडक के मकान से मोहनलाल साहू गोविन्द दास विश्नोही से राजेन्द्र कुमार भार्गव के मकान तक.

**पूर्व—**राजेन्द्र कुमार भार्गव के मकान से जैन मन्दिर को लेते हुए सुरेश ददा के मकान तक.

**दक्षिण—**सुरेश ददा के मकान से रामचन्द्र गोदानी, कहैयालाल विश्वकर्मा, देवकिशन सोनी के मकान को लेते हुए भगवत सिंह धाकड़, कुम्भाई धाकड़ के मकान तक, कुम्भाई धाकड़ के मकान से वेटी बाई सक्सेना प्रताप राजपूत लाखा वाले रघु के मकान तक.

**पश्चिम—**अमान सिंह खड़या के मकान से ललित राठी के मकान तक ललित राठी के मकान से जीवन सिंह रघु के मकान को लेते हुए विष्णुप्रसाद खेड़ापति के मकान तक, विष्णुप्रसाद खेड़ापति के मकान से अशोक सोनी विनोद कुमार सिन्हा, जीवनलाल साहू के मकान से श्याम कुमार चांडक के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 13—गुरु गोविन्द सिंह वार्ड**

**उत्तर—**कोमल सिंह विश्वकर्मा के मकान से देवेन्द्र दुबे के मकान को लेते हुए बृजेन्द्र सक्सेना के बगीचा को लेते हुए नारायण सिंह रघु के बगीचा तक.

**पूर्व—**नारायण सिंह रघु के बगीचा से विलंगवा रोड़ चलते हुए कमोद कुशवाहा के मकान को लेते हुए लोधीपुरा पुलिया तक.

**दक्षिण—**लोधीपुरा पुलिया से सकूर मो. के मकान को लेते हुए सुधीर पाठक के मकान तक सुधीर पाठक कोशल किशोर श्रीवास्तव के मकान को लेते हुए सुन्दरलाल सोनी के मकान तक.

**पश्चिम—**सुन्दरलाल सोनी के मकान से राधेश्याम सोनी के मकान को लेते हुए कंछेदीलाल साहू के मकान तक कंछेदीलाल साहू के मकान से कोमल सिंह विश्वकर्मा के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 14—दीनदयाल उपाध्याय वार्ड**

**उत्तर—**गोपाल साहू के मकान से रम्माबाई रघु के मकान तक. रम्माबाई रघु के मकान से कंछेदीसाहू के मकान को लेते हुए शाहिद यार खां के मकान तक, शाहिद यार खां के मकान से शहंशाह के मकान को लेते हुए एम. एम. कुरैशी, छोटी मस्जिद, शेख नजीर के मकान तक.

**पूर्व—**शेख नजीर के मकान से मो. जहीर से हरिचरण लखेरा तक.

**दक्षिण—**हरिचरण लखेरा के मकान से राजेश लखेरा-नारायण सिंह रघु के मकान को लेते हुए हाकम सिंह रघु के मकान तक.

**पश्चिम—**हाकम सिंह रघु के मकान से मुरारीलाल श्रीवास्तव, नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव से गोपाल साहू के मकान तक.

#### **वार्ड क्र. 15—महात्मा तुलसीदास वार्ड**

**उत्तर—**सीताराम आदिवासी के मकान से राकेश सिंह रघु के मकान को लेते हुए गुप्ता जी की बगिया तक.

**पूर्व—**गुप्ता जी की बगिया से बृन्दावन दास लोया की बगिया को लेते हुए शेख बसीम के मकान से पटेल की बगिया तक.

**दक्षिण—**शेख बसीम के मकान से शेख अहमद शेख नजीर से शेख हसीब तक शेख हसीब से रतिराम मेहरा मूलचन्द रैकवार, रमेश कुमार रघुवंशी के मकान से चलकर श्रीराम रघु के मकान को लेते हुए महेश श्रीवास्तव के मकान तक.

**पश्चिम—**महेश श्रीवास्तव के मकान से गयाप्रसाद वर्मा गुलाब सिंह के मकान से सीताराम आदिवासी के मकान तक.

**जे. के. जैन, कलेक्टर.**

Raisen, the 30th April 2014

No. 233-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. . . . . . of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, J. K. Jain, Collector, Distt. Raisen, Madhya Pradesh Under Section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Municipal Council Udaipura, Distt. Raisen as per Schedule below :—

#### **SCHEDULE**

Ward No.	Name of the Ward
(1)	(2)
1.	Santoshi Mata Ward
2.	Bhagat Singh Ward
3.	Sanjay Gandhi Ward

(1)	(2)
4.	Lodhi Ward
5.	Vivekanand Ward
6.	Nehru Ward
7.	Sant Rehdas Ward
8.	Shivaji Ward
9.	Mahatma Gandhi Ward
10.	Subhash Ward
11.	Ambedkar Ward
12.	Maharana Pratap Ward
13.	Guru Govind Singh Ward
14.	Deendayal Upadhyaya Ward
15.	Mahatma Tulsidas Ward

**WARD NO.1—SANTOSHI MATA WARD**

**North**—Office of M. P. E. B. to Agriculture Farm and Shikshak Colony, Pachama Road.

**East**—From Pachama Road to the House of Prem Singh Raghu to Primary School. Primary School to M. D. B. M. School.

**South**—From M. D. B. M. School to cover the shutters of Blocks to N. H. Road and crossed the Makhan Nagar Colony.

**West**—From Makhan Nagar Colony to MPEB Office.

**WARD NO.2—BHAGAT SINGH WARD**

**North**—From Office of Block Education Officer covered with the House of Ramdas Raghu to the House of Shankar Lodhi.

**East**—From the House of Shankar Lodhi to Mahendra Lakhera covered with Talab Hanuman Mandir Leaving the left side. Covered the house of Rasiq Patel to the field of Godani Ghana Road.

**South**—From the field of Godani to N. H. to House of Ramgopal Loya.

**West**—From the House of Ramgopal Loya to Road via the House of Gangaram Raghu and Right side of Hospital to the office of Block Education Officer.

**WARD NO.3—SANJAY GANDHI WARD**

**North**—From the House of Ramkali Bai Noriya to N. H. 12 via Suzuki Showroom to Narbada Dharamshala.

**East**—From Narbada Dharamshala to the House of Gopal Saini via Narmada Vihar Colony to Krishi Upaj Mandi.

**South**—From Krishi Upaj Mandi to the Garden of Bhagwat Singh Gangoliya via House of Ishwar Singh Rajput.

**West**—House of Ishwar Singh Rajput to Kanha City to Bhuwara Road.

**WARD NO.4—LODHI WARD**

**North**—From House of Ghasiram Kushwaha via tubewell of Nagar Palika to Princeton College.

**East**—From House of Hanuman Singh Lodhi to Ramesh Lodhi via House of Kumma Bai Kachi to Hanuman Mandir Lodhipura.

**South**—From Lodhipura Hanuman Mandir to Lakhlanlal Bhatele's House via house of Sakur Mohd.

**West**—From House of Sakur Mohd. to Bhagwandas Kandsariya via House of Shankarlal Kushwaha upto Ghasiram Kushwaha's House.

**WARD NO.5—VIVEKANAND WARD**

**North**—From the House of Chotelal Sthapak to Brijbhan Singh Rajput's House. From Brijbhan Singh Rajput's House to the house of Arjun Singh via Bhatta Mohalla Chota Marghat to Beni Panda's House.

**East**—From the house Beni Panda's to Saroj Bai Sarathe's House via house of Gangaram Raghu. From Gangaram Raghu's house to House of Kanti Bai and Kanti Bai's House to the field of Lakhlanlal Sharma.

**South**—From the field of Lakhlanlal Verma to Bharke Garden, Ekta Nagar via Sarojbai Adivasi house to Mahendra Sharma's House and Mahendra Sharma's House to Virendra Sharma's plot.

**West**—From the plot of Virendra Sharma to Boras Road via Rajesh Singh Sisodia. House of Govind Singh Rajput to Chotelal Sthapak's House.

**WARD NO.6—NEHRU WARD**

**North**—From the House of Mahesh Vidiya to Lodhipura Puliya. Lodhipura Puliya to bus stand previously leave the Nala.

**East**—From Bus stand to Saleem Shah. House of Devendra Kumar Rai to Agro.

**South**—From Agro to N. H. via House of Govind Kotwar.

**West**—From the House of Govind Kotwar to Boras Road via house of Haseena Bee. From Haseena Bee's house to Vinod Rai House via Airtel Tower

to Naimuddin House. Naimuddin House to the House of Bahadur Khan's House via Kolipura School. In market Harinarayan's House via Shutters of Nagar Palika to Mahesh Vidiya's House.

#### **WARD NO.7—SANT REHDAS WARD**

**North**—From the House of Sitaram Sahu's via House of Naseer Bena to House of Jagdish Prasad Rai.

**East**—From the House of Jagdish Prasad Rai to Baros Road via Narayan Singh Chouhan's House to Bal Govind Rai's house.

**South**—From the House of Balgovind to N. H. 12 via Rajesh Sthapak's House.

**West**—From the House of Rajesh Sthapak via Bamhori Road to the House of Sita Ram Sahu.

#### **WARD NO.8—SHIVAJI WARD**

**North**—From the House of Prahlad Singh Raghu via House of Kishan Panda. Kishan Panda's house to the building of Ambedkar Bhawan.

**East**—From Ambedkar Bhawan to Shravan Vishvakarma's house via Bamhori Road to house of Navneet Bhargava.

**South**—From the House of Navneet Bharat to the House of Prahlad Jain.

**West**—From the House of Prahlad Jain via House of Dr. Patel to the House of Prahlad Singh Raghu.

#### **WARD NO.9—MAHATMA GANDHI WARD**

**North**—From the Garden of Pratap Singh Raghu to B.S.N.L. Tower via Hanuman Mandir Talapura to Hanuman Mandir Talapura. Hanuman Mandir Talapura to the House of Bhujwal Sahu.

**East**—From the House of Bhujwal Sahu to Shravan Dubey's House. Shravan Dubey's Hosue of Kashiram Dhakad's house via Kalika Mandir. Kalika Mandir to the House of Dhannalal Ahirwar.

**South**—From the House of Dhannalal Ahirwar via Raj Kumar Ahirwar to the house of Chotelal Mehra's. Chotelal Mehra's house to Ganesh Vishwakarma's house via Suresh Singh Rajput's house.

**West**—From the house of Suresh Singh Rajput via Rameshwar Raghuvanshi house to the Graden of Pratap Singh Raghu.

#### **WARD NO.10—SUBHASH WARD**

**North**—From the Jhuggi of Mohan Prajapati via house of Shriram Verma to Kali Kirana. From Kali Kirana to the shop of Kanchedi Sahu.

**East**—From the shop of Kanchedi Sahu via house of Rafeeq Khan to House of Anwar Ahmed.

**South**—From the House of Anwar Ahmed via Hajra Bee's house to the house of Omprakash Sahu.

**West**—From the house of Omprakash Sahu to the House of Gopal Sweeper. From Gopal Sweeper's house to Babulal Ahirwar's House. Babulal Ahirwar's house to house of Udalpal via jhuggi of Mohan Prajapati.

#### **WARD NO.11—AMBEDKAR WARD**

**North**—From the House of Sitabai Vishwakaram to the House of Kalyan Singh Raghu via house of Prakash Soni. From House of Prakash Soni to Ramgopal Nayak's house via house of Manju Jain. From Manju Jain's house to Old Post Office.

**East**—From the Old Post Office via house of Shivnarayan, Ashok Kumar Vishnoi to Mulayam Bee's house.

**South**—From the house of Mulayam Bee to Dr. M. L. Badkul and Dr. M. L. Badkul House to Phool Singh Dhakad House via house of Madan Singh Dhakad.

**West**—From the house of Madan Singh Dhakad to Jamna Prasad Rai and Jamna Prasad Rai's house to Prem Shankar Badkur and Sitaram Vishwakarma's House.

#### **WARD NO.12—MAHARANA PRATAP WARD**

**North**—From the House of Shyam Kumar Chandak to the House of Mohanlal Sahu and Govind Das Vishnoi to the house of Rajendra Kumar Bhargava.

**East**—From the House of Rajendra Kumar Bhargava via Jain Mandir to the house of Suresh Dadda.

**South**—From the House of Suresh Dadda via house of Ramchandra Godani, Kanhiyalal Vishwakarma, Devkishan Soni to Bhagwat Singh Dhakad Kumabai Dhakad's house. From house of Kumabai Dhakad to Beti Bai Saxena Pratap Rajput Lakha Wale Raghav.

**West**—From the House of Aman Singh Khadiya to House of Lalit Rathi. Lalit Rathi's house to Jeewan Singh Raghu's house via Vishnu Prasad Khedapati's house. Vishnu Prasad Khedapati's house to Ashok Soni, Vinod Kumar Singh, Jeevan Lal Sahu's house to Shyam Kumar Chandak's house.

**WARD NO.13—GURU GOVIND SINGH WARD**

**North**—From the House of Komal Singh Vishwakarma via house of Devendra Dubey, Garden of Brijendra Saxena to the garden of Narayan Singh Raghu.

**East**—From the Garden of Narayan Singh Raghu via bilgawan road and house of Kamod Kushwaha to Lodhipura Puliya.

**South**—From Lodhipura Puliya to house of Md. Sakur via house of Sudhir Pathak. House of Sudhir Pathak, Koushal Kishore Shrivastava to Sunderlal Soni house.

**West**—From house of Sunderlal Soni to the house of Kanchedilal Sahu via house of Radheshyam Soni. From house of Kanchedilal Sahu to house of Komal Singh Vishwakarma.

**WARD NO.14—DEENDAYAL UPADHYAYA WARD**

**North**—From the house of Gopal Sahu to Rammabai Raghu. Rammabai Raghu's house to Kanchedilal Sahu's house via Shahid Yaar Khan. Shahid Yaar Khan's house to Shahanshah's House via M.M. Qureshi, Choti Masjid to the house of Sheikh Nazeer.

**East**—From the house of Sheikh Nazeer to Mohd. Zaheer to Haricharan Lakhera.

**South**—From the House of Haricharan Lakhera to Rajesh Lakhera via Narayan Singh Raghu to Hakam Singh Raghu's House.

**West**—From house of Hakam Singh Raghu to Murarilal Shrivastava. Narendra Kumar Shrivastava to the house of Gopal Sahu.

**WARD NO.15—MAHATMA TULSIDAS WARD**

**North**—House of Sitaram Adivasi to Rakesh Singh Raghu via garden of Gupta ji.

**East**—From the garden of Gupta ji to the garden of Brindavan Loya via house of Sheikh Vaseem to the garden of Patel.

**South**—From the house of Sheikh Vaseem to Sheikh Ahmed, Sheikh Nazeer to Sheikh Haseeb. From Sheikh Haseeb to Ratiram Mehra, Moolchand Raikwar, Ramesh Kumar Raghuwanshi's house to Shriram Raghu's house via Mahesh Shrivastava's house.

**West**—From house of Mahesh Shrivastava to Gaya Prasad Verma. From Gulab Singh's house to Sitaram Adivasi's house.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 234-जि.श.वि.अ.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अछुरह-3, दिनांक 24 फरवरी, 2004 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, जिला रायसेन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29(1) के अधीन नगर परिषद्, गैरतगंज, जिला रायसेन के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :—

अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1	महात्मा गांधी
2	सुभाषचंद्र बोस
3	भगत सिंह
4	बालगंगा धर तिलक
5	रानी दुर्गावती
6	चन्द्रशेखर आजाद
7	भीमराव अम्बेडकर
8	महारानी लक्ष्मी बाई
9	जवाहरलाल नेहरू
10	महाराणा प्रताप
11	महात्मा फूले
12	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
13	छत्रपति शिवाजी
14	सरदार बल्लभभाई पटेल
15	डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी

**वार्ड क्र. 1—महात्मा गांधी**

**उत्तर**—टेकापार गढ़ी के पश्चिम उत्तर कोने से टेकापार गढ़ी उसरमेटा की राजस्व सीमा से सीधे आगे चलते हुए उस बिन्दु तक जहां से सीधी रेखा दक्षिण की ओर चलते हुये मण्डी को जाने वाले रोड को क्रास करते हुये श्री पीतम सिंह के मकान के पास मिलती है।

**पूर्व**—उसरमेटा ग्राम की सीमा से दक्षिण की ओर सीधे चलते हुये आगे मण्डी के जाने वाले रोड को क्रास करते हुये श्री पीतम सिंह के मकान को शामिल करते हुये आगे टेलीफोन टॉवर खुबचंद जैन के मकान के पास से रोड के सहरे चलते हुये श्रीमती सौभा सिस्टर के मकान को शामिल करते हुये सागर रायसेन को जाने वाले एनएच 86 मार्ग पर श्री रामबाबू यादव के मकान तक।

**दक्षिण—**श्री रामबाबू यादव के मकान से रायसेन जाने वाले एनएच 86 मार्ग के किनारे से आगे रोड पर हनुमान मंदिर को सम्मिलित करते हुये रोड के सहारे चलते हुये चौबे जी का मकान वहां से आगे रोड पानी ओवररेड टंकी एवं आगे पेट्रोल पंप को सम्मिलित करते हुये पुलिया तक.

**पश्चिम—**रायसेन जाने वाले मार्ग पर टोल टैक्स नाके पास बनी पुलिया अर्थात् ग्राम सहजपुर की राजस्व की सीमा से सीधे आगे चलते हुये टेकापार गढ़ी एवं उसरमेटा ग्राम की राजस्व सीमा पश्चिमी उत्तरी कोने तक.

### वार्ड क्र. 02— सुभाष चंद्र बोस वार्ड

**उत्तर—**उसरमेटा ग्राम राजस्व सीमा मण्डी रोड पर स्थित संगीत महाराज के मकान से आगे चलते हुये राजाराम साहू के मकान से चलते हुये दिनेश श्रीवास्तव के मकान को लेते हुये आदिल भाई के मकान को लेते हुये पूर्व दिशा में पुलिया तक.

**पूर्व—**पुलिया से नाले के सहारे चलते हुये दक्षिण पश्चिम में रघुवीर श्रीवास्तव के मकान तक रघुवीर श्रीवास्तव के मकान के सहारे चलते हुये अनिल श्रीवास्तव के मकान को लेते हुये नर्मदा प्रसाद पटवारी के मकान को लेते हुये गली के सहारे गोपीलाल साहू के मकान तक.

**दक्षिण—**मार्केटिंग सोसायटी के बाजू से गोपीलाल साहू के मकान से जैन मंदिर को लेते हुये लक्ष्मीचंद नायक के प्लाट तक.

**पश्चिम—**एनएच 86 मार्ग पर स्थित लक्ष्मीचंद नायक के प्लाट से चलते हुये उत्तर दिशा में एचपी पब्लिक स्कूल को लेते हुये पुलिया क्रास करते हुये, मण्डी रोड संगीत सहाराज के मकान तक.

### वार्ड क्र. 03— भगतसिंह वार्ड

**उत्तर—**उसरमेटा ग्राम की राजस्व सीमा के आगे पूर्व की ओर चलते हुये बीना नदी के मध्य केन्द्र बिन्दु से मण्डी पुलिया तक नाले के सहारे चलते हुये पश्चिम दिशा में मुन्ना राय के मकान तक.

**पूर्व—**बीना नदी के मध्य केन्द्र बिन्दु से सीधे आगे चलते हुये रायसेन-सागर एनएच 86 मार्ग पर बीना नदी की पुलिया तक.

**दक्षिण—**सागर-रायसेन जाने वाले एनएच 86 मार्ग पर स्थित बीना नदी की पुलिया से रोड के सहारे चलते हुये रेस्टहाऊस को जाने वाले रोड को क्रास करते हुये जैन धर्मशाला को लेते हुये पश्चिम दिशा में चलते हुये

मार्केटिंग सोसायटी की दुकानों को लेते हुये लखन सेन की दुकान तक.

**पश्चिम—**सागर-रायसेन जाने वाले एनएच 86 मार्ग पर स्थित श्री लखन सेन की दुकान से पश्चिम उत्तर में चलते हुये पीटीआई साहब का मकान लेते हुये श्री वीरेन्द्र शर्मा का मकान लेते हुये भदौरिया मास्टर जी के प्लाट के बाजू में रोड के सहारे चलते हुये उत्तर दिशा में भदौरिया मास्टर जी के घर को लेते हुये सिंह साहब मास्टर जी के घर को लेते हुये मुन्ना राय के मकान को लेते हुये पुलिया तक.

### वार्ड क्र. 04— बाल गंगाधर तिलक वार्ड

**उत्तर—**बीना नदी के स्टाप डेम रोड के किनारे चलते हुये पूर्व दिशा में चलते बाजार चौक तक.

**पूर्व—**बाजार चौक से दक्षिण दिशा में चलते हुये रोड के सहारे चलते हुये मस्जिद को लेते हुये सागर भोपाल रोड नायक जी की दुकान तक.

**दक्षिण—**राजकुमार नायक की दुकान से रोड के सहारे चलते हुये बीना नदी पुल तक.

**पश्चिम—**बीना नदी के सहारे चलते हुये राम जानकी मंदिर को लेते संकट मोचन हनुमान को लेते हुये स्टॉप डेम तक रामबाबू प्रजापति के मकान को लेते हुये लाल मियां मंसूरी के मकान को लेते हुये जीवन गिर के मकान को लेते हुये सईद मंसूरी के मकान को लेते हुये एवं मो. शफीक बिच्छू बिड़ी वालों के मकान को लेते हुये पुनः रामबाबू प्रजापति के मकान तक.

### वार्ड क्र. 05— रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर—**राजेश शर्मा शिक्षक के कोने से मरघट वाले रोड के सहारे चलते हुये चंदू मंसूरी के घर एवं मरघट तक.

**पूर्व—**राजेश शर्मा के मकान से दक्षिण की ओर रोड के सहारे चलते हुये बड़ा जैन मंदिर को सम्मिलित कर आगे यूनानी सफाखाना तक.

**दक्षिण—**छक्कूलाल साहू के मकान से डेम रोड के सहारे चलते हुये यूनानी दवाखाने तक.

**पश्चिम—**चंदू मंसूरी के मकान से बीना नदी के सहारे चलते हुये राजेश शर्मा शिक्षक के मकान तक.

### वार्ड क्र. 06— चंद्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर—**बीना नदी पर बण्डोली राजस्व सीमा से पूर्व की ओर चलते हुये हलाली नाले तक.

**पूर्व—बण्डोली ग्राम की राजस्व सीमा से हलाली नाले के सहारे सीधे दक्षिण की ओर चलते हुये ट्यूबवेल तक.**

**दक्षिण—ट्यूबवेल से रोड के सहारे चलते हुये पश्चिम की ओर मुना साहू के मकान तक.**

**पश्चिम—सीमा मुना साहू के मकान से राजेश शर्मा के मकान तक और मरघट वाले रोड के सहारे चलते हुये बण्डोली ग्राम की राजस्व सीमा तक.**

#### **वार्ड क्र. 07—डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड**

**उत्तर पूर्व—मुना स्वीपर के मकान से हलाली नाले के सहारे चलते हुये दक्षिण की ओर बाबू खां के मकान के पास पाठे नाले की पुलिया तक.**

**दक्षिण—पाठे नाले के पास बाबू खां के मकान से पश्चिम की ओर रोड के सहारे चलते हुये सरीफ कुरैशी के मकान को लेते आगे चलते हुये सैयद तारीक मकान को लेते हुये गली के सहारे आगे चलते हुये लाल मंदिर के सामने सुरेश चंद नायक को लेते हुये जामा मस्जिद के सामने डॉ. सफीक की दुकान को लेते व सैफू के मकान को लेते हुये मुना पठान के मकान के सहारे कसाई मण्डी मस्जिद तक.**

**पश्चिम—प्रदीप श्रीवास्तव के मकान से मेन रोड के सहारे चलते हुये मसूद अहमद के मकान तक.**

#### **वार्ड क्र. 08— महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड**

**उत्तर—चांद मिया के मकान से लतीफ कुरैशी के मकान तक.**

**पूर्व—लतीफ कुरैशी के मकान से चलते हुये वीरेन्द्र पटेरिया के मकान को लेते हुये एयर टेल टॉवर को शामिल करते हुये शिखर चंद का मकान शामिल करते हुये आगे रोड के सहारे चलते हुये वृदांवन चंद्रवंशी के मकान तक.**

**दक्षिण—वृदांवन चंद्रवंशी के मकान से पश्चिम की ओर रोड के सहारे चलते हुये भूपसिंह पटेल शामिल करते हुये आगे शफीक मोहम्मद के मकान तक.**

**पश्चिम—शफीक मोहम्मद के मकान को लेते हुये रोड के सहारे चलते हुये उत्तम चंद के मकान को लेते हुये नाजिम भाई के मकान को लेते हुये चांद मिया के मकान तक.**

#### **वार्ड क्र. 09— जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

**उत्तर—राकेश जैन घड़ी वाले की दुकान से पूर्व की ओर चलते हुये धैयालाल जैन के मकान को शामिल करते हुये विजय पटेल के मकान, दुकान तक एवं उनके आगे राजमल जैन के मकान को शामिल करते हुये आगे चलते हुए एस. के.**

**महेश्वरी का मकान लेते हुये दाउ के मकान के पास कुर्ये तक एवं वहां से आगे गुलाबसिंह टंडन के मकान को शामिल करते हुये रोड के सहारे आगे चलते हुये जयशंकर पाठक का मकान लेते हुये बाबूलाल राय एवं मोतीलाल अहूजा के मकान से आगे नई बिजली वाले के मकान को शामिल करते हुये सागर रायसेन रोड पर पुलिस थाने के उत्तरी कोने तक.**

**पूर्व—सागर रायसेन रोड पर पुलिस थाने के उत्तरी कोने से पुराने पुलिस थाने के सामने तक.**

**दक्षिण—पुराने थाने से पश्चिम की ओर रोड के सहारे चलते हुये बस स्टेंड को शामिल कर जैन मेडिकल से आगे पुरानी पुलिस चौकी के पास श्री पन्नालाल जी शर्मा के मकान तक.**

**पश्चिम—पुरानी पुलिस चौकी के पास पन्ना लाल जी शर्मा की दुकान से उत्तर की ओर रोड के सहारे चलते हुये आगे श्री राकेश जैन घड़ी वालों की दुकान तक.**

#### **वार्ड क्र. 10— महाराणा प्रताप वार्ड**

**उत्तर—उत्तरमेंटा जाने वाले रोड के कोने पर बण्डोली ग्राम की राजस्व सीमा से पूर्व की ओर चलते हुये उस बिन्दु तक जहां से एक सीधी रेखा इमरान के मकान के पास पहुंचती है.**

**पूर्व—बण्डोली ग्राम की राजस्व सीमा से सीधी रेखा से दक्षिण की ओर चलते हुये खेत एवं नाला पार करते हुये आगे इमरान के मकान तक वहां से आगे पूर्व की ओर रोड के सहारे चलते हुये गणेश रजक के मकान तक वहां से आगे चलते हुये मनोज जैन के मकान के सामने चबूतरे तक.**

#### **वार्ड क्र. 11— महात्मा फुले वार्ड**

**उत्तर—बण्डोली ग्राम एवं आगे चांदोनीगंज की राजस्व सीमा से आगे चलते हुये सीधे सागर को जाने वाले रोड तक.**

**पूर्व—सागर को जाने वाले रोड के सहारे रायसेन की ओर चलते हुये रघुवंशी ढावा को लेते हुये और आगे माधव किराना स्टोर पंचवटी होटल को लेते हुये थाने के उत्तरी कोने तक.**

**दक्षिण—सागर रायसेन रोड पर पुलिस थाने के उत्तरी कोने पर श्री सेफअली की दुकान से पश्चिम की ओर रोड के सहारे चलते हुये श्री मानसिंह बरौआ के मकान तक.**

**पश्चिम—श्री मानसिंह बरौआ के मकान के किनारे से रोड के सहारे चलते हुये आगे रोड से नीचे की ओर चलते हुये वाहिद कुरैशी के मकान तक एवं वहां से उत्तर की ओर उस बिन्दु तक जहां पर बण्डोली ग्राम एवं चांदोनीगंज की राजस्व सीमा मिलती है.**

**वार्ड क्र. 12— डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**उत्तर—**चांदोनी ग्राम की राजस्व सीमा अर्थात् सागर को जाने वाले रोड क्रास करते हुये सीधे चलते हुये अमगवां ग्राम की राजस्व सीमा तक.

**पूर्व—**अमगवां ग्राम की राजस्व सीमा से दक्षिण की ओर चलते हुये अमगवां एवं धनगवां की राजस्व सीमा के कोने तक.

**दक्षिण—**धनगवां ग्राम की राजस्व सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुये गैरतगंज की पूर्वी राजस्व सीमा तक अर्थात् संजय ढाबा तक.

**पश्चिम—**गैरतगंज की राजस्व सीमा अर्थात् रायसेन से सागर जाने वाले रोड के सहारे चलते हुये एवं सिलवानी जाने वाले तिराहे को पार करते हुये चांदोनी ग्राम की राजस्व सीमा तक.

**वार्ड क्र. 13— छत्रपति शिवाजी वार्ड**

**उत्तर पूर्व—**रायसेन, सागर जाने वाले रोड पर बीना नदी के पुल से पूर्व की ओर रोड के सहारे चलते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील उत्कृष्ट विद्यालय व बीआरसी भवन को शामिल करते हुये सीधे पेट्रोल पंप को लेते हुये संजय ढाबा तक. संजय ढाबा से चलते हुये धनगवां ग्राम की राजस्व सीमा तक.

**दक्षिण—**धनगवां एवं गैरतगंज की राजस्व सीमा से आगे चलते हुये सागर-रायसेन जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास नाले अर्थात् राजेश शर्मा की दुकान एवं नाला क्रास करते हुये वहां से आगे बाउण्डी वाल के सहारे पश्चिम की ओर चलते हुये बीआरसी भवन के पीछे हैण्डपंप पीएचई विभाग का भवन उत्कृष्ट विद्यालय की पूर्वी सीमा नगर पंचायत का दयूबवेल की शामिल करते हुये गीधन नाले को शामिल करते हुये सीधे बीना नदी के मध्य तक.

**पश्चिम—**बीना नदी में मिलने वाले गीधन नाले के मध्य केन्द्र बिन्दु से उत्तर की ओर नदी के सहारे चलते हुये एनएच 86 पर बने पुल के मध्य तक.

**वार्ड क्र. 14— सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड**

**उत्तर—**गेंहूरास के पश्चिम उत्तरी कोने पर गीधन नाले की पूर्व की ओर नाले के सहारे चलते हुये एवं गेंहूरास-गैरतगंज की राजस्व सीमा से चलते हुये धनगवां ग्राम एवं ग्राम खमरिया की राजस्व सीमा तक.

**पूर्व—**धनगवां एवं ग्राम खमरिया की राजस्व सीमा से चलते हुये आगे चुरका ग्राम की राजस्व सीमा तक.

**दक्षिण—**चुरका ग्राम की राजस्व सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुये बहोरी घाट की राजस्व सीमा अर्थात् बीना नदी के मध्य केन्द्र बिन्दु तक.

**पश्चिम—**बहोरी घाट अर्थात् बीना नदी के सहारे उत्तर की ओर चलते हुये गैरतगंज एवं गेंहूरास की राजस्व सीमा पर गीधन नाला जो बीना नदी से मिलता है, गेंहूरास की पश्चिमी उत्तरी कोने तक.

**वार्ड क्र. 15— डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड**

**उत्तर—**रायसेन, सागर जाने वाले मार्ग पर टोल टैक्स नाके के पास बनी पुलिया से पूर्व दिशा में रोड के सहारे चलते हुये शिवराज ठाकुर के मकान को लेते हुये सीधे आगे चलते हुये कृषि विभाग के भवन को लेते हुये आगे सुरेश शर्मा के मकान, होटल को लेते हुये बीना नदी पर बने पुल के मध्य तक.

**पूर्व—**सागर, रायसेन रोड पर बने बीना नदी के पुल के मध्य से दक्षिण की ओर नदी के सहारे चलते हुये ग्राम कैसली की राजस्व सीमा तक.

**दक्षिण—**ग्राम कैसली की राजस्व सीमा एवं बीना नदी के कोने से पश्चिम की ओर सीधे चलते हुये आगे कैसली एवं सहजपुर ग्राम की राजस्व सीमा तक.

**पश्चिम—**ग्राम कैसली एवं ग्राम सहजपुर की राजस्व सीमा के कोने से उत्तर के सीधे चलते हुये रायसेन से सागर रोड पर टोल टैक्स नाके के पास बनी पुलिया तक.

जे. के. जैन, कलेक्टर,

Raisen, the 30th April 2014

No. 234-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-450-XVIII-3-04, Date 24th February 2004 of Urban Administration & Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, J. K. Jain, Collector, Distt. Raisen, Madhya Pradesh under section 29(1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Municipal Council Gairatganj as per Schedule below :—

**SCHEDULE**

Ward No. (1)	Name of the Ward (2)
1.	Mahatma Gandhi Ward
2.	Subhash Chand Boss Ward
3.	Bhagat Singh Ward
4.	Balgangadhar Tilak Ward

(1)	(2)
5.	Rani Durgawati Ward
6.	Chandra Shekhar Ajad Ward
7.	Bhim Rao Ambedkar Ward
8.	Maharani Laxmi Bai Ward
9.	Jawahar Lal Nehru Ward
10.	Maharana Pratap Ward
11.	Mahatma Phule Ward
12.	Dr. Rajendra Prasad Ward
13.	Chhatarpatti Shivaji Ward
14.	Sardar Ballabh Bai Patel Ward
15.	Dr. Shyam Prasad Mukharji Ward

**Ward No. 01—MAHATMA GANDHI WARD**

**North**—From the west corner of Tekapar (gadi) Usarmeta Revenue boundary towards straight line meets in south and cross the way towards Mandi though house of Shri Preetam Singh.

**East**—From the revenue boundary of Usermeta in south directions and cross the mandi road and include the home of Shri Preetam Singh next telephone tower, (near the home of Khoobchand Jain besides including the home of Smt. Shobha sister on the Sagar-Raisen-NH 86 way upto the home of Shri Rambabu Yadav.

**South**—From the home of Shri Rambabu Yadav towards Raisen NH 86 way in the side including Hanuman Mandir straight to the home of Chobeji, then next including water overhead tank and petrol pump upto “Puliya”.

**West**—From revenue boundary of Sahajpur to straight upto west-north corner of revenue boundary of tekapar gadi and Usermeta.

**Ward No. 02—SUBHASH CHANDRA BOSS WARD**

**North**—Village Usermeta rev, range at Mandi road house Sangit Maharaj, Rajaram Sahu's house direction to Dinesh Srivastava house to Dinesh Srivastava house to Adil Bai east flank.

**East**—South-West flank of culverts stream to the house of Raghuvir Srivastava, Raghuvir Srivastava house direction to Anil Srivastava residency. Narmada Patwari residency to Gopilal Sahu residency.

**South**—Gopilal Sahu house next to the Society of marketing. Jain Temple to plot the Laxmichand Nayak.

**West**—Located on NH-86 from the north flank HP Laxmichand Nayak plotto H. P. Public School Cross the culvert. Mandi route to house Sangit Maharaj.

**Ward No. 03—BHAGAT SINGH WARD**

**North**—Village Usrmeta the rev range to Binariveron the east side of to Centre point. Mandi culvert to the Westernflank of the Munnalal house.

**East**—Bina River Centre point to Raisen-Sagar of NH-86 route are included. Bina culvert.

**South**—Sagar-Raisen Bina river bridge on the road to NH-86. Cross the road to find Rest house Jain Dharmshala and westernflank of the Marketing Society Lakan Sen stores to shop.

**West**—Sagar-Raisen located on NH-86 road Mr. Lakan Sen store to PTI Sir house's North-West direction. Mr. Virendra Sharma residency to Bhadoria master live next to the plot. In the north flank of the Singh Sahib's home Bhadoria master to the master's house. Munna Rai house to culvert.

**Ward No. 04—BALGANGADHAR TILAK WARD**

**North**—Bina river stop dams road from the east flank to them market square.

**East**—Market square to the south flank of the mosque. Sagar-Bhopal road to shop the Nayak ji.

**South**—Raj Kumar Nayak store to Bina river bridge.

**West**—Bina river beside to flank the Ram Janaki temple to the Sankat Mochan Hanuman Sankat Mochan Hanuman temple to stop dams. Ram Babu residency to Lal Mian Mansuri residency. Jiwani gir house to Saeed Mansouri and Mohd. Shafiq Vichhu Bidi house to Rambabu residency.

**Ward No. 05—RANI DURGAWATI WARD**

**North**—Teacher Rakesh Sharma, Chandu's house Mansuri home and crematorium in the crematorium road to flank.

**East**—The largest Jain temple Rakesh Sharma's house to the southflank. And further to the Unani Safakhana.

**South**—Chhakul Sahu, Unani Hospital. Flank of the dam road.

**West**—Chandu Mansuri house to teacher Rajes Sharma to flank the river Bina.

**Ward No. 06—CHANDRA SHEKHAR AJAD WARD**

**North**—Bina river to Bandoli rev. rage to Halali culvert.

**East**—Bandoli village south flank revenue rage limit Halali to tube wells.

**South**—Tubewells western flank in Munna Lal Sahu house.

**West**—Sima Munna Sahu to Rajes Sharms's house to the house. The revenue limit Bandoli Village road crematorium.

**Ward No. 07—BHIM RAO AMBEDKAR WARD**

**North**—Munna Sweeper hosue to Halali. Babu's Khan house in the south flank of the culvert to drain.

**South**—Pathe Western flank of the valley, in the house of Babu Khan Srif Kurasit to the house and ahead Syed Tariq to the house in front of the red temple in front of Jama Masjid of Sures Chand Nayak Dr. Sfik to shop Sefu house from the mosque, Kasaie Mandi Colony to Pathan house.

**West**—Pradeep Shrivastava, Masood Ahmed from house to house

**Ward No. 08—MAHARANI LAXMI BAI WARD**

**North**—Chand Mia's apartment to apartment Latif Kurasi.

**East**—Latif Kurasi, Virendra's Pateriya house to the house. Airtel Tower to Sikharchand house. Ange Vrindavan Chandrawansi road to the house.

**South**—Vrindvan Chandrawansi Bhupasingh Patel's house in West flank. Mohammed Shafiq next to the house.

**West**—Shafiq Mohammed's house to house of Uttam Chand. Nazim Bhai house to Chand Mia's house.

**Ward No. 09—JAWAHAR LAL NEHRU WARD**

**North**—From the watch' shop of rakesh Jain in east Direction including Bhaiya Lal Jain's house upto Vijay Patel house, shop and from there including Rajmal Jain's house upto well near Daou's house and from there including Gulab Tandan's house through road including Jaishankar house including Naem Bijali Wala's house upto north corner of Police Chouki on Raisen road.

**East**—From north corner of Police Station on Sagarpur road upto old Police Chouki.

**South**—From old Police Station in west direction through road including bus stand upto Shri Pannalal Sharma's house near old Police Chouki.

**West**—From Shri Pannalal Sharma's shop near old Police Chouki in north direction through road direction through road upto Rakesh Jain's watch shop.

**Ward No. 10—MAHARANA PRATAP WARD**

**North**—From corner of road which goes to Usermeta on the Revenue border of Bandoli Gram in east direction on that point upto where straight line Imran's house.

**East**—From Revenue border of Bandoli Gram in straight line south direction crossing from and nala upto Imran house from there in east direction throught road upto Ganesh Rajak house & from there upto Platform infront of Manoj house.

**South**—From Platform in front of Manoj Jain house in west direection upto Sankat Mochan Hanuman Temple.

**West**—From Sankat Mochan Hanuman Temple in north direction throught road include Tahir Bai house on square upto Pulia & from there thought nala up to Revenue border of Bandoli Gram.

**Ward No. 11—MAHATMA PHULE WARD**

**North**—From Bandoli Gram & from there Revenue border Chandoni Ganj in straight up to road which goes to Sagar.

**East**—From road which goes to Sagar in the direction of Raisen including Raghuwanshi Hotel including Madhav Store including Panchvati Hotel up to north corner of Police Station.

**South**—From north corner Police Station situated on Sagar Raisen road from Shri Saif Ali shop in west direction throught road up to Shri Mansingh Bhura house.

**West**—From the corner of Mansingh Bura house throught road up to Wahid Kureshi's house & from there in north direction on that point three the Revenue border of Bandoli Gram & Chandoni Ganj meets.

**Ward No. 12—DR. RAJENDRA PRASAD WARD**

**North**—From crossing the Sagar road in Revenue border of Chandoni Gram up to Revenue border of Aamgava Gram.

**East**—From Revenue border of Aamgava Gram in straight south direction up to corner of Revenue border of Aamgava and Dhangava.

**South**—From Revenue border of Dhangava Gram in west direction up to Revenue border of Gairatganj that in Sanay Hotel.

**West**—From Revenue border of Gairatganj that is the road which goes to Raisen to Sagar and the traingle from which goes to Silwani up to Revenue border of Chandoni Gram.

**Ward No. 13—Chhatrapati Shivaji Ward**

**North**—On the road which goes Raisen Sagar from the Pull on Bina River in east direction include PHC Hospital, Tehsil, Excellence School and including BRC Building in straight direction up Sanjay Hotel including petrol pump.

**East**—From Sanjay Hotel in Straight direction up to Dhangava Gram.

**South**—From the Revenue border of Dhangava and Gairatganj on the Sagar-Raisen road at Pulia near nala that is shop of Rajesh Sharma's and by crossing nala in west direction

throught including boundary wall in back side of BRC Building, Handpump, Building of PHE Deppt. Excellence School east boundary, Panchayat Tube well etc. up to Gidhan Nala throught Bina River.

**West**—From centre point of Gidhan Nala which meets Bina river in north direction throught river up to center of Pull stated on N. H.-86.

**Ward No. 14—SARDAR BALLABH BHAI PATEL WARD**

**North**—From west north of Gehuras throught Didhan Nala in east direction through Revenue border of Gehuras Gairatganj up to Revenue border Dhangava and Khamariya Gram.

**East**—From the Revenue border of Dhangava and Gram Khamaria up to revenue border of Churakka Gram.

**South**—From the Revenue border of Churakka Gram in west direction up to Bamhori Ghat that is centre of Bina River.

**West**—From Bamhori Ghat that is Bina river in north direction through Revenue border of Ghuras Gairatganj on Gidhan Nala which meets up to west north corner of Gehuras.

**Ward No. 15—SHYAM PRASAD MUKHARJI WARD**

**North**—From Pulia near Toll Tax Naka in east direction through road including Shivraj Thakur's house in straight direction including Krishi Department building including Surendra Sharma's house. Hotel up to the centre of Pull on Bina River.

**East**—From the Centre of Pull on Bina River on Raisen road up to Revenue border of Kaishali Gram throught River.

**South**—From the Revenue border of Kaishali Gram and the corner of Bina River in west direction in straight up to Revenue border of Kaishali and Shahajpur Gram.

**West**—From the corner of Revenues border of Gram Kaishali and Shahajpur Gram in north direction up to pulia near Toll Tax Naka on Sagar Raisen road.

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. 235-सीमा वृद्धि-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा एतद्वारा नगरपालिका परिषद् मण्डीदीप जिला रायसेन (म. प्र.) की सीमा अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अधिप्राय प्रकट करता है। अनुसूची-एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगरपालिका परिषद् मण्डीदीप की सीमा में शामिल हो जाने पर नगरपालिका परिषद् मण्डीदीप की चतुरसीमा अनुसूची-दो के अनुसार हो जायेगी।

अनुसूची-एक के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात से आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर, जिला रायसेन म. प्र. को प्रस्तुत कर सकेगा। प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

### अनुसूची-एक

#### नगरपालिका परिषद् मण्डीदीप, जिला रायसेन की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्तावित क्षेत्रफल

अ. क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले		क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल का विवरण
			सर्वे नम्बर	(4)		
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)
1	गौहरगंज	सतलापुर	01 से 305 तक		963.15	सम्पूर्ण
2	गौहरगंज	पिपलिया लोरका	01 से 321 तक		1772.95	सम्पूर्ण
3	गौहरगंज	टीलाखेड़ी	01 से 105 तक		468.18	सम्पूर्ण
4	गौहरगंज	खनपुरा	01 से 156 तक		591.81	सम्पूर्ण
5	गौहरगंज	मोइजपुरा	01 से 61 तक		195.91	सम्पूर्ण
6	गौहरगंज	झलारकलां	01 से 31 तक		189.19	सम्पूर्ण
7	गौहरगंज	नयापुरा	01 से 119 तक		421.41	सम्पूर्ण
8	गौहरगंज	पिपलिया गज्जू	01 से 189 तक		805.46	सम्पूर्ण
9	गौहरगंज	इटायाकलां	01 से 279 तक		931.91	सम्पूर्ण
10	गौहरगंज	हमीरी	01 से 97 तक		474.56	सम्पूर्ण
11	गौहरगंज	खेजड़ी	01 से 53 तक		225.19	सम्पूर्ण
12	गौहरगंज	खामखेड़ा	01 से 165 तक		493.79	सम्पूर्ण
13	गौहरगंज	मूडला	01 से 98 तक		418.87	सम्पूर्ण
14	गौहरगंज	सराकियां	01 से 338 तक		1596.51	सम्पूर्ण
15	गौहरगंज	सिमराई	01 से 209 तक		937.12	सम्पूर्ण

### अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् मण्डीदीप नगरपालिका परिषद् की चतुर्थ सीमा निम्नानुसार होगी:—

उत्तर दिशा—कलियासोत नदी की सीमा

पूर्व दिशा—कीरतनगर ग्राम की सीमा

दक्षिण दिशा—नानाखेड़ी ग्राम की सीमा

पश्चिम दिशा—पड़ोनिया ग्राम की सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर,

Raisen, the 30th April 2014

No. 235-सीमा वृद्धि--2014.—In exercise power conformed by clause 5-A Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government here by notify its intension to include proposed area which are shown in the Schedule below Table-One with in the limit of Nagar Palika Parishad Mandideep, District Raisen if the villages will be inserred in the Mandideep the boundaries are shown in according to Schedule-Two.

The Local authority having jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector, District Raisen with in thirty days from the date of publication of the notification, State Government take such objection in to consideration:—

#### SCHEDULE-ONE

Recived boundary of Nagar Palika Mandideep including the area shown in Schedule:—

Sl. No.	Tehsil	Name of Village	Survey No. which inserted in Nagar Palika Area	Area	Description of Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Goharganj	Satlapur	01 upto 305	963.15	All
2	Goharganj	Pipaliya Lorka	01 upto 321	1772.95	All
3	Goharganj	Teelakhedi	01 upto 105	468.18	All
4	Goharganj	Khanpura	01 upto 156	591.81	All
5	Goharganj	Moijpura	01 upto 61	195.91	All
6	Goharganj	Jhalar Kalan	01 upto 31	189.19	All
7	Goharganj	Nayapura	01 upto 119	421.41	All
8	Goharganj	Pipaliya Gajju	01 upto 189	805.46	All
9	Goharganj	Etaya Kalan	01 upto 279	931.91	All
10	Goharganj	Hamiri	01 upto 97	474.56	All
11	Goharganj	Khejdi	01 upto 53	225.19	All
12	Goharganj	Khamkheda	01 upto 165	493.79	All
13	Goharganj	Mudala	01 upto 98	418.87	All
14	Goharganj	Srakiya	01 upto 338	1596.51	All
15	Goharganj	Simrai	01 upto 209	937.12	All

#### SCHEDULE-TWO

The above schedule shown below the Nagar Palika Parishad Mandideep, out of fourth for boundaries will be as under:—

**North**—Kaliyasot River

**East**—Village Kirat Nagar

**South**—Village Nanakhedi

**West**—Village Padoniya

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

**J. K. Jain**, Collector.